

**THE BOOK WAS  
DRENCHED**

UNIVERSAL  
LIBRARY

OU\_176160

UNIVERSAL  
LIBRARY



# Osmania University Library

Call No. H181.4  
R14V

Accession No.  
GH 1689

Author रोहुत्य सांस्कृत्यामन

Title वैज्ञानिक भौतिकवाद 1915

This book should be returned on or before the date last marked below.







# वैज्ञानिक भौतिकवाद

राहुल सांकृत्यायन

किताब महल  
प्रयाग





मानवताकां एकमात्र आशा संसारके  
लाखों कर्मिस्त शहीदोंकी  
स्मृतिमें



## प्राक्कथन

आज हम साइंसके युगमें हैं, किन्तु तब भी शिक्षित लोगोंमें भी बहुतसे साइंस-युगके पहिलेके मृत विचार ही चल रहे हैं। इसमें एक कारण यह भी है, कि जिज्ञासुओंके पास उसके जाननेके लिये हिन्दीमें पुस्तकें मौजूद नहीं हैं। इस कमीको पूरा करनेका इरादा, दो वर्ष पहिले जब मैं हजारीबाग जेलमें नजरबंद होकर आया, तभी हुआ; और काम भी शुरू कर दिया। सामग्री जमा करते वक्त पता लगा, कि ऐसी पुस्तक लिखना हिन्दीमें बेकार है, जब तक कि साइंस, समाजशास्त्र और दर्शनकी सामग्री भी पाठकोंके लिये जुटा न दी जाय। जब मैंने हजारीबागमें लिखे सौ पृष्ठोंको बेकार समझ देवली (२१-७-४१)में वैज्ञानिक भौतिकवादपर साइंससे लिखाई शुरू की, उस समय तक यही खयाल था, कि एक ही पुस्तकमें सब चीज़ें आ जायेंगी; किन्तु पता लगा, कि अलग-अलग विषयोंपर डेढ़-पौने दो हजार पृष्ठका एक पोथा लिखनेकी जगह सबको अलग-अलग पुस्तक मान लेना ही अच्छा है; इस प्रकार एक पुस्तककी जगह चार पुस्तकें लिखनी पड़ीं—

- (१) विश्वकी रूपरेखा (साइंस)
- (२) मानव-समाज (समाज-शास्त्र)
- (३) दर्शन-दिग्दर्शन (दर्शन)
- (४) वैज्ञानिक-भौतिकवाद

इसमें वैज्ञानिक-भौतिकवाद सबसे छोटी पुस्तक है, जिसका कारण एक यह भी है, कि इसमें आनेवाले कितने ही विषय दूसरे ग्रंथोंमें आ चुके हैं; वस्तुतः बाकी तीनों "वैज्ञानिक-भौतिकवाद"के ही परिवार ग्रंथ हैं।

पुस्तकके गहन विषयको सरल और स्पष्ट करनेकी मैंने भरमक कोशिश की है, किन्तु उममें कितनी सफलता हुई है, इसके प्रमाण पाठक ही हो सकते हैं ।

अपने विषयके प्रतिपादनमें मुझे दूसरे विरोधी मतोंकी आलोचना करनी पड़ी है, जिसके लिये मैं मजबूर था; सम्भव है किसीको इससे दुःख हो, जिसके लिये मुझे खेद होगा; मैंने तो “वादे-वादे जायते तत्त्व-बोधः”की उक्तिको सामने रखकर वैसा किया है ।

जिन ग्रंथोंसे मैंने सहायता ली, उनकी सूची मैं अलग दे रहा हूँ; लेकिन इतना ही कर देनेसे मैं अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं समझता । मैं समझता हूँ, इस पुस्तकके लिखनेका सारा श्रेय इन्हीं ग्रंथकारोंको मिलना चाहिये, मैंने तो मधुमक्खीकी भाँति मधु-संग्रह मात्र किया है, असली धन तो उन्हींका है ।

मुझे एक बार विश्वास होने लगा था, कि तीसरा ग्रंथ (दर्शन-दिग्दर्शन) ही यदि समाप्त हो जाय तो गनीमत समझना चाहिये; किन्तु उसके समाप्त करते ही (११-३-४२) मैंने तै कर लिया, कि वर्त्तमान ग्रंथको लिखना शुरू कर देना होगा, और अपनेको “ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना” समझते इसे आज समाप्त कर सका हूँ ।

सेंट्रल जेल, हजारीबाग

२४-३-४२

}

राहुल सांकृत्यायन

### दूसरा संस्करण

इस संस्करणमें मैंने सिर्फ पहिले अध्यायको अन्तमें डाल दिया है, इतना समय नहीं निकाल सका कि कठिन अध्यायको और सरल कर सकता । और सरल करनेकी आवश्यकता है ।

प्रयाग

१०-१२-४३

}

राहुल सांकृत्यायन

# वैज्ञानिक भौतिकवाद

## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
<b>प्रथम अध्याय</b>		३. धर्म-सार	६१
कार्य-कारण (हेतुवाद)	१	(१) आत्मा और दिव्य-शक्तिकी कल्पना	६१
क-कार्य-कारण या हेतु	"	(२) थ्योसोफी और सखी-समाज	६४
१. व्याख्या	"	(३) दुनियामें देव-कल्पना	६७
२. नियतिवाद	३	(i) बाबुल	"
३. साइंस के नियम	८	(ii) यूनान	६८
४. मनुष्यकी स्वतंत्रता	१०	(iii) प्राचीन स्लाव	६६
५. तर्क-निर्भर नहीं, वस्तु-निर्भर हेतुवाद	१२	(iv) भारत	७१
६. प्रायिकता	१४	(४) पूर्व और पश्चिममें धार्मिक प्रतिक्रिया	७३
<b>ख-सत्य-असत्यका ज्ञान</b>	१७	(५) जीव अजर-अमर	७६
१. सत्य	"	<b>ख-आचार-विचार</b>	८३
२. सत्य-ज्ञान	१८	१. आचार-विचार परिवर्तनशील,,	
३. प्रयोग और सिद्धान्तकी एकता	२१	२. प्राचीन भारतमें यौन सदा-चार	८४
(१) करनी और कथनी	२८	३. हमारा और पूँजीवादी सदाचार	८७
(२) गांधीवादी प्रयोग	३१	४. समाज-हित सदाचारकी कसौटी	८६
(गुहामानवका नारा)	३४	(समाज)	९०
<b>द्वितीय अध्याय</b>	३६	<b>ग-दृष्टिके विकार</b>	९३
मूढ़ विश्वास	"	१. उदयनका ईश्वरवाद	"
क-धर्म और धार्मिक तत्त्व	४०	२. प्रयोजनवाद	९६
१. धर्म बेकार	"	३. विशानवाद	९६
२. धर्मके नये व्याख्याकार	४६		
(१) हिन्दू-धर्मकी विशेषता	"		
(२) धर्म सर्वोपरि	५६		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
<b>तृतीय अध्याय १०५</b>		(i) व्याख्या	१३४
<b>भूत और द्वंद्ववाद</b>	”	(ii) उद्देश्य	१३५
<b>क-भूत या भौतिकतरव</b>	”	(iii) साइंसवेत्ता और वैज्ञानिक भौतिकवाद	१३७
१. भूतकी व्याख्या	”	(iv) भूतकी प्रधानता	१३८
२. विरोधियोंके आक्षेपोंका उत्तर	१०७	(v) वैज्ञानिक भौतिकवाद के सामने काम	१४१
<b>ख-भौतिकवाद</b>	१११	(vi) सत्य बनाया नहीं जाता	१४४
१. व्याख्या	”	(vii) फ्वेरबाख्पर ग्यारह सूत्र	”
२. विरोधियोंके आक्षेपका उत्तर	११२	३. परिवर्तनकी घटना-शृंखला	१४६
३. भौतिक-वादियोंका आदर्श	११४	(१) विरोधि-समागम	”
<b>ग-द्वंद्ववाद</b>	११७	(१) व्याख्या	१५०
१. व्याख्या	११८	(२) स्वरूप	१५६
२. द्वंदात्मक विधिकी विशेषता,	”	(३) संघर्ष, समागम साम्यावस्था	१५८
३. द्वंद्ववादके सोलह सूत्र	१२०	(२) गुणात्मक-परिवर्तन	१६०
४. क्षणिकवाद	१२३	(१) व्याख्या	”
(१) परिवर्तन	१२४	(२) जीवन और भूत	१६२
(सदृश उत्पत्ति)	१२८	(३) दृष्टान्त	१६५
(२) गति	”	(४) मन	१६८
(३) विश्व विच्छेद-युक्त प्रवाह	१२६	(५) जाति-परिवर्तन	१७३
<b>घ-द्वंदात्मक (वैज्ञानिक) भौतिकवाद</b>	१३१	(६) मनुष्य और उसके समाजमें गुणात्मक-परिवर्तन	१७५
१. यांत्रिक भौतिकवाद	”	(३) प्रतिषेधका प्रतिषेध	१७७
२. वैज्ञानिक भौतिकवाद	१३३		

# वैज्ञानिक भौतिकवाद

## प्रथम अध्याय

### कार्य-कारण ( हेतुवाद )

द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दर्शन नहीं, बल्कि साइंसका अभिनायकत्व है, इसीलिये वह जो भी शक्ति रखता है, वह उसे साइंससे मिली है— यह हम पहले कह चुके। किन्तु, प्रचलित दर्शनवालोंके मुकाबिलेमें हम इसे दर्शन—और उनसे कहीं बढ़-चढ़कर दर्शन—भी कह सकते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपनेको प्रचलित तर्कशास्त्रकी कोटिमें रखनेके लिये तैयार नहीं है, क्योंकि वह दिमागी कसरतको नहीं बल्कि प्रयोग ( भौतिक जगत्में प्राप्त वस्तु स्थिति )को परम प्रमाण मानता है, यही उसके लिये सत्यकी सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। तो भी जिस तरह प्रचलित दर्शनसे लोहा लेनेके लिये उसे दर्शन बनकर दर्शनकी भाषामें जवाब देना पड़ता है, उसी तरह तर्कके शास्त्रको कुंठित करनेके लिये उसे तर्कके जनक प्रयोग जैसे महाशास्त्रवाले तर्कों भी हस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी अवस्थामें वैज्ञानिक भौतिकवादको कार्यकारण ( हेतु )वादके बारेमें अपनी स्थितिको साफ कर देना जरूरी है।

### क. कार्य-कारण या हेतु

#### १. व्याख्या

कार्य-कारण नियम क्या है ? इसे जाननेके लिये पहले कारणकी ज्ञानना जरूरी है। कारणका जो लक्षण अभी हम दे रहे हैं, उसके बारेमें यह ज्ञान लेना जरूरी है : प्रकृतिको यह बिलकुल मंजूर नहीं है कि उसकी वास्तविकताको परमार्थ तौरपर चित्रित या भाषित किया जाये।—कस्तुतः दार्शनिकों और तार्किकोंके अर्थमें परमार्थ नामका जो



शब्द है, वह प्रकृतिके कोशमें मौजूद ही नहीं है। वास्तविकताके लिये प्रयोगकी कसौटी हाथमें ले कैसे आइन्स्टाइन<sup>१</sup> सापेक्षतावादपर पहुँचे, इसे आपने पढ़ा होगा ; उससे हमारी बात समझनेमें न दिक्कत होगी, न उसमें रहस्यवादी अर्थ खोजनेकी आप कोशिश करेंगे।

अच्छा तो कारण क्या है ? यहाँ फिर स्मरण रखना होगा कि जब हम कहते हैं—क़छ कारण हैं, जो अमुक परिवर्तनको ला रहे हैं; तो परिवर्तन लानेमें वहाँ हम देश और कालको नहीं गिनते, गोया देश-काल किसी चीजके कारण नहीं हैं। आप प्रश्न कर उठेंगे—क्या देश-कालका अस्तित्व ही नहीं है ? क्या आप भी वेदान्ती हो गये ? नहीं, इन दोनों बातोंकी शंका आपके मनमें नहीं होनी चाहिये। हम देश-कालसे इन्कार नहीं करते, हम इन्कार करते हैं, उनके दार्शनिक अर्थमें परमार्थ होनेसे। देश-काल वस्तुतः भूत ( भौतिकतत्त्व )के अस्तित्वके ही—उससे कभी अलग नहीं रहनेवाले—पहलू हैं। जैसे गिनती प्रकृतिके यहाँ उस तरह नहीं मिलती, जैसी कि हमारी गणितकी पुस्तकोंमें<sup>२</sup>; उसी तरह देश-काल भी द्वन्द्व्वात्मक प्रकृति ( भूत, गति )से अलग कोई हस्ती नहीं रखते। कारणका काम है क्रिया करना। क्रिया बिना अपने या दूसरेमें कोई परिवर्तन किये नहीं हो सकती। दार्शनिकोंका देश-काल-आकाश, आत्मा ( ईश्वरको भी ले लीजिये )—कोई काम नहीं करते, वह निष्क्रियतत्त्व हैं। निष्क्रिय होनेपर भी यह निराकार पदार्थ हैं—यह संध्याभाषा है, जिसका समझना मर्त्योंकी शक्तिसे बाहर है; शायद इसे भौंगका गोला चढ़ाये भोला बाबा या उनका नाँदिया ही समझ पाये।

फिर यह भी स्मरण रखना है कि कारण भी कोई परमार्थके अर्थमें नहीं होता—एक बार कारण है तो वह सदा कारण रहेगा, ऐसा प्रकृति-

<sup>१</sup>देखिये “विश्वकी रूपरेखा” ( किताब-महल, प्रयाग )

में नहीं मिलता । जिस तरह हर एक पिता किसीका पुत्र भी है, उसी तरह हर एक कारण किसी ( नहीं किन्हीं कहना अच्छा है क्योंकि प्रकृति बहु-पति-विवाह—यूथ-विवाह—को बहुत पसन्द करती है ! एक कारण नहीं कारण-सामग्री—कारण-समुदाय—कार्यको अस्तित्वमें लानेमें समर्थ होते हैं ) किन्हीं पहिले कारण-समुदायोंकी प्रसूति—कार्य होता है । यह ख्यालमें रखते हुये आप कारणकी परिभाषा कर सकते हैं—कारण वह वस्तु ( घटना-प्रवाह ) है, जो कि नियमपूर्वक किसी परिवर्तनके तुरन्त पूर्व मौजूद ( कार्य-नियत-पूर्व-वृत्ति ) था, और यदि उन्हीं परिस्थितियोंमें वैसा कारण (समुदाय) फिर मौजूद हुआ, तो उसी तरहके कार्य (घटना-प्रवाह) अस्तित्वमें आयेंगे ।

तब कार्य-करण नियम होगा—यदि एक खास घटना-प्रवाह ( आसानीके लिए वस्तु कह लीजिये ) वस्तुतः मौजूद है, तो उससे पहिले एक दूसरा अनूकूल घटना-प्रवाह वहाँ अवश्य मौजूद रहा होगा । अवश्य मौजूदगी कारण होनेके लिये जरूरी है ।

## २. नियतिवाद

कार्य-कारण-नियममें नियम—नियति = अवश्यंभाविता—दुबकके बैठा हुआ है; जिससे नियतिवादका प्रसव बिल्कुल आसानीसे हो सकता है । प्रकृतिमें कार्य-कारण-नियम हर जगह बराबर दिखाई पड़ता है । किन्तु इस तरहके कड़े नियमको जब हम एक मनुष्य या अनेक मनुष्यों-पर लागू करना चाहते हैं, तो भारी दिक्कत हीका सामना नहीं करना पड़ता; बल्कि कितनी ही बार वह व्यक्ति या व्यक्ति-समूह उसे लागू होने नहीं देता; यही वजह है, जो कि हम प्रकृतिके बारेमें जितने इतमीनानके साथ भविष्य कथन कर सकते हैं, मनुष्यके बारेमें उतना

नहीं कर सकते। आप इससे खुश न होइये—अच्छा हुआ जो मनुष्यकी (इच्छा या कर्ममें) स्वतंत्रता सुरक्षित रह गई, और वह नियतिके पाशमें बँधा “मदारी”का भालू नहीं बन गया। नियतिवाद और स्वातंत्र्यवादकी समस्या काफी गहन है—खासकर जब कि प्रकृति ( प्रयोग )का सहारा छोड़ लीग इससे आकाशके सितारे तोड़ने लगते हैं।

हाँ, तो प्रश्न है—जब प्रकृतिमें सर्वत्र कार्य-कारण-नियम व्याप्य हुआ है ( इसे मानने बिना कोई साइंस-संबंधी गवेषणा संभव नहीं ), तो मनुष्यकी “स्वतंत्र: कर्त्ता” कैसे कह सकते हैं ? कार्य-कारण-नियम एक ज़बेर्दस्त नियति ( भाग्य ) है; जिसके द्वारा विश्वकी प्रत्येक वस्तु ( घटना-प्रवाह ) नियत है; तभी तो हम प्रयोगशाला, या वेधशालामें कार्यसे कारण तक पहुँचनेका प्रयत्न करते हैं; अथवा कारणसे कार्यके संभव होनेका ख्यालकर उसके पानेके लिये परिश्रम करते हैं। फिर तो बेचारा मनुष्य हाथ-पैरसे बँधा है, उसकी तो साँस भी इसी कार्य-कारण-नियमके अधीन है। इसका अर्थ दूसरे शब्दोंमें यह हुआ कि हमारी इच्छा हमारे अन्तस्तम विचार सभी नियति—भाग्यके हाथमें हैं। फिर तो यह भी मानना पड़ेगा कि विश्वके भीतर एक खास प्रयोजन छिपा मालूम होता है, और उसका संचालक ‘ईश्वर’ यह सब कुछ एक खास प्रयोजनसे करता है। किंतु अभी इतनी दूर तक जानेकी ज़रूरत नहीं; क्योंकि नियतिवाद दुधारी तलवार है, यदि वह मानवको हाथ-पैर बाँधकर छोड़ देगा, तो ईश्वरकी दशा भी उससे बेहतर न होगी, वह भी नियतिके हाथकी कठपुतली मात्र रह जायेगा।

देखना है—क्या कार्य-कारण-नियम सचमुच ही इतना प्रबल है। यदि ऐसा होता तो कार्य-कारणको एक तलपर ठीक चक्र काटते देखते और कारणके बाद कार्य, उस कार्यके कारण बन जानेपर भी वही कार्य “फिर वही कारण” इस तरह एक-सी आवृत्ति चलती रहती है। किन्तु इतिहासमें हम कभी इस तरहकी पूर्ण आवृत्ति नहीं देखते; यद्यपि

ऐसा साबित करनेके लिये पूरी कोशिश की जाती है। अंग्रेजी कहावत है—“सूर्य ( आकाश )के नीचे कोई नई चीज नहीं”; जो कि सोलहों आने गलत है, और उसकी जगह कहना चाहिये—“आकाशके नीचे कोई चीज पुरानी नहीं है।” हर एक चीज हर क्षण नई है, इसे हम पहले बतला आये हैं। अंग्रेजीकी कहावतकी भाँति ही भारतकी भी पुरानी गलत कहावत है—“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्” और इसके ऊपर जो तूफाने-बदतमीज़ी बाँधा गया, वह तो “पत्ता भी हिलता नहीं ( बिना उसकी मर्जीके )” जैसी सस्ती हजारों कहावतोंमें देखा जाता है। इसका निदर्शन राम-रावणसे संबंध रखनेवाली हनुमान्की कहानीसे है।

हिन्दुओंके परम देवता वानर हनुमान्, जो-है-सो रामजीकी कृपासे, जगत्-माता जनकनन्दिनी सीताजीके पास जब जा रहे थे, तो उनके मनमें संदेह होता भया—यदि कहां घट-घटकी बात जाननहारी जनक-दुलारी सीता महारानीके मनमें शंका उत्पन्न होती भई कि कौन जाने यह कलमंहा वानर त्रैलोक्यके विधाता दाशरथी रामके पाससे आया है या और कहींसे, तो कैसे करके विश्वास दिला सकूँगा। निदान, यह सोच श्री हनुमान्जी महाराज रामजीसे बोलते भये—“हे त्रिलोकीके प्राता ! हमारे मनमें यह सन्देह होती भई है, सो कृपा करिके हमकी कोई चीन्हा दीजिये।”

रामजीने रामनाम-अंकित मुद्रिकाकी अपनी अंगुलीसे निकालकर श्री हनुमान्जीको प्रदान कर दिया। बेचारे हनुमान्जी रास्तेमें काल-नेमिसे कम न परेशान करनेवाले एक बूढ़ेके फेरमें पड़ गये। उसने धीरेसे हनुमान्की अँगूठी उड़ाई और उसे अपने कमंडलूमें डाल दीनी। हनुमान्जीकी अकल गुम हो गई। कौन मुख लेके रामके पास लौटें, और कौन मुख लेके सीतामाताके पास जायें—मुँहपर भारी कालिख-

❀“सूर्य और चंद्रमाको विधाताने पूर्वकी तरह ही बनाया”—यजुर्वेद

सी पुतन लगी। बूढ़ेको दया आई उसने कमंडलू सामने रखकर कहा— इसके भीतरसे अपनी अँगूठी निकाल ले। हनूमान्ने भाँककर देखा, तो वहाँ अँगूठियोंका ठिकाना न था, और सभी एक ही तरहकी, मानो बूढ़ेने अँगूठीकी एक टकसार ही खोल रखी हुती। बूढ़ेने थोड़ी ही देर बाद नगर जला-स्त्रीबच्चोंके करुण-क्रंदन करानेमें कलियुगके हिट्लरको भी मात करनेवाले-वानर-पुंगवकी पीठपर हाथ फेरते हुए कहा—किस रामकी अँगूठी चाहता है रे !”

“दशरथके पुत्र रामकी !”

“ये सभी दशरथके पुत्र थे, जिनकी अँगूठियाँ यहाँ पड़ी हैं।”

“पुराना नाम साकेत और हाल नाम अयोध्याके राजाकी—।”

“ये सभी अयोध्याके राजा थे।”

“रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीता राम” की। बेचारे हनूमान्ने समझा—इस बूढ़ेने भी गीताप्रेस-कल्याण बंक-लिमिटेडमें बाबा राघवदासकी सिफारिशपर कुछ रामनामकी रकम डिपाजिट की होगी, और अब मेरा काम बन जायगा। लेकिन बूढ़ेने हनूमानकी पीठसे हाथ हटा सिरको नीचा रखे कहा—

“यह सभी ‘रघुपति...सीताराम’की अँगूठियाँ हैं।”

“अरे जिसे कलियुगके नारद विष्णु दिगंबर तंबूरेपर गानेवाले हैं, उस ‘रघुपति...सीताराम’की।”

“कह दिया यह सभी वही अँगूठियाँ हैं, जिन्हें विष्णु दिगंबरके ‘रघुपति...सीताराम’ और सेवामाममें गाये जानेवाले ‘रघुपति...सीताराम’ नामक व्यक्तियोंने एक बार पहिना था। तू इस चक्रमें मत पड़, तेरे जैसे हनूमानों तथा तेरे मालिक जैसे रामोंको एक नहीं छ सौ-छप्पन गंडे मैंने देखे हैं। मैंने ये केश धूपमें नहीं सुखाये हैं। इनमेंसे एक अँगूठी ले, और अपना रास्ता नाप।”

बूढ़ेकी बात सुनकर हनूमान्के उत्साहपर हजार घड़ा पानी पड़ गया। वहाँ अशोक वनमें नजरबन्द सीताके अंकमें अँगूठी फेंकी गई और जगन्माताने जो रोना-धोना शुरू किया उसे जानना चाहते हैं तो संकटमोचनवाले पुराने बाबाके पास चले जायँ।

खैर ! यह तो मालूम हुआ न कि बूढ़े - हिन्दू-धर्म— के कहनेके अनुसार “सूर्यके नीचे कोई चीज नई नहीं।” —मालवीय जीअोंने करोड़ों बार ऐसे हिन्दू विश्वविद्यालय बनाये हैं, सर राधाकृष्णन्ने अनगिनत बार उसमें सोलहो आना गलत-सलत गीतोपदेश किये हैं, और सबसे बढ़कर तो यह बात है कि राहुलोंने भी अरबों...नीलों...संखों...महा-संखों...बार “वैज्ञानिक भौतिकवाद” ठीक इन्हीं पंक्तियों, इन्हीं वर्णानुपूर्वी, इसी हिन्दीभाषामें ऐसे ही मीठे-कड़वे शब्दोंमें लिखे हैं। हाँ, तब तो यह “वैज्ञानिक भौतिकवाद” उतना ही नित्य अपौरुषेय है, जितना कि जैमिनि-शबर-कुमारिल-रामानुज चौकड़ीका अपौरुषेय वेद। मैं तो पैगंबरोंकी भाँति “लौहे-महफूज”पर उत्कीर्ण “वैज्ञानिक भौतिकवाद” का सिर्फ पैगाम भर आपके मामने पहुँचा रहा हूँ, जैसा कि हर कलियुगके ईसवी १६४२ ई०में हिटलर-मुसोलिनीके रण-तांडवके समय मुझसे पहिलेवाले राहुलोंने किया था। यदि आप हनूमान्वाले बूढ़े, जैमिनि, कुमारिल...के सच्चे अनुयायी हैं, तो ईमान लायेंगे कि यह “वैज्ञानिक भौतिकवाद” प्राचीनता अतएव पवित्रतामें वेद, बाइबल, जिन्दावस्था, इंजील, कुरान किसीसे कम नहीं है, और यदि इसमें कुछ और भी बुद्धिकी बात पाते हैं, तो “आमके आम और गुठलीके दाम।”

यह बात न समझिये कि यह पाप सिर्फ हिन्दुअोंने ही किया है। यूनानी और इस्लामिक दार्शनिकोंमें चोटीके विचारक नित्य-ईश्वरको सिद्ध करनेके लिये जगत्की नित्यता (क़दामत्-आलम)को मानना बहुत जरूरी समझते थे, और अपनी बुद्धि-वादिता साबित करनेके लिये कार्य-कारणके नियमको विश्वमें सर्वदासे अटल मानते थे। “नदिया एक

घाट बहुतेरे”की कहावतके अनुसार इस रास्तेसे भी हम सीधे नियति-वादके उसी दलदलमें पहुँच जायँगे। हाँ, इन लोगोंको दलदलमें पहुँचकर ही नहीं, कंठ तक गड़प हो जानेपर अरस्तूने एक तिनकेका सहारा थमाना चाहा—ईश्वर सामान्यका ज्ञान रखता है, विशेषका नहीं; जातिका ज्ञान रखता है व्यक्तिका नहीं। और इसपर भजनाश्रमके भगवद्भक्तोंने अरस्तूकी जो गत बनाई—जो थुककम-फजीहत की, उसे कहनेके लिये, उम्मीद है, आप मुझसे आग्रह नहीं करेंगे। भगवद्भक्तोंने कानमें उँगुली डाली, और अरस्तूकी बात माननेकी जगह चुल्लू भर पानीमें डूब मरना पसंद किया।

खैरियत यही है कि यह सभी बातें गलत हैं। इतिहासके पन्नोंको देखनेसे मालूम होता है कि उसका कोई व्यक्ति कोई घटना वही नहीं होती। कारणका अस्तित्व जिस वक्त हम स्वीकार करते हैं, उसी वक्त कारण की परिभाषा ( परिवर्तन उपस्थित करनेवाला ) भी कबूल करते हैं, और परिवर्तनके बाद फिर ‘वही है’ यदि कहते हैं, तो गोया परिवर्तनसे इन्कार करना चाहते हैं। फिर सिरसे कहिये, कारण ही नहीं है—“न रहे बाँस न बजै बाँसुरी।”

### ३. साइंसके नियम

आप फिर सवाल करेंगे—जब हम प्राकृतिक घटना-प्रवाहपर गौर करते हैं, अपने आस-पासके वातावरण, परिस्थिति तथा सामाजिक जीवन-पर विचार करते हैं, तो इन घटनाओंमें एक खास तौरकी नियमबद्धता देखते हैं—दिन, रात, वर्षा, वसन्त...। प्रकृतिके भीतर जो कुछ है—तारा-ग्रह-उपग्रहसे ले, लुप्ततम कण तक, सबमें एक नियमबद्धता पाई जाती है, जिसे कि प्राकृतिक नियम कहते हैं। इन्हीं नियमोंका पता लगाना साइंसका काम है। यही कार्य-कारण नियम है जो कि प्रकृति और समाजमें हर जगह कल्पनाके तौरपर नहीं, वस्तु-स्थितिके तौरपर

पाया जाता है। साइंस इस कार्य-कारण-नियमका पता लगाकर प्राकृतिक घटनाओंको आकस्मिकतासे हटा नियम-नियंत्रित साबित करता है, और उनपर विश्वासकर साइंसकी देन—रेल, तार, हवाई-जहाज़—को मनुष्यके उपयोग और उपभोगके लिये बनाता—चलाता है। प्रकृति-की हर एक चीजमें नियम है। छल्लून्दर धरतीके भीतर रहती है, जहाँ उसे अच्छी आँखकी उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कि अच्छी श्रवण-शक्तिकी, और इसलिये छल्लून्दर दिव्य-श्रोत्र होनेका दावा कर सकती है। इसी तरह बहुत भारी गहराईमें रहनेवाली सामुद्रिक मछलियोंके शरीरपर अपार जल-राशिका जितना भार रहता है, उससे बचनेके लिये उनके शरीरके भीतरसे जितना दबाव बाहरकी ओर पड़ रहा है, वह, इतना अधिक है कि मछली पानीसे निकलते ही भीतरी दबावके कारण फट जाती है। इस तरह हम फिर कहते हैं—प्रकृति और समाज दोनोंमें ऐसा प्राकृतिक नियम मौजूद है, जिसे हम चाहे जानें या न जानें, वह अपना काम किये जाता है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक घटनाओंकी भौति सामाजिक घटनाएँ भी नियमसे बद्ध हैं।

और ? उपरोक्त प्राकृतिक नियम अथवा उनमेंसे ज्ञात वैज्ञानिक नियम कार्य-कारण-नियम हैं। उनका काम है अतीतका अनागत (भविष्य)से सम्बन्ध जोड़ना;। इसी अतीत अनागतके अटल सम्बन्धके भरोसे ही किसान कातिकमें धरकी अन्नपूर्णाको खेतकी माटीमें गाड़ आता है, और महान् समाजवादी सोवियत् सरकार पंचवार्षिक योजना बनाती है। यह कहनेका हमारा यह मतलब नहीं कि वैज्ञानिक नियम “जो चाहो सो पूछ लो”वाले जोतिषी बाबाकी अर्दलीमें हाजिर रहनेके लिये बनाया गया है।

उसका काम आनेवाली घटनाओंका सिर्फ़ भविष्य कथन ही नहीं है, बल्कि घटनाको वैसा होनेके लिये भौतिक परिस्थितिको भी बनाना है। लेकिन, भौतिक परिस्थतिके बनानेमें कार्य-कारण नियमने जहाँ हाथ



डाला, वहीं वह नियति (भाग्य) वादके चंगुलसे निकला। कारण कहते हैं; परिवर्तन-कारकको परिवर्तन नयेके पैदा होनेको कहते हैं। फिर कार्य-कारणसे नियतिवादका कोई सम्बन्ध नहीं। साथ ही कार्य-कारणके अटूट सम्बन्धोंकी सहायतासे हम किसी कामके करनेमें हाथ लगा सकते हैं, यह भी ठीक है। यह दोनों परस्पर विरोधी बातें कैसे मानी जा सकती हैं—इसका उत्तर इस वक्तके लिये इतना ही है कि प्रकृति विरोध-समागमको प्राणोंसे प्यारा मानता है।

### ४. मनुष्यकी स्वतंत्रता

कार्यकारण-नियमका नियतिवाद, ईश्वरवादसे कितना सम्बन्ध है, इसका जिक्र हो चुका है। ईश्वरवादियोंमें कुछ भगवान्दास तो आत्म-समर्पण करनेके लिये तैयार हैं—ईश्वरके हाथकी कठपुतली बननेको वह दूषण नहीं भूषण मानते हैं—और, दुनियाके दुःख, अन्यायको उसका 'भेद' कहकर भुलावा देनेकी कोशिश करते हैं। यद्यपि इसका उद्देश्य कितनोंके मनमें यही होता है कि वह खुद अपने शासन-क्षेत्रमें उसी तरहके अनुत्तरदायी भगवान् बन सकें; किन्तु, सभी ईश्वरवादी इस तरह अक्लके पीछे लाठी लेकर फिरनेवाले नहीं हैं। वह ईश्वरकी वस्तु ईश्वरको, और जीवकी वस्तु जीवको देनेकी कोशिश करते हैं—अथवा दोनोंपर सोचनेके लिये अपने मस्तिष्कमें काफी फासिलेके साथ उन्होंने दो कोठरियाँ बना रखी हैं, और एक समय दोनों बातोंको लेकर वह अपने तथा अपने मित्रोंके दिमागको परेशान नहीं करना चाहते। वह कहते हैं—ईश्वर सबका प्रथम कारण है, साथ ही जीवको कर्म और विचारकी स्वतंत्रता है।

लेकिन, यहाँ यह कहना पड़ेगा कि यह धर्म-वोषणा अधिकतर 'खानेके दाँत और दिखानेके और' की-सी है। आपको विचारकी पूरी स्वतंत्रता है; किन्तु जहाँ आपने ईश्वरकी सत्तापर ननुनच करना शुरू

किया कि 'बहूका मान कितना है' इसका पता लग गया। और कर्म-स्वातंत्र्यके बारेमें कुछ कहना तो और मुश्किल है। क्योंकि, वह तो उसीके लिये संभव है, जो "जबरा मारे रोने न दे"का नमूना हो। ईश्वरको अन्यायी समझकर लोग उसको छोड़ न बैठें; इसीलिये इस कर्म-विचार-स्वातंत्र्यकी बात कही जाती है, अन्यथा यह तो साफ है कि घास-घोड़ेकी यारी नहीं हो सकती। छोटी चादरमें यदि सिर ढाँकते हैं तो पैर नंगा, और पैर ढाँकते हैं तो सिर नंगा। यदि आप जीवको स्वातंत्र्य प्रदान करते हैं, तो उतने अंशमें ईश्वरकी सर्व-शक्तिमत्तामें कमी आती है, यदि ईश्वरको सर्वशक्तिमान् मानते हैं, तो जीव अकिंचन हो जाता है। और ईश्वरकी सर्वशक्तीकी बात तो अरस्तूके मुँहसे आप सुन चुके हैं। अरस्तू चाहता था कि ईश्वर और जीव दोनोंकी सेवा करें। उसे दो नावोंपर चढ़नेवालेकी बात नहीं मालूम थी। उसने कहा — ईश्वर सर्वश है, किन्तु सर्वमें सामान्य शामिल है, विशेष नहीं; जातियाँ शामिल हैं, व्यक्तियाँ नहीं; ईश्वर मानवताको जानता है, गांधी और गांधीसुतको नहीं; गाय-जाति (गोत्व)को जानता है, नये "मुसलमान" गो-भक्त श्रीराम शर्माके "विशाल-भारत"में छुपनेवाली गायोंको नहीं।—शर्मा-जीके साथ हमारी सहानुभूति है, ईश्वरकी इस बेरखीपर। किन्तु अरस्तू-ने यह माननेके लिये अपनेको तैयार किया था। वह बेचारा जानता था, भेड़ोंके भड़कन्त स्वभावको। त्रिकाल-सर्वश ईश्वरके ज्ञानमें अतीत वस्तुओंके बारेमें जो कुछ मौजूद है, वह होकर रहेगा; जैसी मिट्टी जैसी आग बननेवाली है, वैसी बनकर रहेगी; जैसी सींग-पैर-नाक-कानवाली गाय जाति बननेवाली है, वह ईश्वरके ज्ञानमें पहलेसे मौजूद है, और वह वैसा बनकर रहेगी। इसका अर्थ हुआ ईश्वर परिस्थितिको जैसा होना चाहिये, वैसा ज्ञानमें बना चुका है, और नियत समयपर वह उसी रूपमें आ मौजूद होगी। मनुष्यके स्वातंत्र्यका कोई मूल्य नहीं यदि वह भी परिस्थितिमें परिवर्तन करनेका उसी तरह अधिकारी न हो, जिस

तरह कि परिस्थिति उसे परिवर्तित करती है। इसके बारेमें जब हम प्रकृति (प्रयोग)से पूछने जाते हैं, तो वह साफ कहती है कि परिस्थिति जिस तरह मनुष्यको बदलती है, उसी तरह मनुष्यने भी परिस्थितिको बदला है और बदल देनेमें लगा हुआ है।

#### ५. तर्कनिर्भर नहीं, वस्तुनिर्भर हेतुवाद

प्रकृतिने जैसे दूसरे क्षेत्रोंमें कोरे तर्कको पछाड़ा है, वैसे ही स्वातंत्र्य और नियमबद्धताके संबंधमें भी वह उसके फंदेमें आनेवाली नहीं है। अपने अन्तस्तलमें अवस्थित एलेक्ट्रॉन्के बारेमें उसने दिखलाया है कि वह कण भी है और तरंग भी। तर्क बहुत चिल्लाता रहा किन्तु प्रकृति इस चिल्लपोंको नहीं सुनती। वह तो हर एक सत्य-अन्वेषकको एक बात कहती है—मेरा अनुगमन करो “राजा करै सो न्याय” प्रकृतिमें जो देखो वही नियम है। यदि वहाँ नियम और अनियमका मिश्रण दिखाई पड़ता है, तो यही समझिये कि प्रकृतिके नियम वैसे ही हैं। विच्छेद-युक्त प्रवाह भी परस्पर विरोधी-सा मालूम होता है; किन्तु प्रकृतिने इसका अनुमोदन किया है। एक ही एलेक्ट्रॉन् कण हो और तरंग भी, यह भी परस्पर विरोधी मालूम होता है; किन्तु प्रकृति न सदा केवल सर्पगतिको पसंद करती है, न मेंढक-कुदानको। प्रकाश तरंग है; किन्तु क्वान्टम् सिद्धान्त बतलाता है कि उसके वितरणमें सिर्फ अविच्छिन्न प्रवाह ही नहीं पाया जाता, बल्कि बीच-बीचमें रुककर चलने-वाले फौवारेकी भाँति प्रकाश बँधे हुए मुट्टे (= क्वान्टम्)में निकलता है।

इस तरहके नियम-अनियम-मिश्रित वादको देखकर कुछ बूढ़े लोग बुद्धके बूढ़े शिष्य सुभद्रकी तरह बोल उठते हैं—अच्छा हुआ, बूढ़ा नियमवाद मर गया, अब हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और, यह भी कि चूँकि प्रकृतिमें नियम नहीं है; इसलिए उसके वास्ते एक नियामक की जरूरत है।—वह भगवान् है। सोचिये—यदि प्रकृतिमें नियम है, इसलिए

एक नियामक ईश्वरकी जरूरत है, प्रकृतिमें नियम नहीं है, इसलिए एक नियामककी जरूरत है। इसको कहते हैं—“गाय भी हूँ, बच्चा भी हूँ।”

प्रकृतिके विरोधि-समागमवाले स्वरूपको जब तक आप समझनेकी कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बराबर ऐसी गलती करते ही रहेंगे। मनुष्यमें स्वतंत्रता भी है; किन्तु दार्शनिक परमार्थको नाप-तोलमें नहीं। मनुष्यमें परिस्थिति, आनुवंशिकताकी परतंत्रता भी है, किन्तु दार्शनिक परमार्थके अर्थमें नहीं। मनुष्य प्रकृतिको बदलता है, परिस्थितिको बदलता है। आनुवंशिकतामें बराबर परिवर्तन होता रहता है, और कभी तो ऐसा बड़ी कुदानका परिवर्तन होता है, जिसमें वह बनमानुषसे मानुषकी कोटिमें छल्लोंग मार देता है—इसे ही जाति-परिवर्तन कहते हैं। हम साइंस-सम्मत भविष्य-कथन भी कर सकते हैं, और भविष्यकी कर्म-योजना बनाकर ठीक फलपर भी पहुँच सकते हैं; किन्तु यहाँ भी प्रकृतिने अपने क्वन्तम्, अपने कण-तरंग, अपने विच्छेद-युक्त प्रवाहकी नीतिको छोड़ा नहीं है, और गला कसकर दम घोटनेका प्रयत्न नहीं किया है। लंदनमें इस साल कितने आदमी मोटरसे दबकर मरेंगे, इसे वहाँकी कौंटी-कौंसिल ( कार्पोरेशन )का दस-पंद्रह सालका हिसाब—मोटरोकी संख्या, यातायात-संचालनमें सुधारका मृत्यु-संख्यापर प्रभाव आदि—देखकर बतलाया जा सकता है। हाँ, वह संख्या परमार्थ संख्या नहीं होगी; बल्कि व्यवहार या प्रायिक संख्या होगी। व्यवहार-संख्या व्यवहार-परिमाण प्रकृति और प्रकृति-पुत्रोंके लिए पर्याप्त है। हाँ, दार्शनिकोंके लिए वह पर्याप्त नहीं है; इसलिए उनका दिल छोटा रहा करता है। एक बात और, मृतकोंकी संख्याके बारेमें सच्चा भविष्य-कथन उसे माना जाता है, जो कि घटनाके बहुत नजदीक हो। और साथ ही प्रकृतिने एक और सुभीता दिया है, वह समुदायरूपेण इस संख्याके प्रकाशनको पसंद करती है। अबकी साल भगवान्दास मोटरसे दबेंगे या नहीं, इसके लिए उसने ठीक अरस्तूके ईश्वरकी भौति

अपनेको अनभिज्ञ रखा है, जो कि उसके लिए गर्वकी बात है; यद्यपि वही बात ईश्वरके लिये भारी काला धब्बा होता। जोतिषी भविष्यद्वक्ताओंकी बात छोड़िये, वह तो दैवज्ञ हैं, और भारतीय सिद्धोंको भी छोड़िये, जिनकी सेवाका महान् व्रत गोरख-टीलेके “कल्याण” बाबाने ले रखा है, और जब-तब हमारे “विशाल-भारत” जैसे नागरिक भी उसमें पुण्यके भागी बननेके लिए लालायित हो जाते हैं।

प्रकृति परमार्थ नहीं प्रायिक मूल्यको पसंद करती है। क्वन्तम्, सापेक्षता, कण-तरंग, विच्छेद-युक्त-प्रवाह और विरोधि-समागमको अहर्निश देखनेवाला साइंस भी उतनेसे संतुष्ट है। वह दोनों चरम पन्थको पसन्द नहीं करता—न उसे यन्त्रवाद, जकड़बंद कार्य-कारणवाद पसंद है, और नहीं कार्य-कारण-नियम-युक्त “परम स्वतंत्र न सिरपर कोई”, अथवा आकस्मिक घटनेवाली घटनाओंसे बना संसार ही।

परमार्थकी जगह यह “प्रायिक” मूल्यका सिद्धान्त आधुनिक साइंसमें भारी महत्व रखता है।

### ६. प्रायिकता

परमार्थ अटल, नित्य मान, किसी मृत गतिशून्य जगत्में मिल सकता है, जिसकी कल्पना दार्शनिक भले ही कर सकें; किन्तु उसका अस्तित्व कहीं नहीं है। परमार्थ मानके बिना परमार्थ मूल्य भी दार्शनिकोंकी कल्पनामें ही स्थान पा सकता है। सारी दुनियाका व्यवहार—चाहे साधारण किसानको ले लीजिये अथवा इंजिनके लाखवें हिस्से तककी नाप लेनेवाले साइंस-वेत्ताको ले लीजिये, सबके नाप, सबकी तोलका मूल्य प्रायिक ही है, परमार्थ नहीं।

आइये सांकार उदाहरण लेकर देखें—

\*Probability.

हम बहुत शुद्ध मापवाली जरीब लेते हैं। जिसमें तापमान आदिका असर अत्यन्त कम पहुँचे, इसके लिये हमारी जरीब काँचकी है। आज खेत नापते हैं, कल और परसों भी... मैं अपने दोस्तोंको भी कहता हूँ, कि आप भी माप लें। हम सभी पूरी सावधानी रखते हैं कि जरीब, त्रिकोन, नापी कहीं गलती न होने पाये। किन्तु, जब मैं एक दर्जन दिनोंकी अपनी नापियोंको मिलाता हूँ, तो वहाँ फर्क दिखाई पड़ता है। दोस्तोंकी नापियोंको मिलाता हूँ, तो वहाँ भी अन्तर पड़ता है। हमारे सामने मुश्किल आती है—किसको सच्चा मानें किसको नहीं। कुछ दोस्त दार्शनिकोंकी तरह राय देते हैं, जब आपकी नापियाँ आपसमें नहीं मिलतीं, न हम सभीकी नापियाँ आपसमें मिलती हैं, तो सब गलत है, कोई परमार्थ सत्य नहीं, इस लिये इन्हें छोड़ दें। हम सभी दार्शनिक नहीं हैं, और फिर मैं क्या इस दार्शनिकके कहनेसे अपने खेतको छोड़नेवाला हूँ। हम अपनी नापी के अंकोंको फिर मिलाते हैं, देखते हैं उनमें फर्क ज़रूर है; किंतु उनमें कुछ संख्यायें ऐसी हैं, जो कि अंकोंकी एक खास सीमाके भीतर हैं—जहाँ सबसे कम और सबसे ज्यादावाली संख्या ६७·२४६ और ६७·३८७ विस्वांसी (धूर) हैं, वह अधिकांश संख्यायें ६७·३१६२, ६७·३१६३, ६७·३१६४की भाँति कुछ सीमाओंके बीच होती हैं। हजारों नापियोंके करनेपर भी हम देखेंगे कि नापी का परिमाण सभी एक नहीं होता; किन्तु वह एक खास सीमाके भीतर ही ज्यादा मिलता है, जो नापी सबसे ज्यादा इस सीमाके भीतर आती है, हम उसे ही प्रमाण मानते हैं, अथवा ६७ विस्वांसीसे ऊपरके दशमलव अंकको नगण्य समझ छोड़ देते हैं। जो बात यहाँ जमीन की नापीके लिये है, वही दूसरी बारीक नापियोंके बारेमें भी समझें। नङ्गी आँवोंसे न दिखलाई देनेवाले अणुओं, परमाणुओंको जब हम अणु-मापक यंत्रसे नापते हैं, तो वहाँ भी यही बात पाते हैं; इसीलिए साइंसमें यह मानी हुई बात है कि परमार्थतया निश्चित मापपर पहुँचना असम्भव है। बाल-बियरिड

मशीनमें इस्तेमाल होनेवाले बाल-गोलियों-की नापी बहुत ठीक होनी चाहिये; क्योंकि उसके ऊपर मशीनकी उपयोगितामें कमी-बेशी हो सकती है; लेकिन वहाँ भी परमार्थ मापकी उम्मीद नहीं रखी जाती और १/१०,००० इंचकी कमी-बेशीको नहीं लिया जाता, और जितनी नापियाँ आपसमें इतनेका अंतर रखती हैं, उन्हें शुद्ध माना जाता है। साइस-संबंधी नापवाले औजारोंको और बारीकीमें जाना पड़ता है; किंतु वहाँ भी परमार्थ नाप नहीं मिला करता, इसलिए १/१,००,००० इंचकी कमी-बेशीको नहीं लिया जाता। किसी-किसी मशीनमें १/१,००० इंचकी कमी-बेशी होनेपर भी उसे शुद्ध माप मानते हैं। लकड़ीकी मशीनमें १/३२ इंचकी कमी-बेशीवाले माप भी शुद्ध हैं।

इतना कहनेसे स्पष्ट है, कि हमारा सारा काम प्रायिक परिमाणको शुद्ध, सत्य मान लेनेपर चल जाता है; उसे छोड़ हम किसी परमार्थके पीछे नहीं दौड़ते फिरते और न दार्शनिकके दिमागके सिवाय उसका कहीं पता है। दुनियामें जितने हिसाब होते हैं, सब इसी प्रायिक मापको ही लेकर चलते हैं। लकड़ी-लोहेके कारखानों, मोटर-एरोप्लेनकी बनावट, इंचके लाखवें हिस्से तक नापनेवाली दूरबीन-फोटो-मापक आदि यंत्र, प्राणिशास्त्र तथा रसायनशास्त्रमें व्यवहृत होते सूक्ष्म नाप-तोलवाले यंत्र तथा हिसाब, कृषिकी योजनाका हिसाब, ग्रहण आदि बतानेवाले-ज्योतिष-गणित, दीवानी-फौजदारी अदालत तथा कानूनमें व्यवहृत होनेवाले परिमाण...मेंसे चाहे जिसको ले लीजिये; सभी जगह प्रायिक मापको शुद्ध माना जाता है, और परमार्थ मापको असंभव समझा जाता है। जो बात असंभव है, उसके न जाननेको अज्ञान नहीं कहा जा सकता, इसलिए ज्ञानकी सीमाका विस्तार करते-करते हम परमार्थपर नहीं चरम प्रायिकता-पर जब पहुँच जाते हैं, तो हम ज्ञानकी चरम सीमापर पहुँच जाते हैं। उसके आगेकी आशा रखना दुराशा मात्र है; और उसका वस्तु जगत्से कोई संबंध नहीं है, इसे हमें हमेशा ध्यानमें रखना होगा।

## ख. सत्य-असत्यका ज्ञान

### १ सत्य

सत्यके बारेमें हलके दिलसे कह दिया जाता कि वह एक, अद्वितीय है। किन्तु क्या यह बात वास्तविकतापर निर्भर है? पूंजीपति और जमींदारके लिये यह परम सत्य है, कि मजदूर और किसान उसके लिये काम करें, और अपने हाथसे उठाकर जो उन्हें दे दे उसीपर सन्तुष्ट रहें। इस मार्गसे हटना नमकहरामी—असत्य मार्ग—को ग्रहण करना है। तिरुवन्नामलेके ऋषि, पांडीचरीके मुनि, ...के जगतगुरु... तथा एनी-बेमंट—‘लोगों’ उनकी आत्माको शांति प्रदान करे—के १२ अर्हत् और अर्हन्तियोंसे लेकर गली-कूचेमें डोलनेवाले छोटे-मोटे सिद्ध महात्माओं तक सभी सेठ...; महाराजा...; नवाब...अभीष्ट इस सत्यकी पुष्टि अपने आशीर्वादसे करते हैं। फिर यह सत्य परम सत्य छोड़ और हो ही कैसे सकता है; क्योंकि वैसे स्वार्थहीन त्रिकालदर्शी ब्रह्मलीन महापुरुषोंको क्या पड़ी है जो असत्यको आशीर्वाद देते फिरें। यद्यपि यहाँ हम जरूर कहेंगे कि और जगहोंपर धर्मकीर्तिके शब्दोंमें “निर्लज्जतामें बंधकी (व्यभिचारिणी) को भी मात करनेवालेॐ कुमारिलका ऐसे सिद्ध-ब्रह्मलीन-महात्माओंके बारेमें यह घोषणा करना, सत्यसे बहुत दूर नहीं है।—

“वाणीकी असत्यताके हेतु (राग, द्वेष, मोह) दोष पुरुषोंमें मौजूद रहते हैं।”‡

भारतके किसानों, मजदूरोंके लिये सत्य यही है, कि जो कमाये उसको पहले खानेका हक उन्हें होना चाहिये; जो नहीं कमाता उसे या तो भूखा मरनेके लिये तैयार रहना चाहिये, अथवा कमानेवालोंके

ॐ“जयेद् घाष्ट्येन बंधकीम्”—प्रमाणवार्तिक १।६६७

‡“गिरां मिथ्यात्वहेतूनां दोषाणां पुरुषाश्रयात्।”—वहीं १।२२७



सामने दाँत निकालकर हाथ पसारनेके लिये। दूसरेकी कमाई भाग्य-भगवानकी देनके नामसे यदि हलाल हो सकती, तो सभी चोरों-डकैतोंको जेलोंसे बाहर निकाल देना चाहिये।

### सत्य ज्ञान

वैज्ञानिक भौतिकवाद मानता है, कि वास्तविक ज्ञान आदमीकी पहुँचके भीतर है। वास्तविक ज्ञान हम उसे ही मानते हैं, जिसका आधार विद्यमान भौतिक वस्तु है—ऐसी वस्तु जिसकी सत्ता मनुष्यके ज्ञान या कल्पनापर निर्भर नहीं है। सक्रिय, सजीव, वास्तविक मनुष्य और वस्तुसत् भौतिक (मानव-मस्तिष्क-) बाह्य अर्थों (पदार्थों)के संबंध तथा उनकी एक-दूसरेपर होनेवाली क्रिया-प्रतिक्रियाओंको ज्ञान कहते हैं। जब तक बाह्य पदार्थोंके वस्तु-सत्ता होनेको स्वीकार नहीं करते, तब तक उसके संबंध तथा क्रिया-प्रतिक्रियाकी संभावना नहीं; फिर ऐसी अवस्थामें जो ज्ञान होगा वह वास्तविक नहीं अवास्तविक होगा, अतएव वह ज्ञान नहीं, अ-ज्ञान मात्र होगा।

फिर दार्शनिक कहेंगे, वस्तु-निर्भर ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, वह हमेशा अपूर्ण रहता है, अपूर्ण ज्ञानको प्रमाण नहीं माना जा सकता; प्रमाण उसी ज्ञानका हो सकता है, जो पूर्ण है। इसका उत्तर यह है कि पूर्ण ज्ञान या आपकी परिभाषामें जिसे परमार्थ-ज्ञान कहते हैं, उसका कहीं पता नहीं, क्योंकि आपके ही कथनानुसार न वहाँ इन्द्रियाँ पहुँच सकती हैं, न बुद्धि। ऐसा परमार्थ ज्ञान सिर्फ श्रद्धावश ही माना जा सकता है। सत्य ज्ञान वही है, जो कि वास्तविक—वस्तु-निर्भर—है। सभी सत्य सापेक्ष हैं। साइंस और सभी मानवीय ज्ञान लगातार बदलता रहता है, इसलिये ऐसे सत्यसे बे-सत्यका ही रहना अच्छा है—यह संदेहवाद, निराकारवाद, विज्ञानवाद शून्यवादकी ओरसे कहा जाता है; और उनमेंसे कितने तो यहाँ तक कह जाते हैं कि 'सत्य' कोई वस्तु ही नहीं है। ये सभी वाद कभी सत्यको नहीं पा सकते, अथवा हाथमें आये हीरे-

को परखनेकी उनमें शक्ति ही नहीं है। यह वैज्ञानिक भौतिकवाद ही है, जो जानता है कि सापेक्षमें कैसे परमार्थ और परमार्थमें कैसे सापेक्ष सत्यको पाया जा सकता है। लेनिनका कहना है—

“आप कहेंगे, सापेक्ष और परमार्थ सत्यका यह (आपका बतलाया) भेद स्पष्ट नहीं है। मैं उत्तर दूँगा कि काफी स्पष्ट न होनेपर भी, वह साइंसको...मुर्दा, सुन्न, काठमारा मतवाद बननेसे बचा सकता है। लेकिन साथ ही वह इतना स्पष्ट है कि श्रद्धावाद, अज्ञेयवादके किसी छापेको (साइंसके तौरपर) रखने, और उसे ह्यूम तथा कांटके (—शंकराचार्य, विवेकानन्द, रामतीर्थको भी शामिल कर लीजिये)के चेलोंके दार्शनिक विज्ञानवाद तथा बाजीगरी बननेसे रोक सकता है। यहाँ (दोनोंके बीच) सीमा मौजूद है; किन्तु उसे आपने नहीं देखा। और न देखनेके कारण प्रतिगामी दर्शनके कीचड़में गिरनेसे अपनेको नहीं बचा पाया—यह (सीमा) है वैज्ञानिक भौतिकवाद और (शून्यवादी) सापेक्षतावादकी सीमा।

और एन्गल्सके शब्दोंमें—

“इस बातसे घबड़ानेकी जरूरत नहीं कि आज जिस ज्ञानकी अवस्थामें हम पहुँचे हैं, वह उससे ज्यादा पूर्णताको नहीं पहुँची है, जो कि इससे पहिले थी। अभी ही बहुत विस्तृत (ज्ञान-) सामग्री जमा हो गई है, और कोई आदमी जो किसी एक साइंसमें विशेषज्ञ बनना चाहता है, उसके लिये इनका अध्ययन बहुत ही श्रमसाध्य कार्य है।”

हर शास्त्र शाखामें मनुष्यका ज्ञान कितना बढ़ चुका है, और हर रोज कितनी तेजीसे बढ़ता जा रहा है, वह हमारे भारी सन्तोषकी बात है। चूँकि ज्ञान पूर्ण नहीं है, उसमें वृद्धिकी बराबर गुंजाइश है इसलिये उसकी वृद्धिको हम जहाँ छोड़ रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी उसे वहाँसे आगे ले जायेगी। यह देखकर हाथपर सिर धरकर रोना बुद्धि-

मानीका काम नहीं है। ज्ञानमें यदि पूर्णता—जिससे आगे और कोई वृद्धि नहीं—हो जाय, तो विश्वकी गति बेकार हो जायगी, गुणात्मक-परिवर्तनसे नये-नये गुणों, नई-नई वस्तुओंका उत्पन्न होना बन्द हो जायगा, और प्रगतिशील, सजीव, नव-नव-विकसित विश्वकी जगह वह अचल, मुर्दा, फ़ोसील-सा रह जायगा।

**ज्ञानकी प्रामाणिकता**—बदलते रहते ज्ञानकी प्रामाणिकता नहीं होगी, यह शंका फजूल है। सारे विश्व-ब्रह्मांडमें बदलती चीजें ही सारा काम कर रही हैं। यदि आप बढ़नेवाले न होते तो माता या पिताके रज-अंड तथा वीर्य-कीट ही रह जाते। किसी भी अवस्थामें इस परिवर्तन, इस वृद्धिको रोककर देखिये। वीर्यकीट, सिर्फ  $\frac{1}{100}$  इंच बड़ा होता है, माताका रज-अंड  $\frac{1}{4}$  इंच, दोनों मिलनेपर भी मानव-प्राणी सिर्फ  $\frac{1}{100}$  इंचका होगा; वजन कितना होगा, यह इसीसे जानिये—सप्ताह भरका मानव-गर्भ सिर्फ  $\frac{1}{4}$  रत्तीका होता है। छै मासका १ सेरके करीब। पैदा होनेपर स्वस्थ बच्चा २० इंच (डेढ़ हाथसे थोड़ा ऊपर) बड़ा और ३॥ सेर भारी होता है; जो बढ़ते-बढ़ते पंद्रह वर्षकी आयुमें ६२ $\frac{1}{2}$  इंच (३॥ हाथ) लंबा और १ मन, ८ $\frac{1}{2}$  सेर भारी हो जाता है। आप सोच सकते हैं, जिस तरह शरीरकी वृद्धि रोकनेकी कामना शुभा कामना नहीं कही जा सकती, वैसे ही ज्ञानकी वृद्धि रोकनेकी कामना भी वही कर सकते हैं, जिन्हें मानव जातिका हितैषी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानको दिनपर दिन बढ़ने दो, अग्रगली पीढ़ीको पिछली पीढ़ी द्वारा खूब पराजित होने दो—“पुत्रादिच्छेत् पराजयम्।”

“सोचनेकी शक्ति रखनेवाले कितने ही अत्यन्त अपूर्ण मनुष्यों द्वारा विचारको पूर्णता प्राप्त होती है। असीम सत्यका दावा रखनेवाला ज्ञान किसनी ही सापेक्ष भूलें करके प्राप्त होता है।” ❀

❀ **Materialism (by Lenin)**

“मनुष्यका ज्ञान ( अपनी वृद्धिमें ) सरल रेखाका अनुगमन नहीं करता ; बल्कि वह एक ऐसी वक्र-रेखाका अनुसरण करता है जो कि सदा वृत्तके बननेकी कोशिशमें रहती है—अर्थात् घूमघुमौआ चक्करमें । इस वक्र रेखा ( घूमघुमौवे चक्कर )की हर एक टुकड़ी—हर एक खंडको ( एक छोरसे ) एक स्वतंत्र, पूर्ण सरल-रेखामें बदला जा सकता है; जो कि सावधान न रहनेपर ‘दलदल’ ( शासक वर्गके वर्गस्वार्थ द्वारा टूट बनाये धर्मवादमें ) गिरा देता है\*।”

इसलिये सापेक्ष सत्यसे बाहर जाना, आँख बंदकर जंगलमें टहलने जाना है । वस्तुतः जो कुछ परमार्थ सत्य है, वह सापेक्षके भीतर ही है ।

### ३. प्रयोग और सिद्धान्तकी एकता

दूसरे दर्शनों और वैज्ञानिक भौतिकवाद (साइंसके अधिनायकत्व)-में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद एकमात्र प्रयोगकी ही सत्यकी कसौटी मानता है, उसके लिये कोई ज्ञान तब तक सत्य नहीं है, जब तक कि वह प्रयोगकी कसौटीपर पक्का नहीं उतरता । इसीलिये स्तालिनका कहना—“सिद्धान्त प्रयोगके बिना बाँझ है ।” भगवद्गीताको किसी समय कर्मयोगकी कुंजी माना जाता था । तिलकने जेलमें बंद रहते वक्त गीतापर अपनी प्रसिद्ध पुस्तकको इसी मतलबसे लिखा था ।—कितना ही आगे बढ़नेपर भी तिलक योगसे आगे नहीं जा सके । और वस्तुतः किसीकी तारीफसे नहीं बल्कि वृत्त अपने फलसे पहिचाना जाता है । गीताने कर्म-युद्धके लिये तो लोगोंको उतना तैयार नहीं किया, जितना कि उस युद्धसे पलायनके लिये । वैज्ञानिक भौतिकवाद वास्तविक अर्थमें कर्मका दर्शन है । “दार्शनिकोंने सिर्फ जगत्की व्याख्याको परिवर्तित किया; किन्तु हमारा काम है खुद जगत्को

परिवर्तित करना ।” — मार्क्सने इस वचनमें वैज्ञानिक भौतिकवादके मर्मको निकाल कर रख दिया है ।

मार्क्सने वैज्ञानिक भौतिकवादको जैसी अवस्थामें विकसित किया, उससे साफ हो जाता है कि मार्क्सका जोर प्रयोगपर इतना ज्यादा क्यों है । कितने ही लोगोंने पढ़ या सुन रखा है, कि मार्क्स पुस्तकमें झूठा रहता था, इसलिये उसके विचार पुस्तकके कीड़ों जैसे होंगे । इसमें शक नहीं, मार्क्स लंदनमें ब्रिटिश-म्यूजियमके पुस्तकालयमें काफी समय देता था, उससे पहले पेरिसके बिब्लियोथिक-नाशनल, तथा बर्लिन, हाइडेलबर्ग, और बोन विश्वविद्यालयोंके पुस्तकालयोंमें भी वह पुस्तकाध्ययनमें दत्तचित रहता था । किन्तु, यह समझना कि मार्क्स अपने क्रान्तिकारी सिद्धान्तपर सिर्फ पुस्तकोंको पढ़कर पहुँच गया, बिल्कुल गलत ख्याल है । मार्क्सवाद न १६१७ ई०की रूसी क्रान्तिमें पैदा हुआ, और नहीं १८६७ ई०में कापिटलके लिखे जानेके बाद; उसका जन्म १८४८ ई०से पहिले हुआ था । कापिटलके रूपमें मार्क्सवादका जन्म नहीं हुआ, बल्कि उसके रूपमें वह प्रौढ़ताको प्राप्त हुआ । मार्क्सवाद ( वैज्ञानिक भौतिकवाद )का जन्म उन संघर्षोंमें हुआ जिनमें मार्क्स और एन्गल्सने जवाबदेहीके साथ स्वयं क्रियात्मक रूपसे भाग लिया । १८४८ ई०की फ्रेंच-क्रान्तिमें, पहिलेके क्रान्तिकारी आन्दोलनोंमें ही नहीं बल्कि खुद उस क्रान्तिमें, उन्होंने भाग लिया था । एन्गल्सने जर्मनीके मजदूरोंके सशस्त्र विद्रोहमें क्रान्तिके हथियारबंद सिपाहीके तौरपर भाग लिया था, और मार्क्सने उसके गढ़ कोलोनमें रहते संघर्ष-संचालनमें ऐसा जबर्दस्त भाग लिया, कि गवर्नमेंटने दो बार उनपर फाँसीकी सजावाले देश-द्रोहका मुकदमा चलाया । यूरोपमें सर्वत्र फैलनेवाले मजदूर-विद्रोहका आरंभ मार्क्स एन्गल्सने अपनी “कमूनिस्त घोषणा”से किया था, और इस विद्रोहकी बाढ़का अन्त मार्क्स-सम्पादित जर्मन दैनिकपत्र “नोये राइनिश ज़ाइटुङ्ग” ( हामबुर्ग )के अन्तिम अंकके साथ १८५०में हुआ ।

१८५०-६४ ई०का समय है, जिसका बहुत-सा हिस्सा मार्क्सने बृटिश-म्यूज़ियमकी पुस्तकोंके अवलोकनमें लगाया। किन्तु यह वह समय था, जब कि युरोपमें किसी जगह खुले तौरसे क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाया नहीं जा सकता था, और मार्क्सको वहाँ पैर रखनेकी जगह नहीं मिल रही थी। इन चौदह वर्षोंमें भी मार्क्स सिर्फ बृटिश-म्यूज़ियमकी पुरानी जिल्दोंकी धूल ही नहीं चाटता रहा, बल्कि उस समय भी उसकी कलम क्रान्तिकी शक्तको अधिक दृढ़ और बहु-देशव्यापी बनानेमें लगी हुई थी। अमेरिकन दैनिकपत्र “न्युयार्क ट्रिब्यून”में भारतकी राजनीतिक-सामाजिक अवस्था तथा क्रान्तिकी संभावनाके बारेमें मार्क्सने जो लेख लिखे थे, वे इसी समय (१८५२-५३ ई०)में लिखे गये थे।

१८६४ ई०के बाद हम मार्क्सको फिर संघर्ष-क्षेत्रमें देखते हैं, और तबसे १८७२ ई० तक वह अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलनका नेतृत्व करता है। उसके बाद अपने जीवनके अन्तिम समय (१८८३ ई०) तक मार्क्स फिर कलमके काममें लगता है, लेकिन साथ ही उसकी नजर उस समयके मजदूर आन्दोलनसे नहीं हटती और भविष्यकी मजदूर-क्रांति तथा मजदूरशासनकी गहरी नव रचना तो उसका एकमात्र काम हो जाता है।

इतना कहनेसे साफ है, कि वैज्ञानिक भौतिकवादका रास्ता गीता या वेदान्तके पलायनवादसे बिल्कुल अलग है। वह जगत्को छोड़ भागना नहीं चाहता, बल्कि जगत्को बदलना चाहता है। जगत्के बदलनेमें कर्म—संघर्ष—की जरूरत है, उसमें मुँदी आँखें नहीं, खुली आँखोंकी जरूरत है।

वैज्ञानिक भौतिकवाद किन वाद-प्रतिवादोंका संवाद है, यदि इस बातपर हम ध्यान देंगे, तो मालूम होगा कि वह क्यों इस प्रयोग और सिद्धान्तके समन्वयको चाहता है। वैज्ञानिक भौतिकवादमें दो अंश हैं एक द्वंद्ववाद, दूसरा भौतिकवाद। द्वंद्ववाद हेगेलके विज्ञानवादमें था,

और भौतिकवाद सत्रहवीं-अठारहवीं सदीके यांत्रिक भौतिकवादमें । यांत्रिक भौतिकवाद भौतिकवादकी भौतिकता—वास्तविकताको स्वीकार करता था, यह उसका मजबूत पहलू था । किन्तु उसमें किसी गुणात्मक-परिवर्तन, किसी विच्छेदयुक्त-प्रवाहकी गुञ्जाइश न थी, इसलिये वह विश्वकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकता था, न विच्छेदयुक्त-परिवर्तन—क्रान्ति—के लिये वह चतुर पथ-प्रदर्शक हो सकता था । इस भौतिकवादसे बिल्कुल उलटा हेगेलका द्वंद्वात्मक विज्ञानवाद बर्कले और शंकर जैसा ठूँठा, कूटस्थ, एकरस विज्ञानवाद (विज्ञान = ब्रह्म सत्य और सब भूटा) नहीं था । हेगेल उसे क्षण-क्षण परिवर्तनशील वृद्धिपरायण मानता था । विश्व उसके लिये हर क्षण “है” नहीं, “हो रहा है” है । यह हेगेलके द्वंद्वात्मक विज्ञानवादका मजबूत पहलू था । किन्तु, दूसरी ओर वह विश्वकी भौतिक सत्ता—वास्तविकता—को इन्कार कर अपनेको अ-वस्तुवादी साबित करता था । ऐसा वाद न वस्तु-सत् सिद्ध हो सकता है, न जीवनके किसी काममें आ सकता है । मार्क्स-एन्गेल्सने अपने वैज्ञानिक भौतिकवादमें पुराने भौतिकवादकी भौतिकता और हेगेलके द्वंद्वात्मक विज्ञानवादकी द्वंद्वात्मकताको लेकर अपने दर्शनका विकास किया ।

वैज्ञानिक भौतिकवादके अनुसार, विज्ञानवादी गलत रास्तेपर है, जब कि वह समझता है कि सत्यको हम सिर्फ अपने मस्तिष्क-मन—के भानमतीके पिटारेसे निकालकर रख सकते हैं । भौतिकवादी भी गलती करता है, यदि वह इस बातको नहीं समझता, कि सत्यको हम अपने मस्तिष्ककी सहायतासे प्राप्त करते हैं । मस्तिष्क हमें सिद्धान्त तक पहुँचाता है, भौतिकता हमें प्रयोगपर नजर रखनेके लिये मजबूर करती है । यही नहीं, जिस तरह भौतिकता मस्तिष्ककी जननी है, उसी तरह सिद्धान्तकी प्रसवभूमि प्रयोग है । बल्कि यह कहना चाहिये कि सिद्धान्त प्रयोगका सार-संग्रह है । आखिर सिद्धान्त है क्या ? अनेक व्यक्तियों, अनेक पीढ़ियोंके लाखों प्रयोगों-तजर्बोंका ही परिणाम । इसीलिये सिद्धान्त-

को अपने जीवनदायक प्रयोगके विरुद्ध जाना नहीं चाहिये। प्रयोगसे विरुद्ध सिद्धान्त सिद्ध-अन्त (सिद्ध-परिणाम) ही नहीं रह जाता। बिना पिताके पुत्रकी भाँति उसे पहिले अपने पिताको ढूँढनेकी जरूरत पड़ेगी। इसलिये जिस वक्त हम यह कहते हैं, कि सिद्धांत और वादकी एकता आवश्यक है, उस वक्त यह भी ख्याल रखना चाहिए कि प्रयोग मूल है, सिद्धान्त उसकी शाखा है।

वैज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टिसे प्रयोग और सिद्धान्तको किस तरह लेना चाहिये, इसे हमने बतलाया; यहाँ यह भी देखना है कि प्रयोग और सिद्धान्तके आपसी सिद्धान्तको दूसरे किस तरह मानते हैं।

१. कुछ लोग कहते हैं—प्रयोग और सिद्धान्तमें कोई समन्वय नहीं हो सकता। प्रयोग इस गंदी, स्थूल, असत्य, मायावाली दुनियाकी चीज़ है; सिद्धान्त चिर सत्य-शिव-सुन्दर है, दोनोंका क्या वास्ता? ये आकाशचारी हारिल हैं, जो “अज्ञेय”के हारिलकी तरह भी हार माननेके लिये तैयार नहीं, और उन्होंने सदाके लिये मू-परित्यागकी कसम खा रखी है।—हाँ, लेकिन मानसिक तौर हीसे, इसकी परीक्षा लेनी हो, तो ऐसी किसी हारिल—हंस—परमहंस—तत्त्वशानी—ब्रह्मलीन—महात्मा—को एक रसगुल्लेके बाद क्रीनेनसे लिपटे दूसरे रसगुल्लेको खिलाकर देख लीजिये। सिद्धान्त—दर्शन—ज्ञान ही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इस तरहके विचार रखनेवाले लोग, मकड़ीकी भाँति अपने भीतरसे (किन्तु अपने भीतरको भी स्वीकार करना तो उनके लिये मुश्किल है, इसलिये शून्यसे) सिद्धान्तको निकालते हैं।

२. दूसरे लोग हैं, जो प्रयोगसे एकदम इन्कार तो नहीं करते, किन्तु वह सिद्धांतकी ही प्रधान मानते हैं। उनकी दृष्टि (= दर्शन)में सिद्धान्त प्रयोगकी सन्तान नहीं है, वह एक स्वयंभू तत्त्व है। इनके लिये साईंस-का सारा परिश्रम, सारी सफलता कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि वह स्वयंभू होनेका दावा नहीं कर सकती। ऐसे मतवालोंके लिए प्रयोगका



आश्रित होना निम्न कोटिके लोगोंके लिये छा जाता है; सिद्ध, महर्षि इससे ऊपर हैं। गांधी जैसे विश्वके प्रति अपार करुणा दिखलानेवाले, सदा आत्माकी आवाज़ सुननेके लिए कान लगाये रहनेवाले महात्मा इसी कोटिमें हैं।

३. तीसरी तरहके लोग प्रयोग और सिद्धान्तमें किसीको प्रधानता नहीं देते। वह तटस्थ, न्यायाधीश बनना चाहते हैं।—भौतिक विश्व असत्य है, इसलिये प्रयोगको प्रधानता कैसे दी जा सकती है? सिद्धान्त और प्रयोग दोनों ही कल्पना हैं, इसलिये उनमेंसे किसीको प्रधानता नहीं देनी चाहिए।

इसमें शक नहीं, इन तीनों तरहकी विचार-सरणियोंमें देखनेमें अन्तर है, किन्तु वस्तु-सत्की दृष्टिसे देखनेपर मालूम होगा कि सबका उद्देश्य है भौतिकता—वास्तविकताका विरोध करना, और मनुष्यको जगत्-परिवर्तनके कामसे हटाकर जगत्की ख्याली व्याख्यामें लगाना। इन सिद्धान्तोंमें प्रभु, शोषक-वर्ग क्यों इतना आनन्द अनुभव करता है, इसके बारेमें ज्यादा कहनेकी ज़रूरत नहीं,—“जानि न जाइ निशाचर माया” कहना काफ़ी नहीं है, क्योंकि निशाचर-मायाका समझना उतना सुशकल नहीं है, यदि आपके पास अख-कान मौजूद हों।

सिद्धान्तकी कसौटी प्रयोग है, इसे सारे साइंस मानते हैं। वस्तुतः साइंस और अ-साइंसका भेद ही इसीमें है कि साइंस किसी वक्त भी अपने सिद्धान्तको प्रयोगकी कसौटीपर कसनेमें गफलत नहीं करता। प्रयोगके दौरानमें साइंसवेत्ता एक सिद्धान्तकी झलक पाता है, किन्तु उसे “अल्हाम”, “दैवी बाग्” “आकाश-वाणी” “आत्माकी आवाज” कहकर अपनेको और दुनियाको वह धोखा देना नहीं चाहता। वह प्रयोगशाला-में उसकी बड़ी बारीकीके साथ और अनेक बार परीक्षा करता है। सभी परीक्षाओंमें एक-सा ठीक उतरनेके बाद वह या तो उसे इस तरह सप्रमाण स-आकार लेखके रूपमें लिखता है, जिसमें दूसरे भी प्रयोग

करके उसकी सत्यताको जान सकें; अथवा अपने सिद्धान्तकी सच्चाईको रेडियो, हवाई जहाज, दूरदर्शनके यंत्रोंके साकार रूपमें उपस्थित करता है। वस्तुतः, प्रयोग और सिद्धान्तके समन्वयके बिना कोई साइंस-संबंधी आविष्कार नहीं हो सकता। साधारण प्रयोगोंसे सीखते तथा मानसिक तौरसे विकसित करते भारतीय विद्वान् ईसाकी पाँचवीं-छठी सदीमें वहाँ पहुँच गये थे, जहाँ आधुनिक-वैज्ञानिक-युग आरंभ होनेकी काफी कारण-सामग्री मौजूद थी; किन्तु भारतीयोंने अल्बरूनी-द्वारा उद्धृत आर्यभट्ट ( ४७६ ई० )के निम्न सूत्रको भुला दिया और वह पिछड़ गये—

“सूर्यकी किरणें जो कुछ प्रकाशित करती हैं, वही हमारे लिये पर्याप्त है। उनसे परे जो कुछ है, और वह अनन्त दूर तक फैला हो सकता है, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ सूर्यकी-किरणें नहीं पहुँचतीं, वहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं, और जहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं उसे हम जान नहीं सकते।”

साइंसके क्षेत्रमें तो इस तरह प्रयोगकी प्रधानता न समझ भारतीय आगे ही नहीं बढ़ सके, बल्कि आर्यभट्टके युक्ति-प्रमाण द्वारा सिद्ध भू-भ्रमणको न पतिया फिर वही पुराना चर्खा—तालमीके भूकेन्द्रक सौरमंडलके विश्वासको -चलाते रहे। दर्शन और मनोविज्ञानके क्षेत्रमें धर्मकीर्ति ( ६०० ई० )के बाद कोई प्रगति नहीं हुई। धर्मकीर्तिके तीक्ष्ण विश्लेषण शक्तिका रहस्य भी उसकी प्रयोगवादितामें है।—यद्यपि धर्मकीर्ति योगाचारके विज्ञानवादके सिद्धान्तको पुष्ट करनेकी भी कोशिश करता है, किन्तु वह बेगार-सी टाली बात मालूम होती है; क्योंकि वैसा होनेपर “अर्थ-क्रियामें जो समर्थ है वही परमार्थ सत् है” इसी तरह सक्रियताको परम सत्यका मुख्य लक्षण न बताता। सिद्धि, समाधि, परचित्त-ज्ञानकी बातें

१ “अल्-हिन्द”

२ “अर्थक्रियासमर्थं यत् तदत्रे परमार्थसत्” —प्रमाणवार्तिक ( दर्शन दिग्दर्शन पृष्ठ ७५८ )

पिछले महायुद्धके बादसे भारतमें फिर उसी तरह जोर पकड़ने लगी है, जिस तरह यूरोपमें इसी समय प्रेत विद्या; किन्तु भारतीय सिद्ध-योगी लोग इन बातोंको अँधेरी कोठरी, या मुग्ध भक्तोंके सामने ही दिखलाना चाहते हैं। जब तक उन बातोंको उसी तरह प्रयोगकी कसौटीपर कसा नहीं जाता, जब तक उनकी भौतिक व्याख्या नहीं हो पाती, तब तक उनका महत्व एक चतुर बाजीगरके 'जादू'से बढ़कर नहीं है। किन्तु जो सिद्धान्त प्रयोगसिद्ध है, उससे वैज्ञानिक भौतिकवादी इन्कार कैसे कर सकते हैं ? वैज्ञानिक भौतिकवादी यह भी मानते हैं, कि हमारे ज्ञानकी सीमा जो आज है, सौ साल बाद इससे ज्यादा बढ़ी रहेगी, हजार वर्ष बादके ज्ञानके समुद्रके सामने आजका ज्ञान तलाई जैसा मालूम होगा। मस्तिष्कके अंदर निहित शक्तिकी साइंसके तरीकेपर खोज तो वर्तमान शताब्दीमें पावलोफ़्-के युगान्तर उपस्थित करनेवाले प्रयोगोंसे शुरू हुई है। किन्तु इसका दृष्टान्त दे देकर ऐरे-गैरे-नत्थू-खैरे भी यदि अपनी सिद्धाईको मनवाना चाहें, तो यह उनकी अनधिकार-चेष्टा होगी। यदि आप समझते हैं, कि आप या आपके मित्रके पास कोई ऐसी अद्भुत मनो-वैज्ञानिक शक्ति है, तो उसकी परीक्षा प्रयोगशालामें हर तरहके मिथ्या-विश्वास-रहित साइंसवेत्ताके सामने करवाइये; एक्स-रे, फोटो, केमरा, नाप-तोल किसी बातसे घबराइये नहीं—साँचको अँच क्या ! यह कहकर जान बचानेकी कोशिश मत कीजिये, कि हम प्रसिद्धि नहीं चाहते। आपके चेले-चाँटे कानोंकान जिस तरहका प्रोपेगंडा आपके बरारेमें कर रहे हैं, वह मानवताके लिये अत्यंत अनिष्ट है। इसलिये, यदि आप इस शक्तिकी "रोज़गार"का एक ज़रिया नहीं बनाना चाहते हैं, तो अच्छा है, आप या तो उसकी गलती समझें अथवा उसे साइंस-सम्मत एक तत्त्व—सिद्धान्त—साबित करें।

(१) करती और कथनी—सिद्धान्त और प्रयोगकी प्रकृताका मतलब यह भी है कि आपकी कथनी जैसी है, यदि करती वैसी नहीं है,

तो वह कौड़ीकी तीन है। कोई ब्रह्मज्ञानी वेदान्ती एक शिवालय बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, ब्रह्मके स्वरूपपर उनका विश्वास नहीं है। और फिर जब उस शिवालेके ऊपर बिजली गिरनेसे बचानेके लिये लोहा गाड़ते हैं, तो इसका अभिप्राय यही है कि यदि मनुष्यने पहिलेसे सावधानी नहीं की, तो शिवके शासनमें रहनेवाली बिजली अपने मालिकके ही घरको नष्ट कर देगी। फिर तो ब्रह्मसे ज्यादा सर्वशक्तिमान् आपका साइंस है, जो कि बिजलीको ऐसी नाजायज़ हर्कतसे रोक सकता है। यहाँ करनी साफ कथनीके विरुद्ध जाती है।

यूरोप—विशेषकर अमेरिका—में कुछ दार्शनिक ऐसे हुए हैं, जो अपनेको उपयोगितावादी कहते हैं, और प्रयोगको भी मानते हैं। वस्तुतः साइंसके युगमें जब कि सभी जगह प्रयोगों और प्रयोगशालाओंकी जयदुन्दुभी बज रही है; यह हो नहीं सकता था कि दार्शनिक-चेत्रमें उसकी गूँज न पहुँचती। किन्तु इन उपयोगितावादी दार्शनिकोंकी वही मिसाल है—जो चमकता है, सभी सोना नहीं होता! उनका सिद्धान्त है “वह सिद्धान्त या विश्वास ठीक है, जो काम करनेवाला (उपयोगी) होता है।” किन्तु इसकी मददसे धर्म, और भूत-प्रेत, जादू-मंत्रको भी आप ठीक साबित कर सकते हैं। कुमारी मरियम साईके चमत्कारोंके बहुत-से साकार उदाहरण मार्सेइ (फ्रान्स)के पहाड़ीवाले गिर्जेमें रक्खे हुए हैं—लंगड़े वैशाखी लेकर आये थे, साईकी कृपासे चंगे हो गये, उनकी वैशाखी टंगी हुई है; समुद्रमें जहाज डूब रहा था, साईके भक्तोंने “त्राहि माई! त्राहि माई!” की, जहाज सही-सलामत किनारे पहुँच गया, उन्होंने कृतज्ञतासूचक लेख साईके मकान (गिर्जे)में खुदवा दिया आदि आदि। उपयोगितावादी दार्शनिक कहते हैं, चूँकि इससे आदमीके निर्बल हृदयको दृढ़ता मिलती है—यह ठीक काम करता है—इसलिये यह विश्वास (सिद्धान्त) ठीक है। उनके सिद्धान्तके अनुसार यदि चोरका सिद्धान्त ठीकसे काम करता है, तो वह भी ठीक है—और

इसीलिये तो उनके दिलमें पूँजीवादी लूटके लिये “साधु-साधु”के शब्द हैं। इन “प्रयोगवादियों”के दर्शनके दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो प्रचलित वैयक्तिक या सामाजिक आचार-नियमोंके दोषोंकी ओरसे आँख मूँदकर दर्शन, युक्ति, प्रयोगके नामपर उनका समर्थन करना, और इस प्रकार अपनेको धर्माचर्यों तथा शोषकोंका कृपापात्र बनाना ; दूसरे वह करनी या प्रयोगका अर्थ करते हैं—जिसे आप अपनी खुशीसे करने लग पड़ें। “उपयोगितावादी”प्रत्येक आदमीके लिये “सत्य”, “विश्व”, “वास्तविकता” को अलग-अलग मानते हैं; यह उपयोगितावाद प्रयोगवादके नामपर प्रच्छन्न विज्ञानवादको छोड़कर और क्या है ? यह वाद अफलातूँ जैसे घोर विज्ञानवादीके वादसे फर्क नहीं रखता। उसने भी अपने प्रजातन्त्र में मनुष्यकी मनमानी तीन जातियाँ बनाई थीं। उनके बारेमें जब यह सवाल हुआ, कि लोग क्यों किसीको दार्शनिक समझ उन्हें समाजका हर्ताकर्ता मान लेंगे। अफलातूँने कहा—उन्हें बतलाना होगा कि मनुष्योंमेंसे कुछ सोनेकी धातुके बने हैं, कुछ पीतलके, कुछ लोहेके। लेकिन सब तो मिट्टीके एकसे बने हैं, फिर उन्हें सोनेका माननेवाला कौन आँखोंका अंधा मिलेगा ?—बचपनसे ही ऐसा प्रोपेगैंडा करते रहनेसे लोग इसे मान लेंगे। यह मानकर जब उसके अनुसार अफलातूँका प्रजातंत्र काम करने लग पड़ेगा, तो सोने-पीतलके आदमीवाला सिद्धान्त सही साबित हो जायगा। निश्चय इस तरहके “प्रयोगवाद”को भारतमें तो बहुत जोरसे वर्त्ता गया है। अफलातूँके सोने-पीतलवाले आदमियोंका प्रजातन्त्र तो धरतीपर कभी कायम नहीं हुआ, किन्तु हिन्दुओंके ब्रह्माके मुँह-बाहु-उर-पैरसे पैदा होनेवाली वर्ण-व्यवस्था या “मरण-व्यवस्था”का राज्य तो अब भी हमारे सिरपर सवार है। यह व्यवस्था ( सिद्धान्त ) काम कर रही है, इसमें सन्देह करनेकी गुञ्जाइश कहाँसे हो सकती है, जब कि आप हर स्टेशनपर हिन्दू-पानी, मुसलमान पानी

देखते हर ब्याह-शादीमें श्रीवास्तव-खरे-कन्या श्रीवास्तव-खरे-वरको ठीक किये जाते पाते हैं । चूँकि यह “मरण-व्यवस्था” साढ़े तीन हजार वर्षसे ठोक तौरसे काम कर रही है, इसलिये यह कोलतारसे पुता नहीं, बल्कि वूधसे धुला सिद्धान्त है । इसकी और समुज्वल व्याख्या सुनना चाहते हों, तो संकटमोचनके पास जो आजकल “अभिनव व्यास”ने अपनी गीता-कथा जारी की है, उनसे जाकर पूछ लें ।

( २ ) गांधीवादी “प्रयोग”—हाँ, ऐसे “प्रयोगवादी” भारतमें एक जगह और मिलेंगे—सेवाग्राममें । वहाँके “सत्यके प्रयोग”—को इस वक्त भुला देना भारी कृतघ्नता होगी । चूँकि उपवासकी खबर दुनियामें बिजलीकी चालसे दौड़ जाती है, सेठ-सेठानी-चर्खापन्थी-नेता चँवर लेकर आ घेरते हैं, और कभी-कभी बृटिश-गवर्नमेंटका आसन भी डोल जाता है ( यदि कहीं एक छोटे शिखंडीका बाल भी नहीं हिलता तो उसकी पर्वाह नहीं ) इसलिये उपवास महासिद्धान्त है । और सामूहिक-प्रार्थना ?—उसके महा-महासिद्धान्त होनेमें किसको सन्देह हो सकता है ?—जहाँ हज़ारों श्रोता गद्गद् हो “रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीतराम” कर रहे हों, शहरमें प्रार्थनाकी खबर लगते ही बिना विशापन बाँटे, बिना डुग्गी पीटे, हज़ारों आदमी क्रीड़ाक्षेत्र या बिडला-प्रासादमें जमा हो जाते हों; उस प्रार्थनाको काम न करनेवाली कौन कहेगा ? प्रार्थना जब इतना अच्छी तरह काम कर रही है, फिर उसके सत्य - सिद्धान्त—होनेमें शंका वही कर सकता है, जिसकी हियेकी फूट गई है । और चर्खा-प्रचार ? इसके सिद्धान्त होने—अर्थात् काम कर सकनेवाला ( कामचलाऊ ) होने—के बारेमें सबूत चाहते हों, तो सेठ पकौड़ी मल - कचौड़ीमल...से पूछ लीजिये । इस महासिद्धान्तके साथ भारी काम हुआ विदेशी कपड़ों-वस्तुओं—का भी बायकाट, जिससे स्वराज्य तो साल भरमें नही टपका, किन्तु मीलोंके पो-बारह हो गये । मिल-मालिकोंने भी अपनी नेकनीयतीका सबूत खादी-यज्ञमें अपनी

खादी मैजकर देना चाहा था, किन्तु गांधीजी महात्मा भले ही हों, पर उन्होंने महात्माश्रीं जैसा विशाल हृदय नहीं पाया है; —एक बार कुछ समयके लिये भी यदि उन्हें काशी या हृषीकेशके महात्माश्रीके चरणोंमें बैठनेका सौभाग्य मिला होता, तो निश्चय ही उनकी यह संकीर्णता दूर हो गई होती। हाँ, मगर चर्खा अभी वहीं टिमटिमा रहा है, जहाँ कि १९२२ ई०में था—आज युद्धके तीसरे वर्षमें फौजके कपड़ोंके लिये चर्खा-संघसे भी यदि टैंडर माँगा गया हो, तो उम्मीद है गांधीजी युद्धकी सहायताका वास्तविक मूल्य समझते हुये इसे सफलता नहीं ख्याल करेंगे। लेकिन चर्खाको भारत और दुनियासे विदा करनेवाली मिलें आज भारतमें एकच्छत्र राज्य कर रही हैं। चर्खा ही क्यों? गुड़की भी गांधीजीने अपने प्रयोगका एक अंग बना रखा है। गांधीजी एक महान् गुड़-यज्ञ करना चाहते हैं, किन्तु “डूबा वंश कबीरका उपजे पूत कमाल”, यदि चेलोंके मारे वह यज्ञ पूरा होने पाये तब न? अपने कपड़ोंको खादीसे भी सस्ताकर मिलवालोंने उधर खादीकी रेढ़ मार दी थी, और अब पिछले दस वर्षोंमें गुड़यज्ञके लिये उससे भी बुरा काम बिडला-डालमिया-साराभाई-बजाजकी चीनी-मिलोंने कर दिखलाया। बेचारे गांधीजी डाल-डाल चलना चाहते हैं; किन्तु चले पात-पातपर उड़ रहे हैं, करें तो क्या करें?

गांधीजीके और प्रयोगों—ब्रह्मचर्य, बकरीके दूध, मिट्टीकी चिकित्सा हाथका कुटा-पिसा चावल-आटा, मशीन-वायकाट आदिपर भी सुनना चाहते हैं? यह सारे प्रयोग पूरी तौरसे सफल हुए हैं, किन्तु ठीक उससे उलटे अर्थमें, जिसमें कि गांधीजीने उनका प्रयोग करना चाहा। ब्रह्मचर्य के नामपर चिराग तले इतना भारी अंधेरा है, कि आँखें फाड़-फाड़कर देखनेपर भी कुछ पल्ले पड़नेवाला नहीं। बकरीके दूधका प्रयोग गोसेवा प्रयोगका एक अभिन्न अंश है; यद्यपि इसके समझनेमें मेरे मित्र श्रीराम शर्माकी कुछ देर लगी थी, और उन्होंने इस प्रयोगके इन्चार्ज सेठ जमुना-

लालकी प्रार्थनाको पहिले ठुकरा दिया; लेकिन सबेरेका भूला शामको यदि घर लौट आये, तो उसे भूला नहीं कहते । फिर शर्माजीका भी तो अपना प्रयोग है—उन्होंने सैकड़ों सूअरों और हिरनोंका शिकार किया है, किन्तु अपने नामकी भी शर्म न की, और शिकारी रामके सारे प्रयोगोंको ताकपर रख, शूकर या मृगके मधुर मांसकी कभी एक फट्टी भी दाँतके नीचे नहीं दबाई; आखिर बाबाका निशान कभी चूक सकता है—“सकल पदारथ एहि जगमाँहीं । करमहीन नर पावत नाही ।” अपने रामने तो जिस दिन मनुस्मृतिमें पढ़ा कि शूकर-मांसके पिंडसे पितर वर्षों तृप्त रहते हैं, उसी दिन निश्चय कर डाला कि पितृ-ऋणसे उन्मृग्य होना होगा, और “जो इच्छा करिहौ मनमाँहीं । हरिप्रताप कछु दुर्लभ नाही” धरैल-बनैल दोनोंसे अनेक बार तर्पण हो चुका है ।

हाँ, तो गो-सेवाके बेड़ेको बीच हीमें छोड़ना अच्छा नहीं है । इस सेवाके प्रयोगमें नियम हैं—भैंसका कम्पलीट ( सोलहो आना ) बायकाट करना होगा, मारी गायका चमड़ा नहीं इस्तेमाल करना होगा, दूध-घी आदि सिर्फ गोरस होना चाहिये, भैंसरस नहीं; अज-रसमें शायद महान् प्रयोगशास्त्रीको कोई एतराज नहीं है । शर्माजी पहले भड़के, पीछे ठीक हो गये यह बतला चुका हूँ; किन्तु अपने रामकी भड़क अभी तक बदस्तूर-साबिक बनी है । बकरीके बायकाट न करनेसे मुझे तो बहुत खुशी हुई । बकरीके दूध-घीसे तो अपने रामका इतना ही वास्ता है कि यदि एक बूँद भी अजा-दुग्ध जिहापर पड़ जाय; तो छै महीनेका खाना भी पेटमें न रह सके; इस बारेमें मैं गांधीजीकी हिम्मतकी सराहना करता हूँ । खुशी मुझे इसलिये हुई, कि भारतमें मांसके नामपर जो मांस हर जगह सुलभ है, वह बकरीका ही है । अच्छा ही हुआ जो यहाँ हमारा गांधीजीका समझौता हो सकता है । किन्तु, खुदाकी कसम, भैंसका बायकाट मुझे पसंद नहीं आया । यह नहीं कि लंकाके बौद्ध-गृहस्थोंके घरका बना लंका (मिर्च)-परिपूर्ण महिष-मांस मुझे याद आता



है, बल्कि इसकी तहमें मैं दूध-घी जैसे प्राणिज आहारका भी बायकाट कर “लोटो घासपातकी ओर”के नारेको छिपा हुआ समझता हूँ। हाँ गो-सेवा यदि और व्यापक बनाई जाय और उसमें सांप्रदायिकता या हिन्दुत्वकी संकीर्ण दृष्टि हटाकर हिन्दू, मुसल्मान, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक (कमूनिस्त) तथा भारतीय, चीनी, युरोपीय सबको अपने-अपने धर्म, अपने-अपने विचार, अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भाग लेने दिया जाय, तो गांधीजी, थारा बेट्टा जीवे, हम सभी गो-सेवाव्रती बननेके लिये तैयार हैं।

(गुहा-मानवका नारा)—गांधीजीके प्रयोगवादमेंसे मिट्टीकी चिकित्साके बारेमें दो शब्द जरूर कहने हैं, मेरे मित्र आनन्द कौसल्यायनने अपने पत्र (५ मार्च १९४२ ई०)में लिखा है “(वह) २४-२५ इन्जेक्शन ले लेकर थक गये। अब मेरे कहनेसे प्राकृतिक चिकित्सा (मिट्टी-पानी)के प्रयोगका परीक्षण करने जा रहे हैं। आप तो आप-रेशन इन्जेक्शनवादी हैं।” गांधीजीका जादू बुद्धके एक योग्य शिष्यपर भी चल गया। कैसा रमणीय विरोधि-समागम है—कहाँ बुद्ध और उनका शिष्य जो भक्तिकी परछाई भी छूना नहीं चाहता और सिर्फ बोध-ज्ञान—को अपना पथ-प्रदर्शक बनाता है; औरहाँ गांधीजी जिनको भगवान्की भक्ति ही जीवनमें सबसे बड़ा संबल है? कहाँ बुद्ध और उनका शिष्य जो क्षणिकवाद—पिछली दुनियाको सर्वदाके लिये नष्ट हो जानेपर हर वक्त बिल्कुल नई दुनियाके बनने—को मानते हुए, पुरानीको बुद्धके शब्दोंमें “तं कुतोत्थ लब्धा”❧ कह उसे उसके भाग्यपर छोड़, नवीन उत्साहसे नवीन पथपर चलनेके लिये तैयार; और कहाँ गांधीजीकी सनातन चिरस्थविरा दुनिया, जिसमें लौट जानेके लिये उनका पुराना नारा “लोटो गुहा-मानवकी ओर‡”, खैर! हम वैज्ञानिक भौतिकवादियोंके विरोधि-समागम बिल्कुल स्वाभाविक वाद है। हाँ, हम

❧ “वह यहाँ (फिर) कहाँ मिलनेवाला है।”

‡Back to cave-man

इतना जरूर कहेंगे कि चिकित्सावादी अन्-आत्मवादका महान् आचार्य बुद्ध, द्वंद्ववादी भौतिकवादके महान् आचार्य मार्क्सकी भाँति ही सैकड़ों बातों में अपने समयसे बहुत दूरतक देखता था। मिट्टी-पानीकी गांधी-आनन्द-शाही चिकित्साको जरा ढाई हजार वर्षके इस बूढ़ेके सामने ले चलिये तो। “भ्रमण सुकुमार” होनेपर भी वह मार्क्सकी भाँति लंदन नगरीमें नहीं रहता था, जिससे कि उसपर ‘नागरिकताका भूत सवार’ कहा जा सके। साथ ही वह गांधी और आनन्दसे चिकित्सा-शास्त्रपर कम अधिकार नहीं रखता था, यह उसके उन नुस्खोंसे सिद्ध है, जो महावग्ग (विनयपिटक)के भैषज्य-स्कन्धके बड़े साइजके ४१ पृष्ठोंमें लिखे हुए हैं, और जिसके कारण ही बुद्धका दूसरा नाम भैषज्य-गुरु पड़ा। इसी भैषज्य-गुरुकी प्रेरणासे अशोकने अपने ही राज्यमें चिकित्सालय नहीं बनवाये; बल्कि यूनानी राजाओंके राज्य (मिस्र, सीरिया आदि)में भी औषधियोंके बगीचे लगवाये, और उसके कुछ शताब्दियों पीछे हिंदी चीनमें तो बाकायदा सार्वजनिक दातव्य औषधालयोंका ताँता बँधा हुआ था। निश्चय ही भैषज्य-गुरुके इन चिकित्सालयोंमें वैद्य लोग सिर्फ मिट्टी-पानी लेकर नहीं बैठे रहते थे; बल्कि यदि उन्होंने शब्दवादके घोर विरोधी प्रयोगवादी बुद्धके आदेशके अनुसार बीचकी शताब्दियोंमें और तरक्की न की हो, तो भी वहाँ “भैषज्य-स्कन्धक”की निम्न औषधियाँ तो जरूर थीं—रीछु-मछली-सोस-सूअर-गदहेकी चर्वाँवाली दवाइयाँ; हल्दी अदरक, बच, अतीस, खस, नागरमोथा और दूसरी जड़ (मूल)वाली दवाइयाँ; नीम, कूट, पटोल आदि कषायवाली दवाइयाँ; नीम, कूट, तुलसी, कपासी आदि पत्तेकी दवाइयाँ; विडंग, पीपर, मिर्च, हरी-बहेरा-आँधला आदि फलोंकी दवाइयाँ; हींग, तक आदि गोंदवाली दवाइयाँ; सांघु-द्रिक, काला, सेंधा, वानस्पतिक आदि नमकवाली दवाइयाँ और चूर्ण

---

\*देखो “विनयपिटक” ( मेरा अनुवाद ) पृष्ठ २१४-२५५

की दवाइयों॥ सूअर आदिकी चर्बी सिर्फ मालिशके लिये ही नहीं खानेके लिये विधान की गई है, इसका भी खयाल रखिये; और बुद्धकी इस रायको देखिये—किसी खास रोगसे पीड़ित एक शिष्यने सूअर मारनेके स्थानपर जाकर कच्चे मांसको खाया, कच्चे खूनको पिया; और उसका वह रोग शान्त हो गया।” यह बात मालूम होनेपर बीसवां सदी ईसवीके गांधी बाबा और उनके समर्थक आनन्दबाबा क्या उपदेश देते, यह आप सुन चुके हैं। और आजसे पच्चीस सौ वर्ष पहिले बुद्धने इसी पुण्य-भूमि भारतकी पुनीत पुरी श्रावस्तीमें क्या कहा था ?—“भिन्नुओ ! अनुमति देता हूँ...रोगमें कच्चे मांस और कच्चे खूनकी।”

बुद्धकी औषधि-सूचीमें मिट्टी-पानीका नाम नहीं पावेंगे; बल्कि वहाँ उपरोक्त औषधियोंके अलावा मिलेंगी—अंजन (सुर्मा), अंजनदानी, सलाई, सिरका तेल, तथा नाकमें नस डालनेकी नली (इंजेक्शन नहीं, यह बात ठीक है!), सिगरेटकी भोंति पीनेकी धूमबत्ती (“अनुमति देता हूँ धूयेंके पीनेकी॥”), धूम-फोफी (पाइप), बातका तेल, दवामें मद्य। जो कुछ आपरेशन-इंजेक्शन उस समय था, उसे मिट्टी-पानेवाले दादाके गुरु (बुद्ध) लोककल्याणके लिये स्वीकार करते थे, इसीलिये तो उन्होंने निम्न चिकित्साओंका भी समर्थन किया—स्त्रेदकर्म (पसीना निकालना), सींगसे खून निकलवाना, मालिश और दवा. मलहम-पट्टी, सर्प-चिकित्सा, विष-चिकित्सा। और आपरेशन ? सुनिये शाक्यसिंहके सिंहनादको—“अनुमति देता हूँ शास्त्रकर्म (आपरेशन)की।”<sup>‡</sup> बोलो “गांधी बाबाकी जय !” बोलो “भदन्त आनन्द कौसल्यायनकी

\*“विनय-पिटक” (हिन्दी) पृष्ठ २१६-२१७। वहीं पृष्ठ २१६।

<sup>‡</sup>वर्तमान सहेट-महेट, जिला गोंडा-बहराइच।

॥देखो “विनय-पिटक” पृष्ठ २२१॥

जय'; और इसीलिये बोले "शाक्यसिंहकी क्षय", और उसके दिखलाये रास्तेसे सीधे वैज्ञानिक भौतिकवाद तक पहुँच जानेवाले "महानास्तिक" राहुल सांकृत्यायनकी क्षय ।"

हाँ, तो गांधीजीके "लौटो गुहा-मानवकी ओर"के नारेमें फँसकर भोले-भाले आनंदजीकी क्या गत हुई, यह तो आपने देख लिया, अब इस नारेके बारेमें एक बात जरूर कहनी है । बुद्ध कालवादी थे—देश-काल-व्यक्ति देखकर वह अपनी सम्मति देते थे । वह हवामें तलवार चलाना पसंद नहीं करते थे, वही बातें उनके इस छोटेसे शिष्य राहुलकी भी हैं—हाँ, शिष्यताका अधिकार मैंने छोड़ा नहीं है, बल्कि "मेरे उपदेशित-धर्मको बेड़ेकी तरह जानो, वह पार उतरनेके लिए है ढोकर ले चलनेके लिए नहीं"❀—उनके इस उपदेशका पालन करते हुए ही मैं क्षणिक ( = द्वंद्वात्मक ) अन्-आत्मवादसे द्वंद्वात्मक भौतिकवादपर पहुँचा । हाँ, तो यदि आप गुहा-मानवकी ओर लौटना चाहते हैं, तो पहले गुहा-मानव बनिये । कपड़ोंको दूर फेंकिये; नाई-अस्तुरेको पास फटकने न दीजिये; ऐसे जंगलमें जाइये जहाँ सेठ-सेठानियाँ क्या, आजकी सभ्यताका जग भी चिन्ह न हो—लोहेका वाण-फल तक भी जिनमें पाया जाय, ऐसे आदमियोंकी छायाको भी पासमें फटकने न दीजिये ।—गोया पहले अपने साथ गुहा-मानवका वातावरण बनाइये । स्वास्थ्यपर वातावरणका भारी असर होता है—गुहा-मानववाले किसी घोर जंगलमें जानेसे आपके बहुतसे रोग स्वयं मिट जायँगे, यह मैं मानता हूँ । लेकिन आहार ? मैं अपने मित्र आनंदजीके बारेमें तो अच्छी तरह जानता हूँ, कि वह मेरी तरह अका-ब-कासुरको हजमकर जानेकी क्षमता नहीं रखते । और प्राकृतिक चिकित्सार्थ गुहा-मानवका आहार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है । आहारके लिये गुहा-मानवके नुस्खेको बतलानेका मतलब है, अपने एक ऐसे मित्रसे हाथ धोना, जिसके बिना दुनिया जीवन भरके लिये भीरस हो जायगी । फिर

ऐसे नुस्खेका बताना तो दूर, उसे यदि वह दूसरेसे लेकर भी प्रयोग करना चाहेंगे, तो मैं उनकी नाराजगीकी पर्वाह न कर सारी सामग्रीको नजदीकके नाबदानमें फेंक दूँगा। मुझे विश्वास है, मैं अपने भूले मित्रको रास्तेपर लानेमें सफल हो जाऊँगा। हाँ, यदि गांधीजीकी फलाहार-मंडली—जिनमें ढोंगियोंकी संख्या ही सबसे ज्यादा है—चाहे, तो वह नुस्खा हर वक्त हाजिर है। उसके तजबेसे उन्हें मालूम हो जायगा कि वह सचमुच आदमीको उस जगह पहुँचा देगा, जहाँ कि आज वह गुहामानवकी दुनिया पहुँची हुई है।



## द्वितीय अध्याय

मूढ़ विश्वास

‘वेद-प्रामाण्यं कस्यचित् कार्त्तुं वादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः ।  
संतापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पंच लिंगानि जाड्ये ॥’  
—धर्मकीर्तिके

वैज्ञानिक भौतिकवाद एक प्रकाश है, जिसके पा जानेपर मूढ़ विश्वासोंका परखना मुश्किल नहीं है। लेकिन, यह भी ख्याल रखना चाहिए कि उपरोक्त पंक्तियाँ आजसे साढ़े तेरह सौ वर्ष पहले नालन्दाके एक महान् प्रोफेसरने इसी ख्यालसे लिखी थीं कि उसके देश-भाई “अकल-मारे-हुओंकी जड़ताके” इन पाँच चिह्नोंको अपने ऊपर न लगने देंगे। किन्तु, परिणाम क्या हुआ ? जड़ताके पाँचों चिह्न पैर तोड़कर भारतके कोने-कोनेमें बैठ गये; और धर्म-कीर्तिके ही शब्दोंमें “धिक् व्यापकं तमः”का राज्य हो गया। यह भारतीय कान्ट+हेगेल अपने लिये उस समयको अनुकूल नहीं समझता था, तभी तो उसने अपने महान् ग्रंथ ( प्रमाण-वार्तिक )को समाप्त करते हुए लिखा था—

“मत्तं मम जगत्यलब्धसदृशप्रतिग्राहकं,  
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम् ।”

प्रमाण-वार्तिक १।३४३ “(१) वेदको प्रमाण मानना, (२) किसी ( ईश्वर )को कर्त्ता कहना, (३) ( गंगादिमें ) स्नानसे धर्म चाहना, (४) ( छोटी-बड़ी ) जातिकी बातका अभिमान, (५) पाप नष्ट करनेके लिए सन्ताप ( उपवास आदि ) करना—ये पाँच अकल-मारे-हुओंकी जड़ताके चिह्न हैं ।”

( मेरे विचार जगत्में 'अपने' लायक ग्राहकको न पा समुद्रके जलकी भाँति अपने गात्रमें ही जोर्ण हो जायेंगे । ) और सचमुच भारतमें धर्म-कीर्तिका अन्तिम संस्मरण आजसे साढ़े सातसौ वर्ष पहले उनके विरोधी श्रीहर्षके मुखसे सुना गया था—

“दुराबाध इव धर्मकीर्त्तैः पन्था तदत्रावहितेन भाव्यमिति” ❀

किन्तु, आज भारतके मार्क्सवादी धर्म-कीर्तिका स्वागत करनेके लिये तैयार हैं, और वह अपनी मातृ-भूमिको एक नहीं, हजार गांधियों, राधा-कृष्णनोंके होते भी ध्वस्त-प्रश्नोंके जाड्यके पाँचों चिन्होंसे मुक्त करनेके लिये कटिबद्ध हो गये हैं । इस काममें वह अकेले नहीं है, बल्कि सारे विश्वकी एक ज़बर्दस्त कर्मठ सेना उनके साथ है ।

## क. धर्म और धार्मिक तत्त्व

मनुष्यके मूढ़ विश्वासों—जड़ता-चिह्नों—को धर्म-कीर्तिने पाँच भागोंमें बाँटा है; किन्तु आज मूढ़ विश्वासोंकी नई फसलें भी तैयार हुई हैं । इन सारे मूढ़ विश्वासोंका खंडन करना न इस छोटी-सी तीन अध्यायकी पुस्तिकामें मुमकिन ही है और न उसकी ज़रूरत ही है । नालंदाके एक दूसरे प्रोफेसर (शांतिदेव)के शब्दोंमें काँटोंसे बचनेके लिये सारी धरतीको चमड़ेसे ढकनेकी जगह अपने दोनों पैरोंको ढाँक लेना काफी है ।‡

### १. धर्म बेकार

धर्मके लिये ईश्वर अनिवार्य सहचर नहीं है; क्योंकि हम जानते हैं, बौद्धधर्म धर्म होते भी ईश्वरको नहीं मानता; एक हद तक जैन भी इस बातमें बौद्धोंका साथ देते हैं । किन्तु, हिन्दुओं, ईसाईयों, यहूदियों, पार-

---

❀ “खगडनखगडखाद्य” — “धर्म-कीर्तिका मार्ग दुराबाध-जैसा है, सो यहाँ सावधान रहना चाहिये ।” ‡ बोधिचर्यावतारः १ ।

सिधों और मुसल्मानोंके लिये ईश्वरके बिना मजहबका ख्याल भी मुश्किल मालूम होता है, जैसा कि विदेशमें एक मुसल्मान सज्जनके इस उद्गारसे पता लगता है, जिन्होंने कि जिंदगीमें पहले-पहल बौद्धधर्मकी इस विशेषताको सुनकर कह डाला था—“या अल्लाह, यह भी कोई मजहब है, जिसमें अल्लाह हीके लिये जगहान हो ?”

हेगेलके शिष्य फ़ेरेबाख्की पुस्तक “ईसाइयत-सार”का जिक्र पहले हो चुका है। इसमें उसने ईसाइयतको नमूनेके तौरपर रख उसके द्वारा एक तरह सारे ईश्वरवादी और कुछ हद तक दूसरे धर्मोंका भी विश्लेषण किया है। फ़ेरेबाख् एक जगह लिखता है—

“धर्म मानवको अपने आपसे विलग करता है। वह (मनुष्य, धर्म-दार) ईश्वरको अपने प्रतिद्वंद्वीके तौरपर अपने सामने रखता है।—ईश्वर वह है, जो कि मानव नहीं है, मानव वह है, जो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर और मानव दो (परस्पर विरोधी) छोर हैं; ईश्वर पूर्णतया भावरूप है, (वह) सभी वास्तविकाओंका योग है; मानव पूर्णतया अ-भावरूप है; (वह) सभी अभावोंका योग है।”

आगे फ़ेरेबाख् फिर कहता है—

“...धर्म पवित्र हैं, क्योंकि वह (मानवकी) आदिम आत्म-चेतना-की गाथायें हैं। किन्तु धर्मोंमें जिस ईश्वरका स्थान प्रथम है—वह स्वतः सचमुच देखनेपर द्वितीय (स्थानके योग्य) है, क्योंकि मनुष्यके (उच्च) स्वभावको साकार तौरपर सोचनेके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं है; और जो धर्ममें मानव द्वितीय स्थानपर रखा गया है” उसे प्रथम बनाना और घोषित करना चाहिये। मानवके लिये प्रेम

---

Essence of Christianity, p. 33

वहीं २७०-७१।



किसी दूसरे ( ईश्वर )के संबंधसे नहीं बल्कि स्वतः होना चाहिये । यदि मानवके वास्ते मनुष्यका स्वभाव सर्वोच्च है, तो मानवके लिये मानवका प्रेम ही सर्वोच्च तथा प्रथम कानून भी होना चाहिये । मानव मानवके लिये ईश्वर है; यह एक महान् क्रियात्मक सिद्धान्त है; यही वह धुरी है, जिसपर जगत्का इतिहास चक्कर काटता है ।”

जर्मन दार्शनिक फ़ेबेर्बाखको ईश्वरका मानवके स्थानपर बैठना पसंद न आया, इसलिये यद्यपि वह इसका विरोध करता है, तो भी उसकी नम्रता स्वयं धार्मिक भावुकतामें पली हुई है । फ़ेबेर्बाखकी भावुकताको उसके समकालीन मार्क्सवादी किन अर्थों में लेते थे, उसके लिये एन्गोल्सके इन वाक्योंको देखिये—

“वह ( फ़ेबेर्बाख ) कभी धर्मको खतम नहीं करना चाहता, बल्कि वह उसे पूर्ण करना चाहता है । ( उसके मतसे ) खुद दर्शनको धर्ममें मिला लेना चाहिये ।”

फ़ेबेर्बाख ( १८०४-७२ ई० )से वोल्तेर ( १६६४-१७७८ ई० )का भाव इस विषयमें ज्यादा साफ है, जो होना भी चाहिये था ; क्योंकि फ़ेबेर्बाख जहाँ कोरा दार्शनिक था वहाँ वोल्तेर उन चिनगारियोंका बोनेवाला था, जो कि उसकी मृत्युके दस ही साल बाद उस प्रचंड फ्रेंचक्रान्तिको लानेमें सफल हुईं, जिसने दुनियामें स्वतन्त्रता—भ्रातृता—समानताका नारा पहिले-पहिल बुलंद किया । वोल्तेर कहता है—‡

“ईश्वरका ज्ञान हमारे भीतर प्रकृतिके हाथों द्वारा नहीं डाला गया है; ऐसा होता तो सारे मनुष्योंको इसका एक ही समय विचार होता; किन्तु हम ऐसे किसी विचारके साथ नहीं पैदा हुए हैं ।...”

‡Ludwig Feuerbach, p. 43

‡ Philosophical Dictionary (“God”) 1765

वोल्टेरके शब्दोंको क्रान्तिका आवाहन करना था; इसलिये वह उन्हें चिनगारियोंसे ही लिख सकता था; वोल्टेरको दाद देनी चाहिये कि इकहत्तर वर्षकी आयुमें भी वह इन चिनगारियोंसे खेल सकता था, जिस अवस्थामें कि हमारे देशके कितने ही राजनीतिज्ञ तपोवनकी तैयारी करने लगते हैं—नांधी-युगके राजनीतिज्ञोंके बारेमें मत पूछिये, उनके लिये घर और तपोवन दोनों बराबर हैं, बस वह सिर्फ अनासक्ति योगपर ध्यान रखते हैं। लेकिन २६ वर्षका मार्क्स धर्मपर कैसे अंगारे फेंक रहा था, उसे भी देखिये—

“मनुष्य धर्मको बनाता है, धर्म मनुष्यको नहीं बनाता।... यह राज्य और समाज है जो कि धर्मको पैदा करता है।... इसलिये धर्मके विरुद्ध लड़ना अप्रत्यक्ष-रूपेण, उस दुनियाके विरुद्ध लड़ना है; जिसका आध्यात्मिक प्रभा-मंडल धर्म है।

“धर्म ( पुस्तकों )में कथित दुःख (नर्क आदि) बिल्कुल वास्तविक दुःखका प्रकाशन और उस वास्तविक दुःखके प्रति विरोध प्रकट करना है। धर्म विपत्तमें फँसे प्राणीकी आह, हृदयहीन जगत्का हार्द ( भाव ) है; वह आत्महीन परिस्थितियोंके आत्मा जैसा है। वह जनताके लिये अफीम है।❀”

हेगेलने विज्ञानवादमें द्वन्द्वात्मकता ( क्षणिकता ) जोड़ नित्य एकरस विज्ञान (ब्रह्म)की महिमाको कम कर दिया। उसके शिष्य फ्वेरबाखने “ईसाइयत-सार” लिख धर्मपर हमला शुरू किया—यद्यपि यह काफी सहृदयताके लिये ही। दर्शनमें फ्वेरबाखके उत्तराधिकारी मार्क्सने सीधे तौरसे धर्मके किलेपर गोलाबारी शुरू की। धर्मके नकली मुलम्मेको खोलते हुए उसी लेखमें मार्क्स फिर लिखता है—

❀“On Hegels' Philosophy of Law” (Marx  
1844)

वहीं।

“धर्म एक भ्रमात्मक सूर्य है, जो कि मनुष्यके गिर्द तब तक घूमता रहता है, जब तक कि मनुष्य अपने [ मनुष्यताके ] गिर्द नहीं घूमता । इसलिए [ नये जगत्की सृष्टि करनेवाले ] इतिहासका यह काम है, कि परलोकके सत्यके लुप्त हो जानेपर इस जीवनके सत्यको स्थापित करे, । ...इस तरह करनेसे स्वर्गका खंडन पृथ्वीके खंडनके रूपमें, धर्मका खंडन कानूनके खंडनके रूपमें, देववादका खंडन राजनीतिके खंडनके रूपमें बदल जाता है ।”

खंडनके महत्व और सीमाको मार्क्स कथनी तर्क ही रखना नहीं चाहता था, जैसा कि वह वहीं आगे लिखता है—❧

“किसी तरह भी खंडनका हथियार हथियारों द्वारा होनेवाले खंडनका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता । [ हमें ] भौतिक बलको उलटना होगा, किन्तु सिद्धान्त स्वयं भौतिक बल बन जाता है, जब वह जनताको पकड़ लेता है ।...”

“धर्मके खंडनका अन्तिम पाठ यह है, कि मानवजातिके लिये मानव सर्वश्रेष्ठ सत्त्व है—( अतएव ) उन सभी परिस्थितियोंको खतमकर दिया जाय, जिन्होंने कि मानवको एक पतित, दास, उपेक्षित, घृणास्पद प्राणी ( बना दिया ) है ।”

सभी देशोंका इतिहास, और भारतका खास तौरसे, इस बातका साक्ष्य है, कि धर्मसे बढ़कर मनुष्यको पतित, दास, उपेक्षित, घृणास्पद बनानेवाला दूसरा कारण नहीं हो सकता । भारतीय मानवताको छिन्न-भिन्न करनेमें सबसे जबर्दस्त हाथ धर्मका रहा है । कहा जाता है, धर्मका कोई कसूर नहीं, कसूर है स्वार्थी लोगोंका जो कि उसे अपने फायदेके लिए गलत तौरसे इस्तेमाल करते हैं । इसका मतलब यह हुआ, कि कोई ऐसा भी जमाना था, जब कि धर्मकी धरोहर रखनेवाले सिर्फ निः-

स्वार्थी व्यक्ति होते थे । लेकिन इसका पता इतिहाससे तो नहीं मिलता; ऋग्वेदके ऋषियोंसे लेकर अन्तिम ऋषि तुलसीदास तक चले आइए । बाबाके शब्दोंमें इतिहासका फैसला है—

“सुरनर मुनिकी येही रीती ।

स्वारथ लाइ करहिं सब प्रीती ॥”

कितने ही लोग मनुष्यताके लक्षणके बारेमें कहते हैं—

“आहार-निद्रा-भय-मैथुनं च  
सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।  
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो  
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः।”

[ आहार, निद्रा, भय और मैथुन यह ( चार बातें ) पशुओं तथा मनुष्योंमें समान हैं । इनमें धर्मही ( एक ) अधिक विशेष है ( और ) जो धर्मसे हीन हैं, वह पशुओंके समान हैं । ]

धर्मके ठीकेदारोंसे ऐसे ही शब्द सुननेकी आशा थी । किन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि यह नारा सिर्फ भारतके हिन्दुओंका ही नहीं है । सारी दुनियाके धर्मवाले अ-धर्मवादियोंको पशु-पदवी देनेमें एक मत हैं । हाँ, लूटके मालको बाँटते वक्त आपसमें वह लड़-झरूर पड़ते हैं— एक धर्मका माननेवाला दूसरेको नास्तिक, काफिर कहता तथा दिलसे मानता है । यद्यपि दार्शनिक लोग सदियोंसे अपने मुक्किलों—धर्मों का इससे महान् अनिष्ट देख सर्वसमन्वयकी कोशिश करते आ रहे हैं, किन्तु धर्म आखिर जिन स्वार्थोंकी रक्षाके लिये बनाया गया है, वह जब एक ही तब न एकताकी बात चल सके । धर्मको मनुष्यका लक्षण माननेवालोंको जवाब देते हुए मार्क्सने कहा था—

“चेतना, धर्म या आप जिससे चाहें, उससे मानव-जातिका पशुओंसे भेद करें । लेकिन ( मनुष्योंने ) स्वयं पशुओंसे उसी वक्त अपना भेद

करना शुरू किया, जबकि उन्होंने अपने जीवन-निर्वाहके साधनोंको पैदा करना शुरू किया—अपनी शारीरिक बनावटके कारण उनका यह कदम उठाना आवश्यक था<sup>१</sup> ।

धर्म और ईश्वरके ख्यालको जन्मजात कहनेवाले कूपमण्डूक ही हो सकते हैं । आज सभ्य मानवताका अधिकांश ईश्वरको नहीं मानता; अत्यंत प्राकृतिक अवस्थामें रहनेवाले गुहा-मानव भी अपने गुहा-चित्रोंमें किसी प्रकार-के धर्म-चिह्नको नहीं छोड़ गये हैं । धर्मका प्रारम्भ मानवके जीविकोत्पादनार्थ समाज बना लेने, तथा भाषाके कुछ विकसित हो जाने-पर हुआ, और इसका पूरा विकास तो दासता-युग और सामन्त-युगके समय प्रभुवर्गने किया । वस्तुतः धर्मकी सारी कल्पना, उसके देवताओंका निर्माण उसी दासता तथा सामन्त-युगके मानव-समाजकी नकल है ।

## २. धर्मके नये व्याख्याकार

( १ ) हिन्दू-धर्मकी विशेषता—धर्मकी नई व्याख्या कोई नई बात नहीं है । धर्मात्माओंने “पंचोंकी बात सर-अखपर रखकर भी अपना पनाला” वहीं रखा है, तो भी परिवर्तनशील दुनियाके साथ समन्वय करना भी जरूरी था, इसलिए नये व्याख्याकार जरूरी ठहरे; इसी बातको गीताके चालाक लेखकने इन शब्दोंमें अदा किया है—

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत !

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।”<sup>२</sup>

ये सारे नये व्याख्याकार—नई बोटलमें पुरानी शराब भरनेवाले मद्य-वाणिक ( अथवा अफीम—अहिफेन—व्यवसायी ) यही काम करते

\*German Ideology ( by Marx and Engels )

‡“जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं अपनेको सृजता हूँ ।”

हैं, और बचपनमें दी गई मानव-समाजकी हथकड़ियों-बेड़ियोंको उसकी आयुके अनुसार बढ़ाते रहना। किन्तु अभी इसपर कुछ तै करनेके पहले चलिये काशीमें विराजनेवाले हिन्दू-धर्मके अभिनव व्यासके पास।—यह मानना पड़ेगा कि उक्त गीता-वाक्यके अनुसार वर्तमान समयमें सबसे जबर्दस्त बोलफेरी—तुंबाफेरी—करनेवाले हिन्दू दो ही हैं, भक्ति जगत्में महात्मा मोहनदास कर्मचंद गांधी ( सेठ जमुनालाल बजाज लेन, सेवाग्राम ) और दर्शन-मार्गमें सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ( संकटमोचनके पास, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी )। देखिये सर राधाकृष्णन् क्या फर्मा रहे हैं—

“हर एक जाति अपनी अपनी विशेषता, मानसिक भाव, अपनी खास बौद्धिक रुझान रखती है।” ❀

मशाल लेकर दूँ दिये तो पिछले हजार वर्षों के इतिहासमें दुनियाकी और जातियोंसे भारतीय जातिमें क्या विशेषता पाई जाती है—आखिर “वृथा न होहिं देव-ऋषि-वानी”, कृष्णके अवतार हमारे राधा + कृष्ण कोई बात अकल्याणकी नहीं कह सकते। और इस दूँ ढनेमें आपको सफल होनेकी जबर्दस्त संभावना हो सकती है, यदि दुनियाकी और जातियोंके ज्ञानके बारेमें आप बिल्कुल कोरे हों। “विशेषता, मानसिक भाव, बौद्धिक रुझान”, सावधान, इन शब्दोंको इन्हीं अर्थों में मनमें रखियेगा, आप्तो-पदेश वेदके शब्द सभी रूढ़ि-अर्थवाले होते हैं, उन्हें उन-हा अर्थों में लेना चाहिये जिनमें ऋषि महाशय लेते हैं। अथवा काहे इस फेरमें पड़ेंगे, “संशयात्मा विनश्यति”के डरसे यही समझ लीजिये कि “भारतीय दर्शन”के लेखक जैसा बहुश्रुत-हाँ, पुस्तक लिखते वक्त तक अभी वह सर और बहुदृष्ट नहीं हो पाये ये-लेखक क्यों गलत बोलने लगा; जब वह कहता है कि भारतीय दूसरी जातियोंसे इतना भेद रखते हैं, जितना

कि अद्वैत भोलानाथसे उनका नाँदिया; फिर तो उसे सत्य वचन कह माथे चढ़ाना ही चाहिये ।

और उनकी बहुश्रुततामें आपको सन्देह कैसे हो सकता है, भारत-की महिमामें उनके मुँहसे उद्गार ( उदान ) निकला है—

“गौतमकी तुलना है अरस्तूसे, कणादकी धेलसे, जैमिनिकी सुक्रातसे, व्यासकी अफलातूँसे, कपिलकी पिथागोरसे और पतंजलिकी ज़ेनोसे ।”

धन्य है भारतमाता, त्रैलोक्यजननी, त्रैलोक्य-दमनी, भगवान् राधाकृष्णकी एकलौती सुपुत्री, जिसने दार्शनिकोंको पैदा करनेमें यूनान-को मात कर दिया । बोलो “भारत माताकी जै” । लेकिन आप लोगोंके चेहरोंके देखनेसे दो तरहके भाव प्रकट हो रहे हैं । महामहोपाध्याय बालकृष्ण मिश्रकी शिष्य-मंडलीकी तो भौँहें तनी हुई हैं, और गुरुजी-का ख्याल न हो, तो न जानें वह क्या कर गुजरें । उनका कहना है— इस ब्राह्मण वंश-कलंकको तानक भी लजा नहीं आई, जो सोलह कला-पूर्ण हमारे षट्शास्त्री ऋषियोंको इन गोभक्तक नीच भ्लेच्छोंके बराबर बना रहा है । किन्तु आर्ट-कालेजके कितने ही छात्र बहुत खुरा—( १ ) पहिले वह हैं जिन्हें पूर्व या पच्छिमके किसी दार्शनिकसे कभी पाला नहीं पड़ा और भगवान्की कृपा बनी रही तो उनकी यह जीवन-नैया अछूती ही पार निकल जायेगी । ( २ ) दूसरे वह जो माई बसन्तीके देवफोफी-समाजकी मार खाये हुए हैं, उनके लिये महा तामिस्र चाहे पूर्वका हो या पच्छिमका, सब एक-बराबर है । ये सारे पूर्व-पच्छिमके “महात्मा” ( MAHATMA ) गण तो हिमालयके उस पारवाले तिब्बतके टशील्हुन्पो मठके पास अवस्थित स्वेत-परिषद्के अपने सदस्य हैं—उसी परिषद्के, जिसके कूटहूमी और लालसिंह जैसे महात्मा सदस्यों-का जयजयकार आज सातों महाद्वीपों और सातों जातियोंमें हो रहा है ।

( ३ ) तीसरे वह विद्यार्थी जो बेचारे साधियोंके डरके मारे गो-खुरके बराबर चुटिया नहीं रखने पाते । इनके कानमें काफी दिनोंसे भन-भन करके समझाया गया है कि चारों वेदोंको बिल्कुल कुरानकी तरह ही अल्हामके द्वारा अल्लाह मियाँ—नहीं नहीं, ओम् महाराज—ने अपने चार ऋषियों—अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा—के पास आजसे १ अरब ६५ करोड़ ५८ लाख ५० हजार ४३ वर्ष ३ मास ०० दिन ०० घंटे ०० मिनट ०० सेकंड ०० पहिले भेजा (नाजिल किया) । फिर हमारे वैदिक धर्मके सामने इस्लाम बपुरा कौन होता है ? उसके पास एक कुरान है, हमारे पास चार कुरान ( कुरानकी भाँति वेद मूर्ति-पूजा, और नाना देववादसे मुक्त हैं ), उसके पास एक पैगम्बर मुहम्मद, हमारे पास चार पैगम्बर, कुरान १३ सौ वर्षसे दुनियामें आया, हमारे वेद दो अरब वर्ष पुराने—वे उस वक्त आये जब कि शायद पृथ्वी भी अभी सूर्यसे बाहर नहीं आई थी । बेचारे ये “वैदिक धर्मकी जय”वाले छात्र सबसे ज्यादा खुश थे ; क्योंकि ऋषि दयानन्दने सारी साइंस-विद्याओंको वेदसे निकालकर रख दिया था ; किन्तु एक साध उनकी मनके माँह रही—सारे पश्चिमी दार्शनिकोंको वह भारतीय ऋषियोंके चरणोंमें नतमस्तक न कर सके थे । वह काम जिस महापुरुषने कर दिखाया, उसे ऋषि-महर्षि छोड़ दूसरा क्या कहा जा सकता है ? ( ४ ) और अन्तमें उस छात्रवर्गकी “विशेषता, मानसिक भाव, अपनी खास बौद्धिक रुझान”की ओर भी एक नजर डालनी है, जो कि सर राधाकृष्णन्को अपना हाड़-मांस समझते हैं । वह अपने गुरुके इन सूत्ररूपी वाक्योंमें “गागरमें सागर”की कहावत चरितार्थ होते देखते हैं ! आज ऋषियोंकी दूर-दर्शिताका उनके ऊपर जबर्दस्त सिक्का बैठ रहा है, ऐसा सिक्का जो कमसे कम सृष्टिके बाकी दो अरब वर्षों तक तो ब्रह्माके मिटानेसे भी मिटानेवाला नहीं है । व्यास ( बादरायण )को अफलातून के समकक्ष बनाना उन्हें भी कुछ खटकता जरूर है ; किन्तु वह समझते हैं—गुरुके मुँहसे ये शब्द



खास अभिप्रायसे निकले हैं। साथ ही अफलातूनसी प्रतिभावाले व्यास वादरायण ( जो सरासर गलत है। वादरायणमें अफलातूनकी दार्शनिक प्रतिभाका शतांश भी नहीं था, कहीं मौलिक विचारक अफलातून और कहीं उपनिषद्-कंथाधारी वादरायण ! )की महिमा वह अब समझ सकते हैं; और जब कोई ब्रह्मसूत्रसे निकालकर वेदके पढ़ने और सुननेवाले शूद्रके जीभ छेदने तथा पिघले सीसे-लावसे कान भरनेकी बात दिखलायेगा, तो वह चट कह सकते हैं कि निर्भ्रान्त ऋषि-ने किसी महान् अभिप्रायसे इसे लिखा होगा। और इस तुलनासे कमसे कम अठारह पुराणों, अठारह उपपुराणोंका दर्जा तो अफलातूनके “प्रजातन्त्र”के बराबर हो ही जायेगा। एक बार अपने ऋषियोंको उनके बराबर “साबित”कर देनेपर अपनी कौनसी बात रहती है, जिसे “दिन दोपहर” हम सभ्य संसारके सामने सिद्ध न कर दिखायेंगे। ऋषियोंने श्राद्धका विधान किया—हाँ ठीक, ब्राह्मणोंके पेटमें डाला अन्न मृतकोंके पास जाना है, वैसे ही जैसे तार. जैसे चिट्ठी। दुर्गाकुण्डके हनुमानों और ज्ञानवापीके नाँदियोंकी पूजा सर्वश्रेष्ठ मानवके लिये जरूरी है; क्योंकि इष्ट-स्वरूप बननेके लिये इष्टकी उपासना आवश्यक है। यमपुर-यात्रामें, क्या पता है, वैतरणीके अलावा काँटे ( असिपत्र ) बिछे-पथपर अकंटक वृक्षोंकी छाया भी पड़ी मिले। और पुण्यार्थ गंगा-स्नान तो हमारे ईसा-तुल्य आचार्य स्वयं करके पथप्रदर्शन कर रहे हैं। अजी! क्या-क्या नहीं, जो हम इस सूत्रसे नहीं निकाल सकते—और भई! भारतकी “विशेषता” कहकर तो आचार्यने कलमको लिखने लायक न रख छोड़ी। राम दुहाई! इस शब्दमें जबर्दस्त विशेषता कूट-कूटकर भरी हुई है।

जानते हैं भारतकी सबसे बड़ी विशेषता—जिसका दुनियाके पर्देपर कहीं पता नहीं लगेगा क्या है?—वर्ण-व्यवस्था, जाति-भेद। यह भारतकी “अपनी खास बौद्धिक रुझान” है, जिस तक दुनियाके किसी दूसरे देशका बड़ेसे बड़ा मस्तिष्क भी आज तक नहीं पहुँचा, और यदि

भगवान्को अपनी अवतार-भूमिकी लाज रखनी है, तो इन्-शा-अल्लाह यह विशेषता यहाँ से बाहर नहीं जाने पायेगी ।

देखिये कैसी सुन्दर व्याख्या, कैसा नई बोललमें पुरानी शराबका व्यापार !! आज राधाकृष्णन्-मार्काकी बोललोको आप राजपूतानाके राजाओंके महलोंमें गीताकी भौंति पूजी जाते देखेंगे । अजमेरसे अज-मरके निकला सारा राजकुमारवर्ग उसे गलेकी तावीज बनाकर रखना चाहता है । गांधीने भी एक अख्र बेकारकर सिर्फ एक अख्रसे राज-रंकोंको देखना चाहा था, किन्तु इन अकलके पुञ्जोंने अपने आदमीको नहीं पहिचाना । वह भड़क गये कि गांधी हमेशा समाजके कोढ़ (दरिद्रता)को लोगोंको दिखलाता फिरता है, जो जेठकी दुपहरीमें बारूदके ढेरके नंगे करनेसे कम खतरनाक नहीं है । हीरा-मोतीकी भालर लट-कानेवाली यह सारी गुड़ियाँ आखिर गुड़ियाँ ही रह गईं । यदि इनके दिमागमें जरा भी पीली मज्जा काम करती होती, तो समझ लेते कि समाजमें संरक्षक और संरक्षितका भेद “दार्शनिक” तौरसे कायम रखने-वाले गांधीसे बढ़कर उनका हितैषी कोई नहीं हो सकता । सेठोंकी मोटी तोंदें चाहे ज्यादा चर्बीसे भले ही भरी हों, किन्तु उनके मस्तिष्कमें काफी मात्रामें पीली मज्जा है—उन्होंने गांधीके गुरको समझा । आज वह खादी-फंड, गुड-फंड, गांधी-सेवा-फंड, हिन्दुस्तानी-फंड, हरिजन-फंड...सभी फंडोंमें अपने दशांशकी कुछ रुपल्लियोंको फेंकते राम-राज्य कर रहे हैं ।

अजमेरके चहबच्चेके कुमार आज राधाकृष्णन्की व्याख्याको पढ़-कर फूले नहीं समा रहे हैं । क्या दार्शनिक उड़ान है ! क्या ऋषि-जैमी क्रान्तदर्शिता (क्रान्तिदर्शिता नहीं, भगवान् उससे बचावे ! ) है !! भारत-की अपनी “विशेषता” ! “विशेषता” ! “अपनी-अपनी विशेषता !!!” महामहोपाध्याय महिषासुरानंदजी ! आप कोरे भोपा ही रह गये, “सर्वस खाइ भोग करि नाना । समर-भूमि”में कोई काम नहीं आये । इस

ब्राह्मणकी अक्लका हम लोहा मानते हैं। आज इसने हमारी जातिके पुश्तोंसे खाये नमकका हक अदा कर दिया। यह भारतकी विशेषता ही है, जो कि हम सात सौ छत्रधारी यहाँ निरंकुश शासन कर रहे हैं। दुनियामें क्रान्तियोंका बाजार गर्म है; बड़े-बड़े भारी-भरकम ताज न्युयार्ककी हाटमें जाकर बिक गये; खुद हमारा सरताज सिर्फ एक अघेड़ छोकरीके साथ प्रेम दिखलानेके दंडमें दूधकी मक्खीकी तरह निकाल बाहर फेंक दिया गया। किन्तु, हमें देखिये, भारतकी छातीपर कोदो दल रहे हैं, एक-एक चुम्बनपर बीस-बीस लाखके चेक काट रहे हैं। किन्तु मजाल है कोई चूँ करे। अब समझा, यह सब भारतकी “अपनी विशेषता”का प्रताप है। इस विशेषताको हाथसे जाने नहीं देना होगा, जब तक यह विशेषता है, तब तक हम हैं। “जौ लौं गंग-जमुन-जल-धारा”, तब तक इस विशेषताको कायम रखना है। आज यह विशेषता न होती, तो न जाने हम और हमारा रनिवास कहाँ होता? हाँ, रनिवासकी बातका ख्यालकर एक और बात याद आ गई। अनब्याहे अष्टम एडवर्ड एक तिलाकशुदा स्त्रीसे शादी करना चाहते थे, जिसपर कन्ट्रबरीके शंकराचार्यका आसन इतना गर्म हुआ, कि बेचारे एडवर्डको देश छोड़ भागना पड़ा। लेकिन भारतकी विशेषता देखो—हमारे रनिवासकी चंद्रमुखियोंको देखा है—अभी सिर्फ पंद्रहसे ही बाकायदा भौंवर फिरी है, इन्शाअल्लाह, इरादा है, प्रति वर्ष एककी संख्या जरूर बढ़ानेकी और बे-भौंवर ही। मैंने भी अपने दिवंगत नेताके कदमोंपर चलना तै कर लिया है—अभी सिर्फ दस ही गोयन्दे अल्मोडासे काश्मीर तककी पहाड़ियोंमें सुंदरियोंको हेरनेके लिये छोड़ रखे हैं—मैं महसूस करता हूँ, यह संख्या बहुत कम है।—नित्य वही थाल, वही लोटा, वही गिलास, वही बोतल, वही शराब! छी: छी: यह आदमीका जीवन है, या पशुका !!

“गावः तृणमिवारण्ये प्रार्थयामि नवां नवाम्।” ❀ यह भारतकी “अपनी

❀ “जैसे गाय जंगलमें तिनकेको उसी तरह मैं नई-नईयोंको चाहता हूँ।”

विशेषता” है, जो कुमार-कालेजकी पढ़ाई, हरसाल विलायतकी यात्रा, चिकने घड़ेपर पानीकी भौंति कोई असर नहीं रखती, और हम निष्कण्टक अपने रनिवासको सुन्दरियोंकी प्रदर्शिनी बनाते चले जा रहे। कल दीवान साहेब-को कहना होगा कि दो लाखका चेक संकटमोचन भेज दिया जाये। “अंग्रेजी राज जिन्दाबाद” “भारतकी अपनी विशेषता जिन्दाबाद।”

हाँ, तो यूनानी और भारतीय दार्शनिक-ऋषियोंकी बात बीचमें ही रह गई—सिर्फ दोनोंकी शाब्दिक तुलनापर ही जो करतल-ध्वनि हुई, उसके मारे हम कहाँसे कहाँ बहक गये। आइये जरा तुलनाके भीतर चलें। इस भूल-भूलैयोंमें दूर तक जानेका अवसर नहीं है, इसपर हम दोनों सहमत हैं, और यह खुशीकी बात है। पहिले कालको लीजिये—

भारतीय	काल	यूनानी	काल
गौतम ( अक्षपाद )	२५० ई०	अरस्तू	३८४-३२२ ई०पू०
कणाद	१५० ई०	थेल	६४०-५५० ई०पू०
जैमिनि	३०० ई०	सुक्रात	४६६-३६६ ई०पू०
व्यास (वादरायण)	३०० ई०	अफलातूँ	४२७-३४७ ई०पू०
कपिल	४०० ई०पू०	पिथागोर	५७०-५०० ई०पू०
पतञ्जलि	४०० ई०	ज़ेनो	३३६-२४६ ई०पू०

इस प्रकार कालकी समानतामें कपिल ही पिथागोरके नजदीक हैं; बाकी बेचारे भारतीय दार्शनिक अपने यूनानी तुल्य-कालोंके सरनाती भी होने लायक नहीं हैं। मेरे लिखे कालके बारेमें संदेह हो सकता है, और मैं भी उसे स्वीकार करता हूँ, कि कमसे कम भारतीय दार्शनिकोंके कालमें सुधारकी गुंजाइश है। आप इस विषयमें स्वयं कोशिश कर सकते हैं। यदि ऐतिहासिककी तुला लेकर आप वैसा करना चाहेंगे, तो मेरे बतलाये समयके ही पास पहुँचेंगे। किन्तु यदि आप तुले हुये हैं, भारतको सब विषयोंमें दुनियाका गुरु बनानेके लिये, तब तो आप पाँच

हजार वर्षसे कब पीछे उतरनेवाले होंगे, और फिर “अंधेके सामने रोना, अपना दीदा खोना” है। मैं इसका आग्रह नहीं करता, कि सर राधा-कृष्णान्ने तुलना करनेमें कालका विशेष खयाल किया होगा; आखिर मैंने भी धर्मकीर्तिकी तुलना कान्ट-हेगेलसे की है, जो कि उनसे १२ सदियों पीछे हुये। अच्छा तो सिद्धान्तकी तुलना कीजिये।

यूनानी	सिद्धान्त	भारतीय	सिद्धान्त
१. थेल (६४०-५२५ ई०पू०)	पानी मूल तत्त्व	कणाद (१५० ई०)	परमाणुवाद सामान्य विशेष समवाय
२. पिथागोर (५७०-५०० ई०पू०)	गणित ब्रह्मवाद आकृतिवाद संख्या-ब्रह्म	कपिल (४०० ई०पू०)	अनीश्वरवाद प्रकृतिवाद
३. सुक्रात (४६६-६६६ ई०पू०)	ज्ञानवाद देव-‘वेद’-निन्दक	जैमिनी (३०० ई०)	घोर रूढ़िवाद कर्मवाद वेद-दास
४. अफलातूँ (४२७-३४७ ई०पू०)	अनेक-विज्ञानवाद बुद्धिसे ज्ञान मौलिक विचारक	व्यास (वादारायण ३०० ई०)	एक-ब्रह्मवाद ग्रंथसे ज्ञान उपनिषत्-सम- न्वय

यूनानी	सिद्धान्त	भारतीय	सिद्धान्त
५. अरस्तू (३८४-३२२ ई०पू०)	केवल तर्कवाद ईश्वर सृष्टिकारण जीव एकदेशी	गौतम अक्षपाद ( २५० ई० )	शब्द और समाधि ईश्वर कर्मफल-कारण जीव सर्वव्यापक
६. ज़ेनो (स्तोइक) (३३६-२६४ ई०पू०)	तर्क कौंटेकी बाड़ जैसा, वस्तुवाद अद्वैत अन्तर्या- मिवाद अवयव-अवयवी- वाद	पतंजलि ( ४०० ई० )	सिद्धि-समाधिवाद द्वैतवाद

यदि ज़ेनोसे सर राधाकृष्णन्का अभिप्राय इस स्तोइक (संयमवादी) ज़ेनोसे नहीं, बल्कि एलियातिक ज़ेनो (४६०-४३० ई०पू०)से है, तो वह अद्वैतवादी था, जब कि पतंजलि द्वैतवादी ।

इस प्रकार सर राधाकृष्णन्ने समकक्षता स्थापित करनेमें दोनों देशोंके दार्शनिकोंके काल और विचारकी पूरी अवहेलना की है । नामोंमें अनुप्रासका ख्याल किया हो, यह भी बात नहीं है । ज़ेनोको उन्होंने पतंजलिके जूएमें रखा है; हालाँकि अनुप्रास मिलानेके लिये ठीक था—“ज़ेनोजैमिनि जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी ।” — स्तोइक (संयमी योगी) ज़ेनोको कोढ़ी कह लीजिये और ज्ञान-विरोधी घोर कर्मवादी जैमिनिको अंधा । हाँ, शायद दोनों देशोंके दार्शनिकोंकी शकलमें समानता हो सकती है, जिसके बारेमें मैं अपने भारी अज्ञानको स्वीकार करता हूँ ; मुमकिन है, सर्वपत्नीके पास १ दर्जन फोटो अदियारसे पहुँच गये हों ।

(२) धर्म-सर्वोपरि—सर राधाकृष्णन्को 'सारी' दुनिया भारतके महा दार्शनिकके तौरपर मान करती है। किन्तु आक्सफोर्डमें एक छोटी-मोटी धर्मकी गद्दीपर बैठानेका निश्चय जब बृटिश पूँजीशाहीने किया, तो कुछ लोगोंको सन्देह हुआ कि दार्शनिकको धर्मकी गद्दी देना अन्याय है—यूरोपमें धर्मको दर्शनसे उसी तरह छोटे दर्जेका समझा जाता है, जिस तरह दर्शनको साइंससे। सर राधाकृष्णन्को भी, हो सकता है, बात खटकती हो। यह भी मुमकिन है अंग्रेजी थैलीशाहोंको भारतमें किसी भी दर्शनके होनेका पता ही न हो; या हो सकता है, उनकी खोपड़ीमें भर गया हो कि भारतीय दिमाग उनकी दी हुई पदवियों और टुकड़ोंके लिये सिर्फ़ दुम हिलाना जानता है। हमें अफसोस है, हमारे सेल्की इस छोटी कोठरीके आँगनके ऊपर जितना आसमान खुला हुआ है, उससे भाँकने-वाले चेहरोंमें ज्यादातर ऐसे ही हैं। पूँजीशाहोंने चाहे किसी तरहसे भी हमारे-दार्शनिकको धर्म-चर्चाके लिये बुलाया हो; किन्तु वह हैं धर्म-चर्चा करने ही योग्य। इसके लिये हम अभी सबूत पेश करनेवाले हैं; लेकिन उससे पहले एक और बात याद आ गई। कितने ही लोग—हाँ, भारतके अंग्रेजी शिक्षितोंमें ही—यह समझनेकी बहुत भारी गलती करते हैं कि सर राधाकृष्णन् जबर्दस्त दार्शनिक हैं। इस बातमें एक तरुण हिन्दी-लेखक बुरी तरहसे फँस गया। इस लेखककी कलम और प्रतिभा दोनोंकी मैं दाद देता हूँ, भाषापर उसका अधिकार है। वह इतना साधन-सम्पन्न है कि भविष्यके लिये हम यदि उसपर ज्यादा आशा बाँधे, तो अनुचित न होगा। उसने दर्शनके इतिहासपर जो पुस्तक लिखी है, उसमें १३-२४ पृष्ठोंके अतिरिक्त बाकी चार सौ पृष्ठ इतने अच्छे लिखे हैं कि उन्हें पढ़कर बड़ी खुशी हुई—वर्त्तमानको ही देखकर नहीं, भविष्यका भी खयाल करके। लेकिन, वह २३-२४ पृष्ठ कैसे लिखे गये हैं, इसके बारेमें मैंने उसी पुस्तकपर नीली पेंसिलसे लिखा—“ग्रन्थका कलंक”। उन २३-२४ पृष्ठोंसे गुजरना मेरे लिये उतना ही मुश्किल हो गया, जितना

कि गोखरूके बयावानमें नंगे पैर आदमीके लिए चलना । और फिर यह भी ख्याल रखिये, पैरसे सिरकी पीड़ा ज्यादा दुस्तह होती है । आप समझते होंगे, मैं उस तरुणपर जल रहा हूँ । नहीं, मैं तो समझता हूँ, एक दिन उन पृष्ठोंको पढते हुए उसे भी वैसी ही पीड़ा होगी—मैं आशा करता हूँ, तरुणने इस पुस्तकसे अपने दार्शनिक अध्ययनके जीवनका आरम्भ किया है, और वह अपनेको अधिक साधन-सम्पन्न बनानेकी कोशिश करता रहेगा । जानते हैं वह पृष्ठ किस दर्शनपर हैं ? बौद्ध दर्शनपर, और बौद्ध दर्शनके भी उस कालपर जो कि बौद्ध ही नहीं, भारतीय दर्शनका भी सुनहला काल है—यानी, नागार्जुन ( १७५ ई० ) से शान्तरक्षित ( ७४०-८४० ई० ) तकका काल । भारतीय दर्शनमें जो बौद्ध दर्शनके भारी महत्त्वको नहीं समझता, उसे दर्शनको दूरसे प्रणाम कर लेना चाहिए । उस दर्शनको समझनेकी जो कोशिश नहीं करता, और भारतीय दर्शनपर पोथे लिखना चाहता है, उसके लिये क्या कहना चाहिए ? मैं यह नहीं कहता कि उसे छोड़कर आपको कलम ही नहीं उठानी चाहिए; कलम उठाइए, किन्तु सारे भारतीय दर्शनको मत समेटनेकी कोशिश कीजिये । तरुणने जो गलती की वह अपने दोषसे नहीं, यह सबसे आश्चर्यकी बात है । मुझे उम्मीद है, यदि उसने स्वयं जो कुछ संस्कृतके मूल ग्रंथों और उद्धरणोंमें पढ़ा था, उतने हीपर इन २४ पृष्ठोंको लिख डाला होता, तो पुस्तकमें यह कलंक न आने पाता । किन्तु, अफसोस है, अंधा न होते भी उसने अपनी आँखें बन्द कर लीं और दूसरे अंधेकी अंगुली पकड़ ली । आप खुद समझ सकते हैं, ऐसे आदमीकी क्या गति होनी चाहिए ।

सर राधाकृष्णन्के “भारतीय दर्शन”के दोनों पोथोंपर जगह-जगह बौद्ध-दर्शनसे कोरे होनेकी छापोंकी भरमार है । साथ ही मालूम होता है, लेखकके दिलसे “दैव राजा”का डर बिल्कुल उठ गया था, और उसे ख्याल नहीं आया कि “कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथिवी ।” मुझे



उम्मीद है यदि सर राधाकृष्णन्के दिलमें यह ख्याल आया होता, कि उनकी पुस्तक सिर्फ़ आजकी ही पीढ़ीके सामने नहीं जा रही है, बल्कि आगेवाली पीढ़ियोंके हाथमें भी उसकी कोई न कोई जिल्द पहुँच जायगी; तो फिर वह इस लीपा-पोती, इस दर्शनके विवरणके नामपर सत्यका नहीं, संप्रदाय और स्वार्थका प्रोपेगैंडा करनेकी कोशिश न करते ।

लेकिन, एक बातमें मालूम होता है—हम दोनों एक ही मर्ज़के मरीज हैं । जैसे “ठोक-पीटकर वैद्यराज” बन मैंने दर्शनपर कलम फेरनी चाही है, वैसे ही राधाकृष्णन् भी फेरमें पड़ गये—फर्क इतना ही है कि मेरी नंगी अल्पज्ञता किसीकी गढ़ेमें नहीं गिरा सकती, और जब तक हिन्दीके अधिकारी लेखक स्वयं इस तरफ़ ध्यान नहीं देते, तब तक यह पंक्तियाँ पाठकोंको कुछ बातोंके समझनेमें सहायता पहुँचा सकती हैं; किन्तु, सर राधाकृष्णन्की सर्वज्ञता कितनी खतरनाक है, इसका उदाहरण अभी वह तरुण लेखक आपकी आँखोंसे ओभल नहीं हो पाया है ।

वस्तुतः, सेवाग्राम और संकटमोचनमें इतना भेद हम गलतीसे कर रहे थे; आक्सफोर्डवालोंने सही परख की; इसके सबूतके लिये पढ़िये—

“( चारों ओरसे ) मार पड़नेपर बुद्धि भक्ति ( की गोद )में शरण ले सकती है । उपनिषदोंके ऋषि पवित्र ज्ञानकी पाठशालाके महान् अध्यापक हैं । वह हमें ईश्वर और आत्मिक-जीवनके ज्ञानके बारेमें बतलाते हैं॥”

दो मोटी-मोटी जिल्दोंको लिखनेमें उनकी लेखनीने फजूल ही परिश्रम किया; असल तत्त्व तो इस एक पंक्तिमें है—“मार पड़नेपर बुद्धि भक्तिमें शरण ले सकती है ।” संकटमोचनके बाबोंने ही अकलका ठीका थोड़े ही ले लिया है ? काशीके दूसरे छोरपर भी एक अनपढ़ पंडित रहता था, जिसका कहना है—

“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, हुआ न पंडित कोय ।

दाई अच्छर प्रेमका पढ़े सो पंडित होय ॥”

राधाकृष्णान् यथा नाम तथा गुण भक्तिमार्गी हैं । ठीक संकट-मोचन के पुराने बाबाके हम-पियाला हम-निवाला—गद्दी उसीको मिलती है, जो कि उसके लायक होता है ।

आप गुस्सा होकर कहेंगे—तर्क-वितर्क छोड़िये; आपही बतलाइये, मार पड़नेपर बुद्धि कहाँ शरण लेने जाय ? मैं कहूँगा—शरण लेना कायरोंका काम है उसे जूझ मरना चाहिये । बुद्धिपर मार पड़ रही है, आगे बढ़नेके लिये; और जो बुद्धि ज्यादा अग्रसर है उसपर मार पड़ती भी नहीं । सिकरौलसे कितनी ही बार आप एक्केपर गये होंगे । आप ही बताइये, मार किनपर पड़ती है ?...आप नाम नहीं लेंगे, मैं भी नहीं लूँगा; किन्तु, यह बात साफ है कि तेज रफ्तार बुद्धिपर कभी मार नहीं पड़ती, और न उसे किसीके पास शरण लेनेकी जरूरत होती है । वैसी बुद्धिके लिये प्रयोगका राजपथ सदा मौजूद है, इसे हम बतला आये हैं । रही, “पवित्र ज्ञान-पाठशाला”के महान् अध्यापकोंके ज्ञानकी बात । उसके बारेमें हम दूसरी जगह कह आये हैं; जिसे यहाँ फिर दुहराना नहीं चाहते; हाँ, ऋषियोंके बारेमें अनन्त-निद्रा-विलीन अपने चिरसंगी जायसवालकी एक कथा जरूर याद आती है, जो आपकी सेवामें अर्पित है ।—

सत्यव्रत सामाश्रमी कलकत्ताके संस्कृतके एक अच्छे पंडित थे—खासकर वेदकी संस्कृत ( छन्दस् )में उनकी योग्यता बहुत ऊँची मानी जाती थी । गुरुकुल काँगड़ीवालोंने एक बार अपने जलसेमें उन्हें किसी परिषदका सभापति बनाकर बुलाया । सामाश्रमीजीने वेदार्थपर स्वामी दयानन्द और ‘निरुक्त’की प्रशंसा करते हुए एक सारगर्भित भाषण दिया । आर्य-समाजके उस वक्तके टुटपुँजिये विद्वानोंपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु, तीन तरुण संस्कृतज्ञोंपर उसका इतना असर पड़ा कि वह सामाश्रमीके गिर्द गङ्गाकी सक्की बन

\*“बोल्गासे गंगा” प्रवाहण

गये । सामाश्रमी अपनी वेदशताको आर्य-समाजके वातावरणमें जिस तल तक पहुँचा चुके थे, उससे पीछे उतारना उनके लिये मुश्किल था । तलसे उतारनेका सवाल तो दूर, वहाँ 'हाँ' 'हाँ' में वह कुछ सीढ़ी और ऊपर टँग गये । तीनों तरुणोंने आग्रहपूर्वक कहा "गुरुजी इसशानको फैलाइये ।"

—“फैलानेकी तो मुझे भी अत्यन्त इच्छा है । मैं भी बाज वक्त चिन्तामें पड़ जाता हूँ, कि कहीं इतने परिश्रमसे उपार्जित यह वेद-विद्या मेरे साथ ही न चली जाय । लेकिन, अधिकारी शिष्य मिलें तब न ?” ठीक उपनिषद् के ऋषियोंके स्वरमें इस बातको—शब्द नहीं, बात ही कहूँगा; क्योंकि वहाँ भाषण सारा संस्कृतमें हो रहा था—सुनकर तीनों शिष्य गद्गद हो गये, और उन्होंने सारी परीक्षाएँ दे, गुरुको अपनी सेवासे प्रसन्नकर, भगवती वेद-विद्याके ग्रहण करनेका पक्का इरादा प्रकट किया । सामाश्रमीजी तीनों नये रँगरूटोंको ले कलकत्ता पहुँचे । कुछ दिन-सप्ताह—तो ऐसे ही बात-चीत, सत्संग हीमें चले गये । फिर पढ़ाई शुरू हुई । आर्य-समाजी शिष्योंने समझा था कि गुरुजी ऐसी कुञ्जी बतलायेगे, जिसमें यदि सारे साइंस वेदमें न झलकने लगें, तो कमसे कम जगह-जगह जो वेदोंमें इतिहास—देशों, नदियों, राजाओं, रानियों, ऋषियों, ऋषिकाओंके नाम तथा वृत्त-मिलते हैं, और जिनकी वजहसे वेदको दो अरब वर्ष पहले ले जाना सम्भव नहीं, इसका तो कोई समाधान निकल आयेगा । सामाश्रमीजी शिष्योंके अभिप्रायको समझते थे; इसलिये पहले बचते हुए उन्होंने पाठ पढ़ाना शुरू किया; किन्तु शिष्य कोई दुधमुँहे बच्चे न थे । अन्तमें उन्होंने यह कहकर पाठ कुछ दिनोंके लिये बंद रखा कि इस तरहके गहन वेदार्थके लिये गुरुको भी कुछ साधना करनी पड़ती है । एक दिन गुरुने तोंद खोले आसन-पर पद्मासन मार शिष्योंका आवाहन किया । शिष्य प्रसन्न हो सामने जा मौजूद हुए । वेदार्थ शुरू हुआ । एक मंत्रपर पहुँचे, अर्थ कुछ इस तरहका हुआ, जिससे वेदकी अनित्यताका ही डर नहीं हो गया, बल्कि

वैदिक ऋषिके मुँहसे निकली ऊट-पटाँग बात पकड़ी गई। शिष्योंने बहस करते हुए कहा—“ऋषि होकर ऐसी गलत बात क्यों कही ?”

सामाश्रमीजीने चट अपनी तोंदपर हाथ फेरते हुए कहा—“इसीके लिये, उनके पास भी यह (पेट) मौजूद था।”

तीनों शिष्योंके दिलको भारी धक्का लगा, इसमें शक नहीं; किन्तु सामाश्रमीजीकी बात सोलहों आना सच थी, इसमें राधाकृष्णन्को छोड़ किसीको भी सन्देह नहीं हो सकता। सामाश्रमीजीमें वह योग्यता थी, जिससे वह हारिद्रुमत गौतम, सत्यकाम जाबालकी पंक्तिमें जा जूठन गिरा सकते थे, जबकि राधाकृष्णन् गरोबसे वे ऋषि अपने जूतेका तस्मा भी नहीं खुलवाते।

### ३. धर्मसार

(१) आत्मा और दिव्य शक्तिकी कल्पना—धर्मका सार है, किसी अलौकिक शक्तिमें विश्वास। यह विश्वास या भक्ति किसी ऐसी एक शक्ति (ईश्वर)में भी हो सकती है, और अनेकोंमें भी : वह भक्ति अधिक स्थूल—आरण्यक मानव जैसी—भी हो सकती है, और सर राधाकृष्णन् या गांधीजीकी जैसी सत्य-शिव-सुन्दरसे अनुप्राणित भी। शक्ति, आत्मा, देवताका यह ख्याल न आत्मानसे टपका, न आत्माकी आवाज़से। इसकी उत्पत्तिका कारण उस समयके समाजका आर्थिक ढाँचा था, जिसमें कि वंश-गोत्रका महापितर ( दादा ) या महामाता ( महामाई ) जीवन-सामग्रीके उत्पादन, आत्मरक्षा तथा परलुंठनमें वंशका नेतृत्व करते थे। आरंभिक समाजमें जो श्रम-विभाग हुआ था; पत्थर, लकड़ी, हड्डीके हथियारोंकी सहायता प्राप्त होनेपर वैसा होना जरूरी थी। उस समय इस श्रमके संचालनके लिये जो व्यक्ति सबसे आगे था, वह वही हो सकता था, जो कि उत्पादक श्रम—जानवर, मछलीके शिकार, जाल बुनना, हथियार बनाना आदि—में सिद्धहस्त था; जो शासन, युद्ध-संचालन कर सकता था; जो परिवारके कामकी

योजना आगेसे बना उसे प्रायः सफल करा सकता था। ऐसे व्यक्तिका समाजमें सबसे ऊँचा स्थान होना जरूरी था; क्योंकि वह उन वस्तुओंको पहले अपने दिमागमें तैयार कर लिये होता था, जिन्हें कि दूसरे उसकी देखरेखमें सिर्फ साकार रूप देते थे।—वह विधाता था, दूसरे उसके आशाकारी अनुचर। वह इच्छा करता था और दूसरे उमकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले। श्रमका यह सफल विभाग आदिम मानवोंके मनमें इतना गड़ गया था, कि हर जगह उन्हें यह रूप दिखलाई पड़ता था—आखिर आजकल हिन्दुओंके राम-नाम-बैंकको भी बनियोनेअपने कारबारके तजव्वेसे धर्म-खातेमें दाखिल किया है और हम उन्हें एक वर्गके भीतर बहुत सफलतासे चलते भी देखते हैं। आदिम समाजके इस रूपने स्वयं मानवको आत्मा और शरीर दो भागोंमें बाँटा—आत्मा शरीरका संचालक है, और इसीलिये वह शरीरसे श्रेष्ठ तथा उसका संरक्षक है। इसी ख्यालको लेकर माण्डूक्य-उपनिषद् और गीतामें शरीरको रथ तथा आत्माको रथी (योद्धा)की उपमा दी गई है। अरस्तूने आत्माको स्वामी और शरीरको दासोंसे उपमा दी है—अरस्तूके समय यूनानमें स्त्री-पुरुषोंकी बँच-खरीद आम थी, और दासोंका काम सिर्फ मालिककी आशाको पालन करना, उसकी सेवा करना था।

जिस तरह श्रम-विभागके क्षेत्रसे लेकर चलते-फिरते काम करते शरीरके संचालनके लिये उससे पृथक् एक आत्माकी कल्पना की गई, उसी तरह उन्हें विश्वमें हर एक वस्तुके पीछे आत्मा दिखाई पड़ने लगा, जिसे कि उस वस्तुका आत्मा—अभिमानी देवता—कहा जाने लगा। वेदके देवता इसी प्रकारके अभिमानी देवता हैं; और वह सूर्य, चन्द्र, आकाश, धुलोक, जल, थल सबमें अलग-अलग अपना आसन जमाये उनका संचालन कर रहे हैं। [यही आदिम-मानवकी कल्पना याज्ञवल्क्य (६०० ई०पू०)के सामने थी, जिसे कि उसने अलग-अलग अभिमानियोंको मिलाकर एक अन्तर्यामी ब्रह्मके रूपमें परिणत कर दिया]

उस समयके मानव अथवा आज भी जो जातियाँ उस अवस्थामें हैं—के भीतर कोने-कोनेमें भूत-प्रेत देवताका विश्वास जो इतना ज्यादा पाया जाता है, उसकी वजह यही थी।—यह है वह कारण-सामग्री जिसने धर्म-को पैदा किया। महापितर या महामाताका ख्याल इस सबकी जड़में था। इसीलिये अलौकिक शक्तिकी कल्पना भी इन्हीं दो रूपोंमें की गई। मातृसत्ताक समाजके सबसे पुराने होनेसे मातादाईका धर्म ही सबसे पहिले अस्तित्वमें आया—जिसके कि प्रमाण सिन्धु, नील, दजला-फुरातकी उपत्यकाओंके प्राचीन धर्मोंमें बहुत ज्यादा पाये जाते हैं। हिन्दुओंकी काली-दुर्गा उसी मातृसत्ताक नमूनेपर बने धर्मके अवशेष हैं; ईसाइयोंमें माता मरियम, महायान बौद्धोंमें तारा, जैनोंमें चक्रेश्वरी सभी आद्यामाता (मातृसत्ताक परिवारकी संचालिका माता)की प्रतीकें हैं।

मातृ-सत्ताक या पितृ-सत्ताक समाजमें जीते-जी जो नेतृत्व कर रहे थे, मरनेके बाद भूत-प्रेत-देवतासे भरे जगतमें, विशेषकर रातके आँधरेमें इन मृत नेताओंका दर्शन होना स्वभाविक था। फिर उनके लिये चौतरे तथा बलिका प्रबंध लाजिमी ही था।—आखिर, जीवनमें जिस तरह वह गाढ़े वक्तमें काम आते थे; अपनी बुद्धिमत्ता, वत्सलतासे अपने बाल-गुपालोंको वह अब भी उतना ही फायदा पहुँचा सकते तथा पहुँचाना चाहते थे; जरूरत इतनी ही थी, कि जीवनमें उनके लिए जो प्रिय वस्तुएँ थीं, अब भी वह उनके सामने बलिके तौरपर पेश की जायँ। महापितर और महामाताकी प्रेतात्माओं - दिव्यात्माओं—के साथ ही लोग उनके सहायकों—सेनाओं—को भूल नहीं सकते थे, आखिर मरनेके बाद भी तो यह दिव्यात्मायें अकेली सीम था सुरापीनेमें आनंद अनुभव नहीं कर सकती थीं, न अकेली नाच-गा सकती थीं; फिर चाहे सन्तान-अनुसन्तान न भी पैदा करें, किन्तु संभोगके आनन्दसे तो वह अपनेको बंचित न कर सकती थीं। इन सबके लिये पृथिवीपर मौजूद मानव-समाज की एक पूरी नकल दिव्यात्मा-समाजके रूपमें तैयार की गई। हम पुराने

मिख, बाबुल, धूनान और भारतके ग्रन्थोंके पढ़नेसे जानते हैं, कि एक समय था, जब कि मनुष्य-लोककी भाँति देव-लोक भी पृथिवीपर ही—बल्कि उसके पड़ोसमें था, और अक्सर दोनों लोकोंके स्त्री-पुरुष वैसे ही आपसमें समागम करते थे जैसे किसी दो कबीलोंके लोग। यही नहीं हर देशके पुराने वीरोंमें, महापुरुषोंमें, ऐसोंकी संख्या काफी पाते हैं, जो कि देव-रुन्या या देव-पुत्रकी सन्तान थे। उस वक्त अभी मानवकी संख्या कम थी, पृथिवीका बहुत अधिक हिस्सा जंगल, गैर-आबाद और अज्ञात था; वहाँ दिव्यात्मायें भी बास कर सकती थीं, किन्तु जैसे-जैसे मनुष्यकी संख्या और ज्ञान बढ़ता गया, वैसे ही वैसे देवताओंको पृथ्वी छोड़नेपर मजबूर होना पड़ा।

( २ ) थ्योसोफी और सखी-समाज—पिछली सदी तक तिब्बत दुनियाके सबसे अज्ञात देशोंमें था, इसीलिये देवफोफीने वहाँ देवनगर बसाये, श्वेत-परिषदें कायम कीं, दुनियाके लोगोंको वैयक्तिक तौरसे यह-प्रदर्शन करनेवाले महात्माओंके लिए अनेक हेड-क्वार्टर या छावनियाँ छवाईं।—आपको यह सुनकर तत्रज्जुब होगा, मगर कितनेही शिक्षितों-ने मुझसे बड़ी गम्भीरताके साथ पूछा था, कि इन देव-परिषदों और महात्माओंके बारेमें आपने तिब्बतवालोंसे क्या सुना? जब मैंने रोषको भीतर ही दबाकर कहा कि वहाँके लोगोंको इन देव-परिषदों तथा महात्माओंका कुछ भी पता नहीं है, तो एकाधने यहाँ तक कहनेकी धृष्टता की कि तब आप उस इलाकेमें नहीं गए होंगे। उन सज्जनोंको यह विश्वास दिलाना मुश्किल था कि मैं “महात्मा” कूट-हूमी (कोथूमी) और लालसिंहके केन्द्र तथा ‘महाचोहान’के इलाके शि-गर्चे और टशील्हुन्पो में अनेक बार पक्षों और महीनों तक रहा हूँ—यह वही जगह है, जहाँसे उक्त महात्मागणने सिन्धेट और दूसरे थ्योसोफिस्टोंको कितने ही पत्र और संदेश भेजे थे। एक शब्द देवफोफी शब्दके बारेमें भी—थेव देवका ही

यूनानी पर्याय है। सोफीको फोफी कहनेवाला आपके मित्रोंमें कोई मिल जायगा, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि “साइंस समाहित इस महान् धर्मका” यह नया नामकरण नहीं, बल्कि सिर्फ हिन्दीकरण मात्र है। मुझे उम्मीद है, थ्योसोफिस्ट सज्जन इसका प्रचारकर पुरायके भागी बनेंगे। मैं उन आदमियोंमें हूँ, जो कि देवफोफी समाजको धर्मका चरम उत्कर्ष मानते हैं। धर्मने यहाँ आकर अपनी पूर्णता प्राप्त की, धर्मके लिये इससे आगे बढ़नेके वास्ते अब एक सीढ़ी भी नहीं रह गई। कृष्णके “शब्दों”में धर्मके इस गाढ़े वक्तमें वह स्वयं इस समाजके रूपमें अवतीर्ण हुए।” इस समाजने अपने थोड़ेसे समयके जीवनमें जितने दिमागोंको “गुमराह” होनेसे बचाया, उतना किसीने नहीं किया होगा। और पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्खिनके धार्मिक विचारोंका जो गंगा-सागर-संगम इसने रचाया, उसे देखकर तो तब्ययत अश्-अश् करने लग जाती है। सबसे बड़ी “सेवा” जो देवफोफी समाजने की है, वह है देवताओंको फिरसे मर्त्यलोकमें लाना ही नहीं, बल्कि उनका दर्शन कराना, उनका शब्द सुनाना, उनका गंध सुँघाना, उनका रस चखाना, उनका स्पर्श कराना।— देवगण बिलकुल इन्द्रियगोचर हैं, इसे उसने सैकड़ों देव-फोटो-चित्रोंसे साबित कर दिया। आज इस समाजके प्रतापसे आप देवताओं, दिव्यात्माओं, प्रेतप्रेमाओंसे उसी तरह बातचीत कर सकते हैं, जैसे मुझसे। और फिर “नदिया एक घाट बहुतेरे”के महामंत्रको इसीने वस्तुतः पूरी तौरसे कार्य-रूपमें परिणत कर दिखाया।

(सखी-समाज)—सखी-समाजमें आप लोगोंको नाना भौँतिसे भगवत्-उपासना करते पायेंगे : कोई पुरुष होते भी अपनेको भगवान्की पत्नी समझता है, परिणीता नहीं तो रखेली होनेपर भी वह सन्तोष करनेके लिये तैयार है। हर मास उसे मासिक धर्म होता है, और वह नियम-पूर्वक तीन दिन तक “कपड़ोंसे” रहता है। हर रात भगवान्को “लेकर” सोता है, इस लालसासे कि भगवान् अपने जैसी एक मेघ-



श्याम सन्तान प्रदान करें; किन्तु प्रकृति भगवान् तथा भक्तिनजीके काममें भारी बाधक है, और दोनों उसका कुछ कर नहीं सकते। इन “तरुणी” तथा “वृद्धा” “सखियों”के फोटोचित्रोंको देखकर आप अपनी आँखोंको तृप्त कर सकते हैं; लेकिन अब जमाना फोटोका नहीं चल-चित्रोंका है, मैं देवफोफीकी शाखा, इस सखी-समाज—जिसकी संख्या बिहारमें काफी है—से विनम्र प्रार्थना करूँगा कि समयकी गतिसे बढ़ें, और चल-चित्र—सिनेमा—द्वारा अपने ही प्रान्तकी नहीं अपने गुरु-द्वारों—अयोध्या, वृन्दावन—की बड़ी बूढ़ी “सखियों” तथा उनकी “तरुण परिचारिकाओं”का भी उनके स्वाभाविक पोज—भावभंगी—हाव-भाव-कटाक्ष—तथा स्त्रैण मृदुभाषणके साथ फिल्म उतरवायें। ऐसे फिल्मसे भारी लोक-कल्याण होगा। नवधा भक्तिका फौव्वारा घर-घरमें फूट निकलेगा, जिसमें डर इतना ही मालूम होता है, कि वास्तविक स्त्रियाँ कहां कूर्यमें कूदकर आत्महत्या न कर डालें।

हाँ, मैं यहाँ इतना जरूर कहूँगा कि सखी-समाज देवफोफी समाज-का न अभिन्न अंग है, न उससे सम्बद्ध है, उसने परीक्षक विश्वविद्यालयोंकी भौति उसे स्वीकृति भर दी है, किन्तु सैकड़ों सखी-समाजी देवफोफीके सरगर्म सदस्य तथा नेता हैं, इससे वह इनकार नहीं कर सकती।

देवफोफीका विस्तार सारी पृथिवीपर है, इसके विशाल साम्राज्यमें “सूर्य कभी नहीं उगता”की कहावत चरितार्थ होती है। उसके सारे सदस्य “आँखके अंधे गाँठके पूरे” नहीं हैं, और नहीं सभी चतुर शिरो-मणि हैं, यह मैं मानता हूँ; किन्तु उसके नटनागरों और...की कलायें दर्शनीय होती हैं, इसमें सन्देह नहीं। लेकिन, आप मुझसे आशा न रखिये कि मैं इन कलाविदों तथा उनके अड्डोंकी सैरके लिये आपका पथ-प्रदर्शक बनने जा रहा हूँ। एक वाक्यमें मैं कहना चाहता हूँ—कि देवफोफीके रूपमें भगवान् धर्म अपनी सोलह कलामें अवतीर्ण हुए हैं।

( ३ ) दुनियामें देव-कल्पना (i) बाबुल—एक जर्मन प्रोफेसर लिखता है—“( धार्मिक कल्पनायें ) सामाजिक राजनीतिक कल्पनाओं तथा संस्थाओंके सिर्फ दर्पण(प्रतिबिंब ) मात्र हैं ।” ❀ प्रचीन बाबुलमें अनु, एनलिल्, एश्रा, सिन्, शम्श ( सूर्य ) आदि देवता पूजे जाते थे । इन बड़े देवताओंके साथ कितनी ही दिव्य-( इहीही ) तथा भौम आत्मायें ( अनुनाकी ) भी थीं, जिस तरह हिन्दुओंमें बड़े देवताओंके साथ लाखों देव-परिवार, ग्राम-देवता और कुल-देवता । बाबुलमें जिस तरहका राजतन्त्र उस वक्त प्रचलित था, उसीकी नकलपर देव-समाजमें भी राजतन्त्र कायम था । जैसे-जैसे बाबुलके पार्थिव मानव-समाजमें परिवर्तन होता गया, उसी तरह वहाँके देव-समाजमें भी परिवर्तन करना पड़ा । सामन्तोंमें जिस तरह बाबुलका महासामन्त या बादशाह प्रधान और सर्वशक्तिमान माना जाता था, उसी तरह बाबुलका देवता मर्दुक सर्वशक्तिमान देवातिदेव बना । मर्दुक देवातिदेव बननेसे पहिले सुमेरीय जातिका जातीय देवता था, जिसे वे लोग वसन्तका अधिष्ठाता मानते थे । रम्भूरब्बीके राजवंशने अपनी प्रधानताके समय मर्दुकको महा-देव बनाया । इससे पहिले एनलिल् पृथिवी और आकाश ( द्यावा पृथिवी )का स्वामी था, जिसे कि मर्दुकके लिए अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा । एश्रा सृष्टिकर्ता (ब्रह्मा) था, उसका अधिकार मर्दुकको कैसे दिलाया जाय, इसके लिए एक पौराणिक कथा गढ़ी गयी, जिसमें साबित किया गया कि सुमेरीय मर्दुक बाबुली एश्राका ज्येष्ठ पुत्र है । राजाका पुत्र उत्तराधिकारी होता है । बाबुलकी राज्य-व्यवस्थाके पूर्णतया एक राजाके हाथमें आ जानेपर उसका प्रभाव वहाँकी देव-मण्डलीपर जो पड़ा, उसे ही हम मर्दुककी सर्वेश्वरता तथा सर्वदेवमयतामें देखते हैं । इसीलिये बाबुली पुराणमें मिलता है—“निनिब् बलका कर्दुक है, नेर्गल युद्धका मर्दुक,

\*Professor Achelis ( Soziologie, in Sommlung  
Goschen, Leipzig, 1899, p. 85 )

एनिल् प्रमुताका मदु'क ।" मदु'ककी निम्न स्तुतिको देखनेसे मालूम हो जायगा कि उसकी कल्पनामें बाबुलके राजाकी कितनी नकल है—

“ईश्वर, देवाओंके शासकः द्यावा-पृथिवीके अकेले महान् राजा ! आपने पृथिवीको सिरजा, मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा की, और नामकरण किया । पिता ! आप देवों मनुष्योंके जनक हैं...। महान् नेता ! जिसकी रहस्यपूर्ण गहराईका पता किसी देवताको नहीं लगा ।... पिता ! ( आप ) सभी सत्त्वोंके स्रष्टा हैं ।... शासक ! आप ही हैं, जो कि द्यावा-पृथिवीके भाग्यके प्रेरक हैं, जिसका शासन अ-लंघ्य है, जो सर्दी-गर्मी प्रदान करता है, प्राणियोंपर राज्य करता है । कौन देवता है आपके जैसा दूसरा ? द्यु ( नक्षत्र )-लोकमें कौन महान् है ? सिर्फ आप ही । और पृथिवीमें कौन महान् हैं ? ( आप ही ) । जब देवलोकमें आपका शब्द प्रतिध्वनित होता है, तो इहीही ( सुरगण ) धरतीपर पड़ जाते हैं; जब वह पृथिवीपर प्रतिध्वनित होता है, तो अनुनाकी ( भौम देव ) धरतीको चूमते हैं ।... ईश्वर ! पृथिवी और देवलोकके तुम्हारे राज्यमें तुम्हारे भाई देवताओंके बीच कोई ऐसा नहीं है, जो कि तुम्हारे समान हो ।”‡

( ii ) यूनान—पुराने यूनानियोंकी सारी शासन तथा समाज-संबंधी व्यवस्थायें एवं आचार-विचार उनके देवताओंमें मौजूद थे । जेउस् ( झौः ) देवताओंका देवपितर था, देमेटेर ( द्विमातर ? ) कृषिकी देवी, हेमैस् व्यापारका देवता और हेलियोस् ( सूर्य ) उदार व्यवसायोंका अधिष्ठाता था । ईसा-पूर्व पाँचवीं सदी अथेन्स ( यूनानकी प्रधान नगरी )के वैभवका मध्याह्न काल था, अथेन्स दुनियाके व्यापारकी रानी थी, और वहाँका शासन व्यापारियोंके प्रजातंत्रके हाथमें था, जिसमें स्त्री-पुरुषोंका क्रय-विक्रय कानूनन् विहित ही नहीं, बल्कि अथेन्सके वैभवका

\*“प्राचीन प्राचीका इतिहास” ( रूसीभाषा, ) प्रोफेसर युरायेफ् ( जिल्द १ पृष्ठ १२७ ) †फारसीका शाह और संस्कृत शास एक ही शब्द है । ‡ वहीं पृष्ठ १४४ ।

बहुत दारमदार दास-प्रथापर था। इस ढाँचेको धारण करनेके लिये धर्मकी कितनी जरूरत थी, यह उस समयके कवि सोफोकल्की इस सम्मतिसे मालूम होगा, जिसके अनुसार “सारा जगत् ध्वस्त हो जायगा यदि धर्म उठ गया; क्योंकि सभी आचार और राज्य-संबंधी व्यवस्थायें देवताओंकी इच्छापर निर्भर हैं” ❀ उस वक्तके शासनच्युत सामन्तवंशज तथा उनके अनुयायी यूनानकी तत्कालीन धर्म-व्यवस्थाका विरोध करते थे, क्योंकि इस विरोध द्वारा वह शासकवर्गका विरोध कर सकते थे। मुक्रात देवताओंका विरोध करके यही कसूर कर रहा था, जिसके लिये अथेन्सके व्यापारी शासकोंने उसे जहरका प्याला पीनेके लिये मजबूर किया।

(iii) प्राचीन-स्लाव-रूसी, बुल्गर आदि जातियोंके पूर्वज—प्राचीन स्लाव लोगों—में देवकल्पना उनके अपने ही समाजकी प्रतिच्छायाके तौर-पर देखी जाती है। पितृपूजा, जातीय देवताओं, गृह-देवताओं, व्यवसाय-सम्बन्धी देवताओंकी पूजा उनके धर्मका स्वरूप था। योद्धा और व्यापारियोंका इष्ट तथा विजली (अशनि)का देवता पेरुन वैदिक इन्द्रकी भाँति बहुत ऊँचा स्थान रखता था। उनके देवलोकके सभी बँगले मृतसामन्तों तथा उनके दरबारियोंके लिये रिजर्व थे। वहाँ पृथिवीके सामन्त-प्रासादोंकी भाँति साधारण जनताको एक नजर भाँकनेका भी अधिकार न था। हिन्दुओंके पुराणों तथा दूसरे धर्म-ग्रंथोंमें भी जो देवलोक मिलता है, उसमें भी इस बातका पूरा ध्यान दिया गया है। पीछे स्लाव लोगोंके पुराने धर्मकी जगहको जब ईसाई-धर्मने लिया, जिसके प्रचारमें स्लाव-सामन्तोंने बहुत उत्साह दिखाया और जिसके फल-स्वरूप वह और उनके वंशजोंने पीछे ज़ारकी श्राहंशाहत कायम की। अब रूसी चर्च (धर्म)ने ज़ारके दरबारपर ही अपनी देवावलीकी रचना की; जिसमें

❀ *Geschichte des altertums* (Edward Meyer)  
IV. p. 140 में उद्धृत।

ज़ार था ईश्वर, ज़ारीना थी ईश्वरकी माता मरियम्, सन्त निकोला जैसे सिद्ध पुरुष ज़ारके दरबारी और मंत्री...और सन्त मिखाईल (फरिश्ता) देव-सेनानी ज़ारका कमान्डर-इन-चीफ था। रूसी भाषामें ईश्वरको गॅस्पद कहते हैं, और स्वामी (स्)को भी गॅस्पदिन्; भगवान्को बॅग (संस्कृत, भग) कहते हैं और ऐश्वर्यको बॅगस्त्व। संस्कृत तथा हिन्दू देवशास्त्रके जाननेवालोंको इसके लिये आश्चर्य करनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि वैदिक आर्योंके सबसे नजदीकके युरोपीय भाई-बंध यही प्राचीन स्लाव थे, जिनके ही वंशज आजके रूसी हैं। पाणिनिके वक्त (४००ई०पू०) ईश्वर शब्द राजाका वाचक था, गुप्तकाल (४००-६०० ई०)में तो राजाकी उपाधियोंमें “परमेश्वर” आम तौरसे ताम्रपत्रों और शिलालेखोंमें उत्कीर्ण पाया जाता है। ऐश्वर्य (ईश्वरता) तो आज भी देवलोक और मनुष्य लोकमें उसी अर्थमें विराज रहा है; भगको ऐश्वर्यके अर्थमें हमने धातुपाठमें पढ़ा ही है।

आदिम मानव-समाजके देवता मांस-रुधिर खाते, सुरा पीते, नाचते-गाते—सब कुछ मनुष्यकी तरह करते थे। यह ठीक भी है—“यदन्नं पुरुषो ह्यत्ति तदन्नं तस्य देवता।” ❀ यदि वैदिक कालमें आर्य लोग गायको मारकर उसके मांसको आगमें “स्वाहा” “स्वाहा” करते थे, तो वह उस गायको जिलानेके अभिप्रायसे नहां, बल्कि अपने आहारको देवताओं तक पहुँचानेके लिये। अस्तु, देवता खाने-पीने, नाचने-गाने ही नहीं, सदाचार-दुराचारमें भी मानवकी ही प्रतिकृति थे, और किसी जातिकी देव-गाथासे हम उसके तत्कालीन समाजका चित्र बहुत कुछ खींच सकते हैं। भारतमें इन्द्रके द्वारा गौतम ऋषिकी स्त्रीका सतीत्व-अपहरण एक प्रसिद्ध बात है, जिसमें जान पड़ता है, अहल्याका भी कुछ हाथ था, नहीं तो ऋषि उसे शाप न देते। इन्द्र हमारे लिये आज

❀“जो भोजन पुरुष खाता है वही उसका देवता भी”।—जातक१०६

विस्मृत-सा देवता है; इसलिये इस दुराचारको वह महत्व नहीं दिया जाता ; किन्तु हमें स्मरण रहना चाहिये कि जिस समयकी यह बात है, उस समय इन्द्र सर्वोपरि देवता—देवातिदेव—था; विष्णु और शिव ही नहीं. ब्रह्माकी भी उस समय कोई पूछ नहीं थी। हमारे इन्द्रदेवता तो अहल्याके ही जार भर ही बनकर रह गये, किन्तु, यूनानियोंके देव-पितर—जेउस्ने तो गजब ढाया। वह गनिमेदे नामक एक बालकपर मुग्ध हो, उसके साथ अप्राकृतिक व्यभिचार करता था। उस वक्तके यूनानी भद्र समाजमें यह रोग बहुत बढ़ा हुआ था, जिसके छींटेसे बेचारा जेउस् भी बच नहीं सका। आज भारतमें रामजी-कृष्णजीको भी वैसा बनानेकी चेष्टा, उसी दूषित मनोवृत्तिको प्रकट कर रही है।

व्यापारियोंकी प्रधानतामें देवशास्त्रमें एक कल्पनाका और आविष्कार हुआ; और यह है निराकार ईश्वर-कल्पना। इस कल्पनाके स्रोतको ढूँढते हम सिक्केपर पहुँचते हैं। सिक्केके रूपमें एक सर्व-शक्तिमती सत्ता विराज रही है जिससे मनोवाञ्छित फल प्राप्त किया जा सकता है। इस टका-धर्मने आज राम-नामके बंक ही जारी नहीं किये; बल्कि खुद निराकार ईश्वरके ख्यालको दृढ़ करनेमें भी इसका सबसे बड़ा हाथ है।

( iv ) भारत—भारतके धर्म तथा देवताओंका खास तौरसे जिक्र करनेकी जरूरत नहीं; क्योंकि उनकी कुछ बातें पहिले आ गई हैं; सिर्फ देव-कल्पनामें परिवर्तन होनेके दो-एक दृष्टान्त दे देते हैं। बुद्धके वक्तमें राजतंत्र तथा प्रजातंत्र दोनों तरहके शासन मौजूद थे, जिनमें स्वयं प्रजातंत्रमें उत्पन्न तथा साम्यवादी जीवनके प्रशंसक होनेसे वह प्रजातंत्रवादके प्रति ज्यादा पक्षपात रखते थे। यह उस बातसे साफ हो जाती है, जो कि उन्होंने लिच्छवि प्रजातंत्रसे अनेक बार हारे, किन्तु फिरसे आक्रमणकी तैयारी करते मगधराज अजातशत्रुके मंत्रीके प्रश्नके उत्तरमें कही थी। यह वार्त्तालाप महापरिनिर्वाण-सूर्यमें मौजूद है। इसमें बुद्धने लिच्छवियोंको अपराजेय कहना चाहा है—हाँ, कुछ शतोंके साथ। मानव

समाज और देव-समाज एक दूसरेसे कितना सादृश्य रखते थे, यह बुद्धके इस वाक्यसे भी मालूम होता है, जिसे कि “दूरसे ही लिच्छवियोंको आते” देखकर उन्होंने कहा था - ❀

“अवलोकन करो, भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिषद्को । अवलोकन करो, भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिषद्को । भिक्षुओ ! लिच्छवि-परिषद्को त्रायस्त्रिंश ( देव )-परिषद् समभो ।”

उस वक्त लिच्छवि जिस भेष-भूषामें थे, उसके बारेमें वहीं कहा गया है—“सुन्दर यानोंपर आरूढ़ः नीले = नीलवर्ण नीलवस्त्र नील-अलंकारवाले पीले = पीतवर्ण पीतवस्त्र पीतअलंकारवाले लाल = लोहितवर्ण लोहितवस्त्र लोहितअलंकारवाले श्वेत = श्वेतवर्ण श्वेतवस्त्र श्वेतअलंकारवाले ।”†

हिन्दुओंमें इन्द्र, वरुण जैसे देवताओंके प्रभाव कम होनेका कारण सबसे बड़ा यह था कि इन देव-परिषदोंमें लोकतन्त्रता जरूरतसे ज्यादा थी, जिसके कारण हिन्दू निरंकुश शासक उसको पसंद नहीं कर सकते थे । पुरानी देवावली तथा पुराने प्रजातन्त्रोंके ध्वंसके बाद जब तीसरी-चौथी शताब्दी ईसवीमें भारशिव, गुप्त जैसे नये हिन्दू राजवंशोंके समय नये देवशास्त्रों—पुराणों—का निर्माण होने लगता है, तो बेचारे ऋग्वेद तथा कुछ तो उससे भी पहिलेसे चले आते देवता जाति-वहिष्कृत किये जाते हैं, और उनकी जगह शिव ( भारशिवोंके इष्ट ) और विष्णु (गुप्तोंके इष्ट) देव सर्वेसर्वा बना दिये जाते हैं । इस नई व्यवस्थाकी पुष्टिके लिये यहाँ भी वैसी ही कथायें गढ़ी जाती हैं, जिनका जिक्र हम बाबुलके मर्दुके बारेमें कह आये हैं । हिन्दू-धर्मकी नींवमें यदि खोजकी

---

\*देखो, “दीघ-निकाय” ( हिन्दी ) पृष्ठ २१३ तथा “बुद्धचर्या” पृष्ठ ५२०-४७ त्वहीं पृष्ठ ५३५

साइर्यों खोदकर देखें, तो वहाँ हमें बहुतसे देवता फोसीलके रूपमें मिलेंगे । इन देवताओंमें मणिभद्र यक्षकी कण्ठ कहानी सुनकर किसके दिलमें चोट न पहुँचेगी । मणिभद्र बुद्धकालीन उत्तरी भारतके अत्यन्त प्रतापी देवताओंमें था । अभी उस समय ( ५०० ई०पू० ) तक शिव और विष्णु किसी गिनतीमें न थे । दक्षिणी युक्त-प्रान्तमें ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीकी एक पाषाण-मूर्त्तिका आसन मिला है, जिसपर भगवान् मणिभद्रका नाम खुदा है । फिर दण्डी ( ६०० ई० ) ने दशकुमार-चरितमें मणिभद्र यक्षकी कन्याका जिक्र किया है—यक्ष कहनेसे नाक-भौं न सिकोड़िये, पालीमें इन्द्रको भी यक्ष कहा है, और उससे पहिले उपनिषद्में भी यक्ष उसी अर्थमें व्यवहृत होता था । सबसे पीछे मणिभद्रका नाम नवीं-दसवीं सदीमें कलिंजरके राजाओंके समयमें लिखे नाटकोंमें मिलता है । दसवीं सदीके बाद भारतमें तो मणिभद्रका पता नहीं मिलता; हालाँकि ब्रह्मसा ( तिब्बत ) में मैंने साधुनियोंको गृहस्थोंकी रक्षाके लिये मणिभद्रकी गुहार करते देखा है । ॥४॥

( ४ ) पूर्व और पच्छिममें धार्मिक प्रतिक्रिया — कितने ही भारतीय इस गलतीमें हैं कि उनका ही देश एक मात्र धर्मप्राण है, और यूरोप सारा नास्तिक हो गया है — इस गलत धारणाको किप्लिङ् और सर राधाकृष्णन् जैसे लेखक मजबूत करते हैं । सर राधाकृष्णन्का कहना है—†

“पश्चिमी सभ्यताकी मुख्य प्रवृत्ति है मानव और ईश्वरके बीच विरोध—वहाँ मानव ईश्वरकी प्रभुतासे मुकाबिला करता है, मानवताके लाभके लिये उसी ईश्वरसे अग्नि [ शक्ति ] चुराता है । भारतमें मानव भगवान्की उपज है ।”

\*दीध-निकायके “आटानाटिय-सुत्त”में ऐसे बहुतसे देवता मिलेंगे, जो बुद्धके समयमें जीवित थे; किन्तु आज मर गये, या निर्वासित हैं ।

†Indian Philosophy. Vol. II, Pt. 41.



मानवकी उपज भगवान् है, यह मुँहसे तब न निकलता, जब कि पूरे वेदान्ती होते। दो नावोंपर चढ़ना इसीको कहते हैं। खैर, आगे सुनिये—

“भारतीय संस्कृति तथा सभ्यताकी सफलताका रहस्य है ( उसका ) अनुदारात्मक उदारवाद ।” ❀

भारतीय सभ्यता और संस्कृतिने हिन्दुओंमेंसे एक-तिहाईको अछूत बनानेमें किस तरह सफलता पाई ? किस तरह जाति-भेदको ब्रह्माके मुखसे निकली व्यवस्थापर आधारितकर जातीय एकताको कभी बनने नहीं दिया ? किस तरह “सर्वश्रेष्ठ मानवको कपिला गाय और बानर हनुमान्” के सामने घुटने टेकनेके लिये तैयार किया ? किस तरह पाप दूर करनेके नामपर गोबर और गोमूत्र पिलाये ? किस तरह पेशाब-पाखाना तकको भक्ष्य बना सिद्ध बननेका रास्ता साफ किया ? किस तरह अपनी आधी संख्या—स्त्रियोंको मनुष्यके प्रारम्भिक अधिकारोंसे भी वंचितकर उन्हें पुरुषोंके पैरोंकी जूती बनाया ? किस तरह चौदहसौ वर्षोंतक सतीत्वके नामपर करोड़ों-करोड़ तरुण जीवनोंको आगमें जलाया ? किस तरह सत्तर वर्षके बूढ़ोंको भी कलकी बच्चीसे शादी करनेकी खुली इजाजत दे, पाँच वर्षकी विधवाको आजन्म वैधव्य पालन करना मनवाके छोड़ा ? किस तरह उच्च जातिवालोंके घर-घरमें बीसवीं सदीके बहुत पहलेसे गर्भ-स्राव तथा सन्तति-निग्रहका अद्भुत पाठ पढ़ाया ? और किस तरह यह सब कुछ देखते भी मानवको “टुकटुक-दीदम् दम् न कशीदम्”के मोहन मन्त्रमें फँसा रखा ? किस तरह जाति—बहुजातिक जाति—की जातिको ऐसे लेपसे लेपा, कि सभी बाहरी लेपके देखनेमें मगन हैं, कोई भीतरकी घनी कालिमाको देखना नहीं चाहता ? किस तरह उसने सदा-

चार दुराचारका इतना “वैज्ञानिक” विभाग किया, कि दोनोंकी सीमायें एक दूसरेसे मिलने नहीं पातीं ?

यह सब “अनुदारात्मक उदारवादसे” है और इसलिये कि “भारतमें मानव भगवान्की उपज है” ।

यह हम मानते हैं कि सर राधाकृष्णन् जैसे भक्तों और दार्शनिकोंने शताब्दियोंसे भारतकी ऐसी रेढ़ मारी है, कि वह जिन्दासे मुर्दा ज्यादा है । उनके सम-व्यवसायियोंको इस सीमा तक पश्चिममें सफलता नहीं हुई, जिससे क्रान्तियाँ बीच-बीचमें आकर सफल होती रहीं, और आजका यूरोप जहाँ दासता, तथा सगमन्तवादसे आगे पूँजीवादसे भी निकलकर समाजवादमें जा चुका है या जानेकी तैयारी कर रहा है, वहाँ भारतकी सातसौ गुड़ियाँ करोड़ों सजीव आदमियोंपर निरंकुश शासन जमाये रखनेका मंसूबा बाँध रही हैं, और हिन्दू भक्तों तथा दार्शनिक उनका नान्दी पढ़ रहे हैं । इतना होते भी यह समझना गलत होगा कि युरोप ऐसे भक्तोंसे खाली है ।

( ईश्वर )—ईश्वरके ही विचारको ले लीजिये, इतिहासकी प्रगति जिस तरह गलती करते-करते आगे बढ़ती है, उससे साफ है कि विश्वके पीछे कोई अतिमानुष चेतन शक्ति नहीं, जो कि एक खास योजनाके अनुसार विश्वको एक खास रास्तेपर ले जाती है । भले इस दूसरे विश्व-युद्धके तीसरे वर्षमें धर्माचार्य लोग धर्मके प्रोपेगंडाका मौका देखकर जब तब प्रार्थना-दिन मुक़र्रर करते रहें, किन्तु जिस तरहकी मारकाट आज मची हुई है, वह किसी भी सहृदय सर्वशक्तिमान् ईश्वरके जीवित रहते नहीं हो सकती । युद्धमें जो कुछ बीत रहा है, उसे देखते रहनेवाला ईश्वर या तो नितान्त क्रूर है, अथवा बेबस; और ऐसे ईश्वरको मानने, उसकी स्तुति करनेसे उसकी ओर मुँह भी न फेरना अच्छा है ।

वस्तुतः, जैसा कि पहिले बतला चुके हैं, विश्व विरोधिसमागमसे गुणात्मक-परिवर्तन-द्वारा पहिलेसे अनिश्चित दिशाकी ओर बढ़ता जा

रहा है। इस परिवर्तनमें मनुष्यका भी भाग है, जो कि अपनी चेतना अपनी क्रिया शक्तिका इस्तेमाल करता विश्व-विकासमें सहायक बनता, तथा कितनी ही दूर तक कारण-सामग्रीपर नियंत्रण करनेमें सफल होता, उसके अनुसार परिणामकी दिशा तथा प्रायिकताको अपने अनुकूल रखनेमें सफल होता है। मानव एक समय ईश्वरके ख्यालसे इतना प्रभावित हुआ था, कि सब-कुछ ईश्वरके हाथमें सौंप देना ही उसे ज्यादा बुद्धिमत्ताकी बात मालूम होती थी। लेकिन जब तर्क और बुद्धिकी मार पड़ी, तो भारतकी भाँति मध्यकालीन यूरोप या भारतके ये तार्किक हर एक कार्यके पीछे एक कारणको ढूँढते, और कारणोंकी बे-अन्त परंपराको माननेकी जगह वह परम-कारण—ईश्वर—पर जाकर रुक जाते थे। यदि कोई उसके पीछे भी कारणकी पूछता, तो गार्गीको जैसे याज्ञवल्क्यने ऐसे प्रश्नपर सिर गिर जानेकी धमकी देकर रोका, उस तरहकी तो नहीं, किन्तु कोई वैसा ही तार्किक बहाना जरूर ढूँढ लेते थे। लेकिन हमने पहिले बतलाया, कि कोई कार्य सिर्फ एक कारणसे नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कारण-सामग्री (कारण-समुदाय) रहता है, ऐसी अवस्थामें कार्य-कारण नियमसे किसी एक कारणपर नहीं, बल्कि कारण-सामग्री-पर पहुँच सकते हैं; फिर ईश्वरके सिद्ध होनेकी कहाँ सम्भावना है ?

करनी-कथनीके एक होनेकी बात हम पहिले कह आये हैं। बुनियामें ऐसे विद्वान् काफी मिलेंगे जो ज्ञानमें पंडित हैं, किन्तु उनकी करनी—सब नहीं तो कितने ही—का ज्ञानसे कोई संबंध नहीं। मेरे मित्र डा० का० प्र० जायसवाल बड़े ही गम्भीरप्रज्ञ थे, और इतिहासके तत्त्वदर्शी होनेसे ईश्वर-पर उनका विश्वास नहीं रह गया था; किन्तु फलित ज्योतिषपर उनका पूरा विश्वास था, और ज्योतिषियोंका उनके यहाँ बहुत मान था। बात कहनेपर वह मानते थे कि एक समाजवादी समाजमें—जहाँ कि बाल-बच्चोंकी शिक्षा या ब्याह तथा अपने या स्त्रीको बेकार-बीमार होनेकी दयनीय-दृशामें नहीं पड़ना है—फलित-ज्योतिषकी पूछ जाती रहेगी।

जायसवालजीकी एक और वह तार्किक स्वतन्त्र प्रतिभा जिसने कितनी ही इतिहासकी उलझी गुत्थियोंको सुलभाया, वही इस फलित ज्योतिषके बारेमें इतना कच्चा निकला; यह देखकर काफी सावधान रहनेकी जरूरत है। वर्तमान शताब्दीके शुरूमें मौजूदा फ्रांसका प्रसिद्ध गणितज्ञ एमिल फिलमोरियन भी हस्तरेखा आदि मिथ्याविश्वासोंका शिकार था। और साइंसके नोबेल पुरस्कार विजेता सर आलिवर लॉज पुत्र-वियोगसे इतने परेशान हुए कि प्रेत-विद्या—मृतात्माओंसे बातचीत करने—के फन्देमें गड़ाप होनेसे बाज नहीं आये। यही हालत पाली-बौद्धधर्मकी प्रसिद्ध पंडिता मिसेज रीसडेविस्की हुई,—पिछले युद्धमें उनका लड़का मारा गया, जिसपर वह प्रेत-विद्याके पीछे इतना पड़ी कि अपने विद्या-सम्बन्धी कार्यों और पुरानी पुस्तकोंके सम्पादन तकमें प्रेतोंकी सहायता लेनेसे बाज नहीं आई।

एक तरफकी पंडिताई और दूसरी तरफ चिराग तले अंधेरेके ऐसे उदाहरण सैकड़ों बतलाये जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षणका आविष्कारक सर आइजक न्यूटन ( १६४२-१७२७ ई० ) एक युग-प्रवर्तक विद्वान् था, इसमें सन्देह नहीं; गणित तथा यंत्र-शास्त्रकी पंडिताईसे वह गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तपर पहुँचा। न्यूटन अपनी विद्यासे एक और विश्वके नियमोंको सभन्नाकर मनुष्यको अपना मालिक बनाना चाहता था, वही न्यूटन दूसरी ओर बाइबलके पैगम्बर दानियलकी भविष्यद्वाणियोंपर मारी मत्था-पच्ची कर रहा था कि कब वह भविष्यद्वाणियों पूरी होमे जा रही हैं।

दुनियामें ऐसे विरोधि-समागमोंको देखकर हमें कितना सावधान रहनेकी जरूरत है, इसे आप खुद समझ सकते हैं; खासकर ऐसे आदमियोंसे जो कालेज और प्रयोगशालामें तो होश-हवास-दुरुस्तसे मालूम होते हैं, किन्तु जो शुक्र, रवि या सोमके—सोमवार काशी विश्वनाथकी पूजाका दिन है—दौरेमें जाने क्या कर बैठें, इसका ठिकाना नहीं

है। ऐसे लोग एक पैरमें तो बीसवीं सदीमें हैं, किन्तु उनका दूसरा पैर बीते युगमें अब भी अपनेको स्थिर समझता है। यह लोग नहीं समझते, कि अतीतके मूढ़ विश्वासोंका समर्थनकर वह उस समाजका समर्थन कर रहे हैं, जिसका अवशेष अब भी बहुत काफी परिमाणमें भारतमें है, और उसकी वजहसे भारतीयोंकी भारी संख्या शोषण, परतन्त्रता तथा सामाजिक पिछड़ेपनके दलदलमें फँसकर मनुष्यताकी अधिकारिणी नहीं रह गई। इंगलैंडके नई पीढ़ीके एक प्रतिभाशाली प्रोफेसरका कहना है। ❀-

“वैज्ञानिक विचारोंके ( कुछ ) नेता [ हैं ], जो कि ऐसे वैज्ञानिक साधन पैदा कर रहे हैं, जिनकी सहायतासे ऐसा समाज तैयार किया जा सकता है, जिसमें आखिरकार, मानव प्रकृतिको समझके साथ बौद्धिक तरीकेसे इस्तेमालकर [ बेहतर दुनिया बना ] सकता है—[ किन्तु वह ऐसा न कर उससे उलटे पथपर ले जानेके लिये हैं ], साइंससे पहिलेवाले युगके दर्शनके शब्दोंमें यह करनेके लिये उतावले हैं, कि सभी (जग) भूठी माया है, अ-बुद्धिही विजयी है, प्रकृतिका मूलाधार अ-वास्तविकता है। साइंस जगत्में उनका जो महत्पूर्ण स्थान है, उसकी सहायतासे हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि जगत् एक गणितात्मक ईश्वरके मनमें अ-बुद्धि-तत्व [माया]की प्रतीक मात्र है। हमलोगोंमेंसे जो सामाजिक [कर्त्तव्यकी] चेतना रखनेवाले लोग हैं, और जो मानवकी साइंस-संबंधी सफलताओंके द्वारा दरिद्रताकी वास्तविक तथा साकार यातनाओं, बेकारी, तथा विश्व-व्यापी युद्धकी तैयारीको दूर करनेकी आशा रखते हैं, उनके लिये [बूढ़े साइंस-वेत्ताओंकी यह हकतें] असह्य थीं; और इस ललकारकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।”

सर राधाकृष्णन् जैसे लोग भी भारतमें शोषणके पोषणके लिये वही काम कर रहे हैं, जो कि इंगलैंडमें वहाँके शोषक प्रभुवर्गके स्वार्थों-

\*A Philosophy for A Modern Man ( by H. Levy. Gollancz, London, 1938 ) p. 165.

की रत्नामें सर आर्थर एडिंग्टन जैसे वैज्ञानिकोंका रहा है, और पूर्व-पश्चिम दोनोंके इस तरहके लोगोंके सामने यूनानी कवि सोफोकल ( ई०पू० पाँचवाँ सदी )के ये वाक्य सदा रहने चाहिये—“सारा जगत् ध्वस्त हो जायेगा, यदि धर्म उठ गया; क्योंकि आचार और राज्य-संबंधी व्यवस्थायें देवताओंकी इच्छापर निर्भर है ।”

( ५ ) जीव अजर-अमर—जीव शरीरसे अलग एक अजर-अमर तत्त्व है, इस कल्पनाको भारतमें बहुतसे लोग स्वयंसिद्ध समझते हैं । आरण्यक पुरुष तथा बौद्धिक विकासमें पिछड़ी जातियाँ जीवको शरीरसे भिन्न नहीं समझतीं । तिब्बतके खानाबदोशों तथा मध्यप्रदेशके जंगलवासियोंके फोटो लेनेका जिनको तजर्बा है, वह बतलायेंगे कि फोटो ‘देने’के लिये ये लोग राजी नहीं होते । उनका ख्याल है, फोटो जो बिल्कुल शरीर जैसा होता है, उसमें अपने शरीर ( आत्मा )का कुछ भाग जरूर चला जाता है, जिससे आयु कम हो जाती है । जाँवके अजर-अमर होनेका ख्याल सबसे पहिले प्राचीन मिस्रमें दिखलाई पड़ता है, जिसका यह मतलब नहीं कि और जगह दूसरी जातियोंमें यह ख्याल मिस्र हीसे गया ।—वैसी परिस्थितियोंमें दूसरी जगह भी वह ख्याल पैदा हो सकता है । मिस्रमें भी राजाओंसे इसका आरम्भ मालूम होता है । फर्वा ( मिस्री राजा )के शवोंको सुरक्षित रखनेके लिये जितना आयोजन मिस्रमें किया गया, उतना कहीं भी नहीं देखा जाता । मृत शरीरको सड़नेसे बचानेके लिये मिस्रियोंने ऐसे मसाले ढूँढ़ निकाले, जिनकी वजहसे चार-चार हजार वर्षकी सुरक्षित मम्मियाँ (शव) वहाँसे मिली हैं । शवोंके रखनेके लिये उन्होंने चौपहलू शृङ्गवाले वे विशाल पाषाण पिरामिड बनाये जो आज भी दुनियाके आश्चर्यों में गिने जाते हैं । इन पिरामिडोंके बनानेके लिये दशकी सम्पत्ति या श्रमका सबसे बड़ा भाग खर्च किया जाता था । इसके लिये दास-दासियों तथा साधारण प्रजाको किस तरहका जीवन बिताना पड़ता रहा होगा,

इसे आप खुद अनुमान कर सकते हैं। पुराने मिस्री अभी आत्माको पूरी तौरपर शरीरसे अलग नहीं कर पाये थे, इसलिये उन्हें जहाँ का (जीव), उसकी छाया तथा नामको अजर-अमर करनेकी फिक्र थी, वहाँ शरीरको भी सुरक्षित रखना पड़ता था।

प्राचीन यूरोपीय तथा हिन्दुओंको आत्माके शरीरसे अलग होनेपर ज्यादा विश्वास हुआ, इसलिये उन्होंने शरीरको बेकार समझ उसे जला डालनेकी प्रथा जारी की; किन्तु बहुत पुराने जमानेमें इसका आरम्भ भूनकर खानेमें भी हो सकता है। बिना मसालेवाले शवको कब्रमें दबानेवाली जातियाँ इस विचारसे प्रेरित हुईं, कि कयामतके दिन सड़-गल गये मुर्दे भी जिन्दा हो उठेंगे।

अफलातूँ आत्माके तीन भाग मानता था—( १ ) बौद्धिक भाग जिसका प्राकट्य बुद्धि है, ( २ ) आध्यात्मिक भाग, जिसका प्राकट्य बहादुरी, हिम्मत आदि है, जिनसे बुद्धिका संबंध नहीं; ( ३ ) औदारिक या स्थूल भाग—लोभ, द्वेष आदिका संबंध इस भागसे है। अफलातूँने इन तीनों आत्म-भागोंकी क्रमशः मानव, सिंह तथा बहुशीर्ष राक्षससे उपमा दी हैं।

अफलातूँके समय (४२७-३४७ ई०पू०)के आसपास ही माण्डूक्य-उपनिषद् लिखते वक्त उसके कर्त्ताने भी जीवके तीन स्वरूप माने—( १ ) जागृत अवस्थामें स्थूल आहार करनेवाला वैश्वानर; ( २ ) स्वप्न अवस्थामें तैजस, और ( ३ ) सुषुप्त ( गाढ़ निद्रा )-अवस्थामें आनन्द-भोजी प्राज्ञ।

फ्राँडने भी अफलातूँसे प्रभावित हो आत्माके तीन रूप बतलाये हैं—( १ ) इड् अबौद्धिक बेहोशता आत्मा, जिसका सम्बन्ध शारीरिक तृष्णा या भोग-लिप्सासे है; ( २ ) इगो (अहं) या आत्माका पूर्णतया सचेतन अंश, जो कि बहुत कुछ बुद्धि-सुक्त है; यही शरीर और बाहरी

जगत्से सम्बन्ध कसता है; ( ३ ) परम-इगो ( परम-अहंकार ), जो कि बहुत कुछ निष् (-क्रिय ) चेतन अन्तस्तम स्तर है, जिसके भीतर युगोकी अनुभूति और संस्कार निहित हैं ।

इनके अतिरिक्त और भी कितने ही आत्मा-सम्बन्धी मन हैं, जिनमें कुछ ( हिन्दू ) आत्माको अनादि-अनन्त मानते हैं; कुछ ( इस्लाम तथा दूसरे सामीय धर्म ) सादि अनन्त मानते हैं; कितने ही प्रत्येक आत्मा ( जीव )को न्याय-दर्शनकी भाँति सर्वव्यापी मानते हैं; कितने ही वादरायण, रामानुज और दयानन्दकी भाँति अणु एकदेशीय, कितने ही जैनोंकी भाँति हाथीके शरीरमें हाथीके बराबरका आत्मा और चींटीके शरीरमें चींटीके बराबर बन जानेवाला आत्मा मानते हैं । कुछ बौद्ध जैसे दार्शनिक आत्माको नहीं मानते तथा अपनेको अनात्मवादी घोषित करते हैं, तो भी एक तरहके जन्मान्तर या परलोकको स्वीकार करते हैं ।

हम अपने दूसरे ग्रन्थमें बतला चुके हैं, कि किस तरह भारतके सामन्त शासकोंने दुनियामें विद्यमान दरिद्रता, विषमता, शोषण-शोषितके भेद तथा अपने प्रभुत्वको कायम रखनेके लिये वैदिक परलोकको पर्याप्त न समझ शोषित जनताके लिये पुनर्जन्मके फन्देको तैयार किया, और उपनिषद्के ऋषियों तथा बादके धर्माचार्योंने उसे मजबूत किया । आज तो कितनी ही जगहोंपर पूर्वजन्मकी याद रखनेवाले बालकोंकी जबरदस्त प्रदर्शनियाँ भी की गई हैं—और क्यों न हो, पूर्व जन्मकी कमाईके नामसे मुफ्तकी मिली सम्पत्ति और प्रभुताके औचित्यको सिद्ध करनेका इतना बड़ा हथियार कैसे छोड़ा जा सकता है ? कितनों हीने तो इसे आमदनीका अच्छा जरिया समझा है । इनके अतिरिक्त कभी-कभी ऐसी घटनायें भी हो सकती हैं, जिनके वैज्ञानिक विश्लेषण न होनेसे भी

ॐ“बोलासे गंगा” प्रवाहण कहानी



कुछका अर्थ लगाया जाने लगता है। मेरे एक दोस्तकी स्त्री अपनी एक लड़कीके बारेमें कह रही थीं, कि वह छुटपनमें अपनेसे कुछ पहले मर गये भाईकी बातें बतलाती थी। उनके घरमें लड़कियाँ कई थीं; किन्तु लड़का एक ही हुआ था, जो कि कुछ वर्षोंका ही होकर मर गया। मैंने पूछा—बच्चीके गर्भमें रहते वक्त आपको क्या वह बच्चा याद आता था। उन्होंने कहा—याद ? मेरी तो बड़ी साध ही थी कि बेटा पैदा हो। यह नई समस्या है—गर्भावस्था, गर्भाधानकी अवस्थामें क्रोमोसोममें अवस्थित जेनस् (जनक-बीज) में क्या कोई इस तरहका संस्कार पैदा किया जा सकता है ? आनुवंशिकताके वाहक यही जेनस् हैं। अभी इनके सम्बन्धकी गवेषणा पिछले बीस सालोंसे होने लगी है। वैज्ञानिकोंको इन अन्वेषणोंमें कितनी कठिनाई उठानी पड़ रही है, मानव वीर्यकीट और रज-अंडके नाभि-कणमें अवस्थित क्रोमोसोम तथा जेनस् (जनक-बीज) के इस परिमाणसे जान सकते हैं—

	व्यास	भार
क्रोमोसोम	१/६००० इंच	...
जनक-बीज	...	४ परमाणु
परमाणु (साधारण)	१/१० करोड़ इंच	१/५ लाख-लाख अरब तोला

यह भी ख्याल रखनेकी बात है, कि पूर्वजन्मकी स्मृति रखनेवाले लड़के सिर्फ उन्हीं घरोंमें पैदा होते “पाये जाते” हैं, जिनके यहाँ पुनर्जन्मका विश्वास बहुत जबरदस्त है।

पुनर्जन्मके बारेमें तो बहुतसे मजहब सहमत नहीं हैं, किन्तु नित्य आत्माकी सत्ताको अधिकांश ही स्वीकार करते हैं; हाँ आत्माके लिये सबकी परिभाषा एक नहीं है। यह एकता सिर्फ यही बतलाती है, कि सबका आधार और उद्देश्य एक हैं। और वह है ठोस साकार दनिया

और उसके जीवन तथा सामाजिक अन्यायसे लोगोंके ध्यानको हटाना, एवं आत्मा और शरीरके उदाहरणसे वर्गभेदको समाजमें कायम रखना । इसलिये साइंस-वेत्ता हैल्डन्के शब्दोंमें हमें सावधान रहना चाहिये ।❀—

“जिनको आत्माकी अमरतापर विश्वास है, वह भी स्वीकार करेंगे; कि इस सिद्धांतके मरने और जीते रहनेपर अत्यन्त शक्तिशाली (वर्ग-) स्वार्थोंका मरना जीना निर्भर है, और इस सिद्धांतका विश्वास ज्यादातर भावुकता तथा सामाजिक दबावका परिणाम है ।”

## ख. आचार-विचार

वैज्ञानिक भौतिकवादियोंपर “धर्मात्माओं”की ओरसे आक्षेप होता है कि ये लोग आचारके शत्रु हैं, इसके उत्तरमें लेनिन्ने लिखा है—†

“आमतौरसे पूँजीपति कहते हैं, कि कम्युनिस्त सभी ( तरहके ) सदाचारोंको नहीं मानते । यह असली बातको घचपचमें डाल देनेका उनका तरीका है, जिससे वह मजदूरों तथा किसानोंकी आँखोंमें धूल डालना चाहते हैं । किस अर्थमें हम आचार-नियमसे इन्कार करते हैं ? इसी अर्थमें कि ये आचार-नियम भगवान्के विधान हैं ।”

### १. आचार परिवर्त्तन-शील

वैज्ञानिक भौतिकवादके दार्शनिक विचारोंसे अनुप्राणित समाजवादी आन्दोलन, आराम-कुर्सीपर बैठकर लेकचर भाड़नेवाले वाक्शूर राजनीतिशोंकी राजनीति नहीं है; इसमें पड़नेवालोंको आगसे खेलना होता है; फिर वहाँ आचार-हीन पुरुषकी टाँग कैसे ठहर सकती है ? वर्ग-संघर्ष

\*The Marxist Philosophy and the Sciences, p. 130

†Lenin : On Religion

एक ऐसी भट्टी है, जिसमें वह आदमी टिक नहीं सकता, जिसमें जबर्दस्त नैतिक बल नहीं है। लाखोंकी तादादमें जो कमनिस्त हँसते-हँसते स्पेन, फ्रांस, और रूसमें फासिस्तोंकी गोलियोंके शिकार हुए; उन्हें आचारहीन कहनेवाले कौन हैं, जरा उनके चेहरेको देखिये तो। निर्लज्जताकी आखिर हद्द भी कोई है! ये हिजड़े, कायर, लंपट, पतित, सब तरहकी ईमानदारीसे रहित, नीच, स्वार्थी, मानवताके कलङ्क उन कमनिस्तोंपर हमला करने चले हैं, जो जगत्में स्वार्थ और लोभकी जगह मानवताकी बेलको अपने खूनसे सींचकर लगा रहे हैं; जिनकी कुर्बानियों और बहादुरीके कारनामोंसे इतिहासके सबसे सुन्दर पृष्ठ लिखे जा रहे हैं।

कमनिस्त सचमुच ऐसे सदाचारको बिल्कुल माननेके लिए तैयार नहीं, जिसकी मंशा कुछ व्यक्तियोंकी स्वार्थ-सिद्धि है। उनके सदाचारकी नींव किसी ईश्वरीय विधान या अल्हामपर नहीं, बल्कि बुद्धके शब्दोंमें “बहु-जनहिताय बहुजनसुखाय” है। समाजके स्वार्थको वह व्यक्तिके स्वार्थके ऊपर मानते हैं। वह चाहते हैं, व्यक्ति खुशीसे अपने तात्कालिक सुख और जीवन तकको भी वर्ग-संघर्ष, क्रान्ति तथा नये संसारके निर्माणके लिये त्याग करे। समाजवादी सदाचार इसी बेहतर दुनियाकी स्थापनाके लिये विरोधियोंके मुकाबिलेमें किये जानेवाले वर्ग-संघर्षके समय प्रकट होता है, और उसकी पूर्णता समाजवादी समाजकी स्थापना होनेपर होती है!

## २. प्राचीन भारतमें यौन सदाचार

धर्मात्मा लोग जिस वक्त सदाचारकी बात करते हैं, उस वक्त उनके ख्यालमें रहता है, कि सदाचार एक ऐसा अचल-अटल विधान है, जो कि सभी देश-कालमें एकसा बना रहता है; किन्तु यह धारणा बिल्कुल गलत है। उत्तरी भारतमें मामा-फूफीकी लड़की सगी बहिनके समान मानी जाती हैं, जब कि उड़ीसा और गुजरातसे दक्खिन, उन्हें ब्याहनेका

हक सबसे पहले ममेरे फुफेरे-भाईको होता है । और प्राचीन भारतके सदाचारको चाहते हैं, तो पुरानी पुस्तकोंको उलटकर देखिये; मैंने इनके बारेमें अन्यत्रॐ काफी लिखा है, वहाँ उससे कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करता हूँ—

“नदी पार होते-होते पराशरका सत्यवती ( मल्लाहपुत्री )के साथ समागम प्रसिद्ध है”† । यद्यपि यहाँ ग्रंथकारने पराशरकी दिव्यशक्तिके कुहरा पैदाकर लजा ढाँकनेकी कोशिश की है; किन्तु उत्तथ्यपुत्रः दीर्घतमा—ऋग्वेदके कितने ही सूक्तोंके कर्त्ता तथा पीछे, गोतम नामसे प्रसिद्ध गौतम-भोत्रियोंके प्रथम पूर्वज—ने लोगोंके सामने ही स्त्री-समागम किया ।

“उस पुराने युगमें ऋतुकालके अवसरपर स्त्री किसी पुरुषसे रतिकी भिन्ना माँग सकती थी । शर्मिष्ठाने इसी तरह ययातिसे रति-भिन्ना माँगी§ थी । यही नहीं, ऐसी भिन्नाका देना न स्वीकार करनेपर गर्भपातके समान पाप होता है, यह भी वहीं§§ बतलाया गया है । ...उलूपीने भी अर्जुनसे रति-भिन्ना माँगते हुए कहा था कि स्त्रीकी प्रार्थनापर एक रात-का समागम अधर्म नहीं‡। उत्तंकने ऋतुशान्तिके लिये अपनी गुरु-स्त्रीके साथ गमन किया, और उसे बुरा नहीं समझा गया‡‡। चन्द्रमाने अपने गुरु बृहस्पतिकी भार्या ताराके साथ रति की, जिससे बुध पुत्रहुआ । गौतमकी पत्नी अहल्याका इन्द्रके साथ संबंध प्रसिद्ध है; किन्तु गौतमने अपनी पत्नीको सदाके लिये त्याज्य ( तिलाकके योग्य ) नहीं बनाया । ..

“महाभारत कालमें विवाह-बंधन कितना शिथिल था, इसके कितने ही उदाहरण तो कुमारी कन्याओंके प्रतिष्ठित पुत्र ( कानीन ) हैं । पांडवोंकी माँ कुन्ती जब कुमारी थी, तभी उससे कर्ण पैदा हुआ था ।

ॐ“मानव समाज” ८८-९६ । †महाभारत, आदिपर्व ६३ । ‡वहीं १० §वहीं ८२ । §§वहीं ६३ । ‡‡अनुशासन पर्व १०२ । ‡‡‡वहीं ३ ।

कुमारी गंगासे शन्तनुने भीष्मको पैदा किया था। पराशरने कुमारी सत्यवती ( मल्लाह-पुत्री )से व्यासको पैदा किया था, पीछे यही सत्यवती शन्तनुकी रानी बनी। कुन्तीकी सौत माद्रीकी जन्मभूमि मद्रदेश (वर्तमान स्यालकोटके आसपासके जिले)के उन्मुक्त स्त्री-पुरुष संबंधकी कर्णने बड़ी कड़ी आलोचना की है। मद्रदेशमें पिता, पुत्र, माता, सास, ससुर, मामा, जमाई, बेटी, भाई, पाहुना, दास, दासीका यौन-सम्मिश्रण बहुत ज्यादा था। वहाँकी स्त्रियाँ स्वेच्छा-पूर्वक पुरुष-सहवास करतीं। अपरिचितके साथ भी प्रेमके गीत गातां। गंधारियोंकी भोंति माद्रियों भी शराब पीतीं, नाचतीं। वहाँ वैवाहिक संबंध नियत न था, स्त्रियाँ मनमाना पति करतीं। एक स्त्रीके कई पतिका उदाहरण प्रातःस्मरणीय पंच-कन्याश्रोंमें एक द्रौपदी हमारे सामने मौजूद है।

“बहिन, बेटी-पोतीके साथके ब्याहके भी कितने ही उदाहरण हमें इन पुराने ग्रंथोंमें मिलते हैं। इक्ष्वाकुके निर्वासित कुमारोंने अपनी बहिनोंसे ब्याहकर शाक्यवंशकी नांव डाली\*—इस तरहका ब्याह स्यामके राजवंशमें अब भी मौजूद है। दशरथ जातकके अनुसार सीता रामकी बहिन और भार्या दोनों थी। ब्रह्माकी अपनी पुत्री सरस्वतीपर आसक्ति पुराण-प्रसिद्ध है। ब्रह्माके पुत्र दक्षकी कन्याने अपने दादा ( ब्रह्मा )से ब्याह किया था। बिना ब्याहके स्त्री-पुरुषोंका जिस तरहका उन्मुक्त संबंध था, उसे देखते कोई कह नहीं सकता कि यौन सदाचार भारतमें सब देश-कालमें एक-सा चला आया है। जो बात भारतके बारेमें है, वही दुनियाके दूसरे मुल्कोंपर भी लागू है।

“यौन ही नहीं सभी प्रकारके सदाचार बराबर बदलते रहे हैं। एन्गोल्सने इसी बातकी ओर ध्यान दिलाते हुए लिखा है—

---

\*बुद्धचर्या

“यदि सच-भूठके संबंधमें हमने बहुत तरक्की नहीं की, तो भलाई-बुराईके बारेमें तो हम और भी पीछे रहे। भलाई-बुराईका खयाल एक जातिसे दूसरी जाति, एक कालसे दूसरे कालमें इतना बदला है, कि अक्सर वह एक-दूसरेसे बिल्कुल उलटा है।”

अथेन्सका न्याय वही नहीं था, जो कि आजके इंग्लैंड या भारतका है। याज्ञवल्क्यकी भौति सुक्रातके श्रोता भी दासताको अन्याययुक्त नहीं समझते थे। बीसवीं सदीके भारतमें कितनी ही बातें न्यायानुमोदित हैं, जिन्हें २२वीं सदीका भारत अन्याय नहीं समझेगा, और आज भी जिसे सोवियत-भूमिमें अन्याय समझा जाता है।

### ३. हमारा और पूँजीवादी सदाचार

इसलिये वैज्ञानिक भौतिकवादी “किसी तरहके सदाचार-सम्बन्धी मतवादको नित्य, अन्तिम तथा अटल माननेसे साफ इन्कार करते हैं।” खासकर, जब वह देखते हैं कि हरएक सदाचारके पीछे शोषक-वर्गका स्वार्थ छिपा हुआ है।

वैज्ञानिक भौतिकवाद किसी अटल नित्य सदाचारके माननेसे इन्कार करता है, उसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी प्रकारके सदाचारको नहीं मानता। आज भी वह क्रान्तिकारियोंके सदाचारोंको मान रहा है, जिनके बिना किसी उच्च आदर्शको पूर्ण नहीं किया जा सकता। वह जिन शोषक-शोषित वर्गोंसे हीन समाजको कायम करनेमें लगा हुआ है, उसमें बैयक्तिक सम्पत्तिकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, जिसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि वेश्यावृत्ति—दुनियाके सबसे पुराने धर्मानुमोदित व्यवसाय—का नाम तक सुननेमें नहीं आयेगा। साथ ही जिसे हम आजका परिवार मानते हैं, उसके लिये भी गुंजाइश नहीं रहेगी। साम्यवादी परिवार ग्राम और देशव्यापी होगा, जिसमें हमारापन बहुत विस्तृत क्षेत्रमें लागू होगा। स्त्री आज भार्या = खाना-कपड़ा देकर पोसी जाने-

वाली समझी जाती है; साम्यवादी समाजमें कोई स्त्री किसी पुरुषकी— अपने पतिकी भी—कमाई खानेवाली नहीं मिलेगी। दोनों आर्थिक तौरसे भी पूर्ण समान होंगे; इसलिये आज परिवारके नामपर हम जो कुछ देख रहे हैं, उसमें कितने अंशका पता नहीं रहेगा, इसका आप खुद अनुमान कर सकते हैं।

वैज्ञानिक भौतिकवादी वैयक्तिक सम्पत्तिको नहीं रखना चाहते; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह चोरीको, वैयक्तिक सम्पत्ति उठानेका साधन मानते हैं। “ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्”की भावना तो उनमें ही हो सकती है, जो कि वैयक्तिक सम्पत्तिको कायम रखना चाहते हैं।

और सत्य-भाषण ! वैयक्तिक सम्पत्तिने चोरीको पैदा किया—बुद्धने अपने एक उपदेशमेंॐ बड़ी सुन्दर रीतिसे बतलाया है कि कैसे वैयक्तिक सम्पत्ति आई, और फिर वही मार-काटका कारण बनी। इस बातमें बुद्ध गांधीसे बहुत आगे बढ़े हुए थे, जो कि राजकोटके लाख तजबेंके बाद भी संरक्षताके सिद्धान्तको छोड़नेके लिये तैयार नहीं हुये। उसी वैयक्तिक सम्पत्तिने आदमीको भूठ बोलनेके लिये मजबूर किया। सभ्यतामें ही आदमी जितने ज्यादा दीक्षित होते जाते हैं, उतने ही वह भूठ-फरेबमें बढ़ते जाते हैं, इसे साबित करनेकी जरूरत नहीं। जंगली जातियों तथा सीधे-सादे पहाड़ी लोगोंमें आप भूठ बहुत कम पायेंगे। सभ्यतासे हमारा मतलब वैयक्तिक सम्पत्तिके भावसे भरी हुई सभ्यतासे है, जिससे ऊपर उठकर हम ‘मानवता’की अवस्थामें पहुँचना चाहते हैं।

फिर पूँजीवादी आचारोंकी सूची पुराने आचारों तक ही समाप्त नहीं हो जाती है। भोजमें अमुक रंग-ढंगकी पोशाक पहनकर जाना चाहिये, नाचमें अमुक तरहकी। दरबारमें चूड़ीदार पायजामा होना चाहिये या

---

\*देखो “मानव-समाज” पृष्ठ ५५-५६ तथा “दीघ-निकाय” पृष्ठ २४२-४४।

फैले पाँवका, शेरवान्नी होनी चाहिये या पारसी कोट—यह सभी वर्गोंमें पूँजीवादी वर्गद्वारा समाजपर लागू किये आचार हैं। इन आचारोंका यदि सम्बन्ध सिर्फ काट-छाँट तक ही रहता, तो कोई वैसी बात नहीं थी; किन्तु इसका मतलब है, अपने वर्गको शोषितोंसे अलगकर वर्ग-संगठनको मजबूत करना। वैसे पूँजीवादी दोष देते हैं साम्यवादियोंपर, कि वह वर्गभेद फैलाते हैं; लेकिन आप समाजके भीतर पूँजीवादियों—सामन्तोंको भी ले लीजिये—की रहन-सहन तथा बर्तावको देखें तो पता लगेगा कि अपने खर्चाले खान-पान रहन-सहनसे उन्होंने अपनेको ऐसा बना लिया है कि साधारण मजदूर-किसान उनसे मिल ही नहीं सकते। वर्ग-भेद जिनका बनाया और मजबूत किया हुआ है, वही बूटकी ठोकरी भी लगा रहे हैं। साम्यवादियोंने इन ठोकरीके लगानेका परामर्श पूँजीपतियों या सामन्तोंको कभी नहीं दिया। यदि उनका कोई अपराध है, तो यही कि जो बूट तुम्हें ठोकरीं लगाते हैं, उन्हें चाटना छोड़ ही न दो, बल्कि “जैसा देवता वैसा अच्छल”की नीति स्वीकार करो। इसका अर्थ लगाया जाता है वर्ग-विद्वेष फैलाना। हिंसा और पशुबलके बलपर शताब्दियोंसे जिन लोगोंने मनुष्यके शोषण और गुलामीको कायम रखा है, जरा भी सँस लेनेकी कोशिशको, जो अपने उसी बलसे दबाना चाहते हैं; उससे बचनेके लिये जो कुछ भी किया जाय, उसे वह हिंसाका नाम देते हैं—इसे कहते हैं—“उलटा जोर कोतवालको दंडें।”

#### ४. समाज-हित सदाचारकी कसौटी

वैज्ञानिक भौतिकवाद जगत्को परिवर्तनशील मानता है; इसीलिये वह ऐसे आचार-विचारका पक्षपाती है, जो ऐसे जगत्की तात्कालिक अवस्थाके अनुकूल हो। जिस तरह “बहुजनहिताय” आचारको पूँजीपतियों—सामन्तोंके आचारसे हीन नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कहा जायगा, वैसे ही देश-कालानुसार परिवर्तनशील आचार भी श्रेष्ठ हैं। “बहुजनहित”-



के पुराने शब्दको “समाजहित”से बदल दीजिये, और फिर इसी समाज-हितको आचारकी कसौटी बना दीजिये । घस, इसी कसौटीपर जो आचार ठीक उतरता है, उसे ही सदाचार-आचार कहना चाहिये ।

( समाज )—समाजको न तो ईश्वरने उत्पन्न किया, और नहीं मनुष्योंने मिलकर तय कर लिया कि आओ, हम अपनी स्वतंत्रताका इतना भाग सर्व-हितके लिये छोड़कर व्यक्तिकी जगह समष्टिमें रहने लगे । वास्तविक बात यह है कि आदिम मानवको प्रकृतिने मजबूर किया कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो सामाजिक जीवन स्वीकार करे । मानव प्रकृतिके चैलेंजको समाज-बद्ध ही होकर स्वीकार कर सकता था । इस तरह भीतरसे नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितिने वैयक्तिक मानवको समाजबद्ध बननेके लिये मजबूर किया । वैयक्तिक स्वतन्त्रताके कुछ हिस्सेको छोड़ देना. यह भी अभावात्मक तथा निराकार-सी बात है; मानवने समाजको सामूहिक श्रमपर स्थापित किया । वह दासों और स्वामियोंका युग नहीं था, बल्कि स्वतन्त्र जांगल-मानवका युग था । अभी तक जो हरएक आदमी अलग-अलग अपना काम करता था, अब उसने श्रमको सामाजिक—सामूहिक या सम्मिलित—बनाया । भाषासे लेकर आगेकी सारी उन्नति उसके इसी समाजबद्ध होने—सम्मिलित श्रम करने—का परिणाम था । सामाजिक श्रमने जहाँ अपने उत्पादनको अधिक करके दिखाया, वहाँ अब वह प्रकृति तथा दूसरे ( वन्य ) शत्रुओंसे मुकाबिला करनेमें भी अधिक सक्षम हो सका; और तबसे पशु-मानव, मानव-मानव हो गया । मानवके आगेके विकासके बारेमें हम अन्यत्र लिख चुके हैं, इसलिये उसे यहाँ दुहरानेकी जरूरत नहीं ।

मानव पहिले प्रकृतिसे सीधे मुकाबिला करनेके लिये मजबूर था; किन्तु अब उसे मानव-समाजका भारी सहारा प्राप्त हुआ । पहिले

मानवके लिये प्रकृति रहस्यमयी और बिल्कुल अज्ञात थी; किन्तु समाज-ने उसकी रहस्यमयताको कम करना शुरू किया, और मानवका पैर दृढ़ताके साथ धरतीपर पड़ने लगा। यह स्मरण रखना चाहिए कि समाज सिर्फ अपने भीतरके व्यक्तियोंका योग मात्र नहीं है। वह मनुष्योंका सक्रिय आपसी संबंध तथा प्रकृतिके साथ उसकी सक्रिय, सामूहिक, प्रयोगात्मक क्रिया-प्रतिक्रिया है। इस प्रकार समाज सिर्फ मानव + मानव + मानव नहीं, बल्कि मानव × मानव × मानव हैं। मनुष्योंके साधारण जोड़के अतिरिक्त वहाँ उनकी मानसिक तथा व्यावहारिक क्रिया-प्रतिक्रियामें एवं परिमाणके समागमसे हुआ गुणात्मक परिवर्तन समाजकी कीमतको कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। हम समाजके मूल्यको इतने हीसे नहीं आँक सकते; क्योंकि आजका मानव स्वयं समाजकी उपज, तैयार किया माल है। बचपनसे ही उसे समाजकी एक बहुत बड़ी देन-भाषाका सहारा नहीं मिलता है; बल्कि उसके विचारोंके निर्माणमें भी समाजका जबर्दस्त हाथ है—समाजकी लोरियोंसे लेकर कानून, आचार, ज्ञान-प्रचार आदि सभी मिलकर आजके मानवका निर्माण करते हैं। वस्तुतः कहना चाहिए, आजका मानव उतना प्रकृतिका पुत्र नहीं है, जितना कि समाजका।

१६२० ई०में मेदिनीपुरके जंगलमें पादरी जे. ए. एल. सिंहने भेड़ियेकी माँदसे दो लड़कियोंको निकाला; जिनकी रक्षामें उनकी पोषिका माँ मादा-भेड़ियेने अपनी जान गँवाई। पादरी सिंहने इन बच्चियोंका नाम कमला ( ८ वर्ष ) और अमला रखा। छोटी अमला एक साल बाद मर गई; किन्तु बड़ी ६ वर्ष तक जिन्दा रह, १७ वर्षकी हो १६२६ ई०में मरी। पादरी सिंहने कमलाके भेड़ियासे आदमी बननेकी प्रगति-को अपनी डायरीमें दर्ज किया है।† जिससे पता लगता है कि कमला

*SDialectics ( by T. A. Jackson), pp. 123-4*

† "Wolf Child and Human Child" ( Methune, London) (देखिये Statesman, Calcutta 23-3-1942,p.4)

मनुष्य समाजमें आनेके दो वर्ष बाद बूसेकी सहायताके साथ खड़ी होने लगी, तीन वर्ष बाद बिना सहायताके खुद खड़ी होने लगी। चार वर्ष रहनेके बाद उज्जने अपने हाथसे गिलास लेकर पानी पिया। छै वर्षके रहनेके बाद उसने आदमीकी भाषाके ३० शब्द सीखे; इसी समय उसे समझमें आने लग्य, कि बिना तन ढाँके बाहर जाना लजाकी बात है, प्रारम्भिक वर्षोंमें कमला कपड़ा पहिनेपर फाड़ डालती थी। सत्रह वर्षकी उम्रमें पहुँचनेपर कमलाका भेड़ियापन और मानवताका द्वन्द्व स्वतन्त्र हुआ, और वह एक भोली-भाली प्यारी बच्चीकी तरह रहने लगी।

भेड़ियाकी “बच्ची” कमलाका सिर्फ नौ वर्षका जीवन हमारे सामने गुजरा, और उसे भी विशेषज्ञोंकी देख-रेखमें विकसित नहीं होने दिया गया, नहीं तो और भी कितनी ही बातें मालूम होतीं; किन्तु कमलाने यह साबित कर दिया कि जिसे हम मानवता कहते हैं, वह व्यक्तिकी नहीं समाजकी देन है। समाजसे उसे सीखनेकी व्यक्तिमें शक्ति है, जो कि बचपनमें ज्यादा तेज होती है, और उमरके साथ कम होती जाती है, कमलाने छै वर्षमें ३० शब्द सीखे थे, यह उसीको प्रकट करता है और खड़े होनेमें चार वर्ष लगना यह भी बतलाता है, कि आदमीके शरीरके बिकासमें भी समाजका जन्तवस्त हाथ है। धर्म, ईश्वर-विश्वास, अन्ध-विचार-स्वभाविक हैं, इस बातकी कमला एक दम झूठ साबित करती है।

वैज्ञानिक भौतिकवादी भलाई-बुराई, सदाचार-दुराचारमें मानवताकी साकार प्रतीक इसी समाज-हितकी कलौटी मानते हैं, और ईश्वर, धर्म जैसी धोखेकी टट्टियोंसे खबरदार रहनेके लिये सारी शोषित, और कमकर जनताको आगाह करते हैं। चूँकि समाज परिवर्तनशील है, इसलिये सदाचार भी यदि उससे पिछड़ना नहीं चाहता, तो उसे भी परिवर्तनशील होना चाहिये।

## ग. दृष्टिके विकार

दृष्टि या नज़रपर यदि कोई पर्दा पड़ जाय, अथवा उसे प्रकाशके अभाव—अंधकार—की सहायता मिले, तो वह बेकार हो जाती है, किंतु यदि उसे उलटे प्रकाश या चश्मेकी मदद हो तो वह देखेगी तो सही, मगर वास्तविककी जगह कुछ और ही देखेगी—सफेद रंग उसे पीला मालूम होगा और गोल चीज लम्बी। इसलिये सहायता लेते वक्त हमें ख्याल रखना होता है कि हम विकार पैदा करनेवाले सहायकोंके फेरमें न पड़ जायँ। संस्कृतके शब्द दर्शन और दृष्टि दोनों एकार्यवाची हैं, इसलिये दृष्टिके विकारसे हमारा अभिप्राय दर्शनके विकारसे है, जिसके कारण कितने अनर्थ किये जा सकते हैं; इसके कई उदाहरण इसको अब तक मिल चुके हैं। यद्यपि दर्शनोंका दिग्दर्शन कराते वक्त हम दर्शनोंके विकारोंका संकेत अन्यत्र\* काफी कर चुके हैं, इसलिये उन सबको यहाँ दुहराया नहीं जा सकता, तो भी दर्शन-विकारों—दर्शन-मलों—पर हम थोड़ा और लिखना चाहते हैं, ताकि दर्शन-मल-प्रक्षालनमें पाठकोंकी सहायता मिले—सिर्फ यहाँ आये दर्शन-मलोंके बारेमें ही नहीं, बल्कि इनके उदाहरणसे सभी प्राचीन-नवीन; पौरस्त्य-पाश्चात्य दर्शनोंके बारेमें भी। यह ध्यानमें रखना होगा कि “दृष्टि-संयोजन”† (=दृष्टिका बंधन) सबसे जबरदस्त बंधन है, जब तक द्वंद्ववादी दर्शनकी सहायतासे उसे मुक्त नहीं कर लेते, तब तक अपनी “दर्शन-शक्ति”को आप ठीक तौरसे हस्तेमाल नहीं कर सकते।

### १. उदयनका ईश्वरवाद

धर्मकी कल्पना वर्ग-स्वार्थको दृढ़ करनेके लिये हुई और समयके साथ धर्मके बंधनको शिथिल न होने देने, अथवा कवि सोफोकलके शब्दोंमें—“सासा (प्रभु—सोफोक.) जगत् ध्वस्त हो जगत्प्रभु कवि धर्म उठ

\*“दर्शन-विदर्शन” बुद्धका गढ़ा शब्द।

गया”—का खयालकर शोषक-जगत्को बचानेके लिये धर्मकी नई व्याख्या या नये-नये अवतारोंकी जरूरत पड़ती है। धर्म और ईश्वरकी धाकको अन्तुण रखनेके लिये भारी प्रयत्न पहिले भी हुये हैं, और आज भी हिटलर कह रहा है कि मैंने नास्तिक बोलशेविकोंके न-क्षत्र करनेके लिये तलवार उठाई है, इस प्रकार मेरा युद्ध धर्म-युद्ध है। प्रायः हजार वर्ष पूर्व उदयनाचार्य ( ६८४ ई० )ने भी एड़ीसे चोटी तककी ताकत ईश्वरकी सत्ता सिद्ध करनेके लिये लगाई थी। यद्यपि उदयनके दिये प्रायः सभी हेतु बासी हो गये हैं, और आजके स्वार्थ-संरक्षकोंने उसकं लिये दूसरा ही तरीका स्वीकार किया है, तो भी भारतके लिये वह कुछ ऐतिहासिक महत्त्व रखता है—और कुछ दिवान्ध तो अब भी समझते हैं, कि उदयनकी “न्याय कुसुमांजलि” आजके जगत्में भी ईश्वरकी सत्ता-को सिद्ध कर सकती है। उदयनने ईश्वर होनेके ये हेतु दिये हैं—

( १ ) हर एक कार्यका कोई कारण होता है, इसलिये जगत्रूपी कार्यका कारण चाहिये;

( २ ) मूल परमाणुओंको जोड़े बिना स्थूल जगत् बन नहीं सकता, इसलिये जोड़नेवाला चाहिये;

( ३ ) धारण बिना जगत् ठहर नहीं सकता है, इसलिये धारण करनेवाला चाहिये;

( ४ ) शिल्प या ज्ञान परम्परासे प्राप्त होता है, इसलिये कोई आदि-गुरु चाहिये;

( ५ ) वेद जैसे वाक्योंका प्रमाण माना जाता है, ऐसे प्रमाणसे होनेका कोई प्रमाणदाता होना चाहिये;

\*“कार्यायोजन-धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः।

वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविद् अव्ययः ॥”

—न्यायकुसुमांजलिः ५।१

- (६) वेद (श्रुति) भी ईश्वरका होना बतलाता है;  
 (७) वेद-वाक्योंका भी रचयिता चाहिये;  
 (८) दो, तीन, चार...संख्याकी कल्पनाका भी कोई आदिकर्ता चाहिये; और

- (क) वह सर्वज्ञ ( विश्वविद् ) होना चाहिये;  
 (ख) वह अ-विनाशी ( अव्यय ) होना चाहिये ।

उदयनने आठ युक्तियोंसे ईश्वरको सिद्ध करना और दो शब्दोंमें-उसके रूपको बतलाना चाहा है । इन युक्तियोंका खंडन पहिले ही जगह-जगह हो चुका है; तो भी यदि इकट्ठा करानेकी जरूरत है, तो हम कह सकते हैं—

(१) कार्य एक कारणसे नहीं अनेक कारण ( “हेतु-सामग्री”, अनेक हेतु-संगति )से उत्पन्न होता है, इसलिये उससे एक कारण ईश्वर सिद्ध नहीं होता;

(२) भौतिक तत्त्व—घटना-प्रवाह—विरोधि-समागम हैं, इसलिये आयोजन, वियोजनके स्वाभाविक हेतु वहाँ भीतर मौजूद हैं;

(३) जगत्में धारण ( धृति ) स्थिरता आँख न रखनेवालोंको दीख पड़ती है;

(४) शिल्प या ज्ञान अविच्छिन्न परंपरासे नहीं आये हैं, बल्कि विच्छिन्न परंपरा ( विच्छिन्न सन्तति )से प्राप्त होते हैं ; एक बार वह बिल्कुल नये पैदा होते हैं, फिर उनकी परंपरा चल पड़ती है ।

(५-७) वेदके प्रामाण्य आदिकी बात धर्मकीर्तिके गिनाये ध्वस्त प्रश्नोंके पाँच चिह्नोंमें है, जिसका जिक्र आज स्वगोष्ठी छोड़ कोई

---

❀विरोधि-हेतु-संगम्याऽधृतिर्विच्छिन्नसन्ततिः । सृष्टिः, संख्या श्रुती कल्प्ये, नहि विश्वविन् नाव्ययः ।” —न्यायवज्रांजलिः ( राहुलस्य )

विद्वन्मंडलीमें नहीं उठ सकत; वेद मनुष्योंकी कल्पना, मनुष्योंकी सृष्टि हैं; इतिहास-प्रेमियों तथा आदिम मानव सभ्यताके जिज्ञासुओंके लिये वह उपयोगी सामग्री प्रदान करते हैं;

(८) दो, तीन... आदि संख्याकी कल्पना मानवने की और उसकी कल्पनासे निकले आजके गणितके सामने उदयनके समयका गणित नगण्य-सा है।

(९) कोई विश्वविद् ( सर्वज्ञ ) नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ होनेका अर्थ है, आज और आजसे करोड़ों वर्षों बाद भी तिनकेसे लेकर मानव-मस्तिष्कमें जो कुछ हो रहा है या होगा; वह सब उस विश्ववेत्ताके ज्ञानमें पहलेसे जैसा मौजूद है, वैसा ही वह हो रहा है; ऐसे भाग्यवादका गुणात्मक परिवर्तन द्वारा हम पहले खंडन कर चुके हैं।

(१०) अ-विनाशी किसीका कारण नहीं बन सकता, क्योंकि कारण बननेके लिये उसे सक्रिय होना चाहिये, जो सक्रिय है वह स्वरूप और स्वभावमें अपरिवर्तित नहीं रह सकता; इस तरह अविनाशी और कारण यह दोनों प्रकाश-अन्धकारकी भाँति एक दूसरेके विरोधी हैं।

उदयनने, वस्तुतः ईश्वरको सिद्ध करनेके लिये जो युक्तियाँ दी हैं, उनका जबर्दस्त खंडन उनसे पौने चारसौ वर्ष पहले धर्मकीर्त्ति ( ६०० ई० ) कर चुके थे और जिससे उदयन पूर्णतया परिचित थे; किन्तु फिर-फिर दुहराना प्रोपेगंडाकी बर्कत है, इससे भी वह पूर्णतया परिचित थे; इसलिये पुनरुक्तिको दूषण नहीं भूषण बना वह अपना काम करते गये।

## २. प्रयोजनवाद

जब हम एक घरको देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि इसे एक आदमीने बनाया, और उसने इसे एक विशेष प्रयोजनके लिये एक

विशेष योजनाके अनुसार बनाया है। इसलिये “यदि प्रकृति एक केकड़े, एक तूफान या बाघकी पीली-काली धारियाँ बनाती हैं” तो इसका कोई प्रयोजन है।—यह है यूरोपके बीसवीं सदीके हाइटहेड जैसे कुछ दार्शनिकोंका महान् दर्शन। हम जानते हैं, देवफोफी (थ्योसोफी) के अभिनव धर्मकी भाँति यह महान् दर्शन भी काफी पुराना है, और बीसवीं सदीके प्रयोजनवादी दार्शनिकोंने पुराने सूत्रको ही फिरसे उज्जीवित करनेकी कोशिश की है; जिसका अर्थ यही है कि सोफोकलकी आत्मा हाइटहेडके रूपमें अवतार लेनेकी जबर्दस्त जरूरत समझती है।

विद्याका काम है, अज्ञातकी व्याख्या ज्ञातसे करके उसें समझने लायक बनाये, किन्तु प्रयोगवादी दार्शनिक अपनी दार्शनिकताका जबर्दस्त अपव्यय कर रहे हैं, जब कि वह ज्ञेय विश्वकी व्याख्या अज्ञातकी सहायतासे करनेका प्रयत्न करते हैं, जिस तरह प्रयोगवादी बाघकी काली-पीली धारीके भीतर खास प्रयोजन बतला रहे हैं, उसी तरह कहा जा सकता है, कि समूरी लोमड़ी शिकारके प्रयोजनसे पैदा हुई, और जैसे गाय-भैंस खानेके प्रयोजनसे पैदा की गई, उसी तरह हिन्दुस्तानी तथा दूसरी काली जातियाँ गुलाम बननेके लिये, एवं सफेद जर्मन आर्य-जाति दुनियापर शासन करनेके प्रयोजनसे पैदा हुई। और हिन्दुओंकी गीता तो गला फाड़-फाड़कर कह ही रही है—कि “भगवान (मैं)ने चारों वर्णोंको गुण-कर्मसे अलगकर-करके बनाया”; जिसमें शूद्रोंका काम तीनों ऊँचे वर्णोंकी खिदमत करना भर है। बीसवीं सदीका प्रयोगवाद भी हमें वृद्धोंके उसी “ज्ञानभंडार” तक पहुँचा देता है, जिसमें “भगवान्की मर्जीके बिना पत्ताका भी न हिलना” सबसे बड़ा ज्ञान है, और जो शोषकों, काम-चोरोके प्रयोजनका सबसे बड़ा हथियार है।

हमको यह मालूम है, कि जब तक दार्शनिकोंका प्रयोजनवाद मानव बुद्धिको बाँधे हुए था और हरएक अज्ञात वस्तुको अज्ञेयसे व्याख्या कर

ॐ “चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टं गुण-कर्म-विभागशः।”



डालनेकी प्रवृत्ति थी, तब तक साइंस आगे नहीं बढ़ सका, और जैसे ही बुद्धि प्रयोजनवादके यांत्रिक बंधनसे मुक्त हुई वैसे ही उसने प्रयोगके द्वारा साइंसका रास्ता साफ किया। प्रयोजनवाद साइंसका जबर्दस्त दुश्मन है; वह ठीक उससे उलटा रास्ता लेनेको कहता है। बाघकी पीली जमीन पर काली धारीको ही ले लीजिये, प्रयोगवादी मुल्ले कहेंगे, प्रकृति— ( ईश्वरको वह इस नामके भीतर छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जड़ प्रकृतिके साथ उनकी इतनी छोह नहीं हो गई है कि उसे प्रयोजन-चेतना रखनेवाली मान लें )ने बाघको काली-पीली धारी इसलिये प्रदान की है, कि वह अपनेको छिपाकर दुश्मनसे बचा सके। साइंसवेत्ता इस धारीको लेकर प्राकृतिक-निर्वाचन\* और जाति-परिवर्तन\*\*के महान् सिद्धान्तोंका आविष्कार करनेमें सफल हुए जो कि प्रयोजनवादसे बिल्कुल उलटे हैं।—

“जो वस्तु ( घटना-प्रवाह ) खास विशेषतायें रखती है, वह चिरस्थायी होती है। कुछ व्यक्ति नये परिवर्तन-द्वारा अपनेमें नई विशेषतायें लाते हैं। अपने आहार-विहारके लिए, अपने शत्रुओंसे बचनेके लिए, जो विशेषतायें उपयोगी सिद्ध होंगी, उन विशेषताओंका धनी बच रहेगा, और जो अनु-पयोगी या हानिकारक सिद्ध होंगी उनके धनीका विनाश अवश्यंभावी है। बरसातमें कई कीड़े पैदा होते हैं, जिनमेंसे कुछ रंग-रूपमें हरे पत्तोंसे मिलते हैं, कुछका रंग किसी वृक्षकी छाल जैसा होता है, और कुछका वहाँकी मिट्टी जैसा। इन रंगोंपर यदि हम गौर करें, तो मालूम होगा, कि ये रंग दुश्मनकी नजरसे छिपनेमें बड़ी मदद देते हैं, गोया यह वर्ण उनके रक्षा-कवच हैं। एक कीड़ा सूखी काली जगहमें पीढ़ियोंसे रहता था। समय बदला, अब वह जमीन हरी-भरी हो गई। अब कीड़ा हरी पत्तियों और हरे पौधोंमें रहता है। उसकी सन्तानोंमें अधिकांश कीड़े चमकीले, लाल और काले रंगके हैं, और दो-चार जाति-परिवर्तनके

कारण हरे रंगके। कीड़ोंके खानेके लिये कितने ही पत्ती, कितने ही दूसरे कीड़े भी मुँह बाये हुये हैं! जो कीड़ा अपने आसपासकी जमीन, हरी घाससे बिल्कुल अलग रंग रखता है, और इसके कारण दूरसे ही शत्रुकी नजर उसपर गड़ जाती है, ऐसे कीड़ेका जल्दी संहार होना निश्चित है। उ०००उपरोक्त कीड़ोंमें अपने रंगके कारण बचे हुए ये हरे कीड़े वंशको आगे ले जायँगे, गोया प्रकृतिने हरे कीड़ोंको जीनेके लिये चुन लिया है। इसे ही प्राकृतिक-निर्वाचन कहते हैं।”

प्रयोजनवादका असल मतलब है आप जगत्को बदलनेका इरादा न करें, समाज जैसे चल रहा है, उसे वैसे ही चलने दें। प्रयोजनवादका उद्देश्य है, फाटकसे निकाल बाहर किये ईश्वरको फिरसे खिड़कीके रास्ते ला सिंहासनपर बैठाना।—यह हम यूरोपके प्रयोजनवादियोंकी बात कह रहे हैं, जो कि अपने इस उद्देश्यको बहुत छिपाकर रखना चाहते हैं।

### ३. विज्ञानवाद

विज्ञानवादका जिक्र पहिले हो चुका है, किन्तु आँवमें धूल भोंकनेका काम जितना इस दर्शनसे लिया जाता है, उतना दूसरे दर्शनोंसे नहीं। सर राधाकृष्णन् शंकराचार्यके हिमायती होनेके नाते विज्ञानवादका समर्थन करना अपना फर्ज समझेंगे। किन्तु राधाकृष्णन् टूटी नाव है, जो उनपर भरोसा करेगा, वह मँझधारमें गिरेगा। हम बतला चुके हैं, कैसे उन्होंने बुद्धिको शंकरके ज्ञानपथसे विचलितकर भक्तिकी शरण लेनेका परामर्श दिया था। बौद्ध दर्शनपर पोचारा पोतते हुए एक जगह वह विज्ञानवाद—भूत भौतिक जगत् असत्, चेतनामय ब्रह्म (मन या विज्ञान) ही सही—के प्रति अपने उद्गारको इस प्रकार निकालते हैं\*—

“विश्व बिल्कुल ही व्यर्थ, एकदम अ-वास्तविक होता, यदि यह किसी प्रकारसे वास्तविक [ब्रह्म ?]का प्रकाश न मिलता। जन्म और

\*Indian Philosophy vol I. p. 596.

मरणकी दुनिया अमर [ ब्रह्म ? ]का प्राकट्य है । परम ( चरम ) वास्तविकता सर्वसत्त्व, वास्तविक तथा काल्पनिक सभी वस्तुओंका आत्मा है ।”

“सर्वसत्त्व” अंग्रेजीकी पुस्तकमें भी यह संस्कृत शब्द लिखा गया है । धरती माता ! फोटो, हम समायें !! “एकां लजां परित्यज्य त्रैलोक्य-विजयी भवेत् ।” और सर्व-सत्यका अर्थ—“वास्तविक तथा काल्पनिक सभी वस्तुओंका आत्मा ” । श्रद्धय धर्मान्द कौशाम्बी ! आपने बौद्ध शास्त्रोंके पढ़ने-पढ़ानेमें नहीं, धूपमें अपने बाल सफेद किये हैं, यदि इस तत्त्वको नहां समझा । और भदन्त आनंद कौसल्यायन ! अब भी काशीके दूसरे छोरपर आप अपना दंड-कमंडल रखना चाहते हैं ? यदि हाँ, तो ठीक अर्थ लगाइये—

“सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता” (सर्वे सत्त्वा भवन्तु सुखितात्मानः)

= “वास्तविक तथा काल्पनिक सभी वस्तुओंका आत्मा सुखी हो ।”  
छंदस् ( वेद ) के नियमके अनुसार बहुवचनको एकवचन कर देनेसे यही अर्थ ठीक आयेगा ।

और विहारके राजा मदनपालदेव ( ११३४-५३ ई० )के सत्रहवें राज्य-संवत्में लिखी पुस्तकके अन्तमें जो “माता-पितृ-पूर्वङ्गं गमं कृत्वा सकल-सत्त्वरशेनुत्तरज्ञानावाप्तये” लिखा हुआ है, उसमें “सकल सत्त्वरशेः”का अर्थ करना होगा—सभी वस्तुओंके आत्माओंकी राशिका । अब मालूम हुआ न, बुद्ध और बौद्धोंके दर्शनपर कलम चलानेके लिये कितनी हिम्मत चाहिये । हमें आशा है भविष्यके भारती दर्शनपर कलम उठानेवाले सारे लेखक सर राधाकृष्णन्की इस “सर्वसत्त्व”की गहरी स्फूर्तके लिये कृतज्ञता प्रकट करनेसे कभी बाज न आवेंगे ।

राधाकृष्णन्के सर्वसत्त्व (= सारे प्राणी, सारे जलचर. नभचर, पशु, मनुष्य) ने हमारी जानको ही ले छोड़ा था। लेकिन बुद्धने अपने दर्शनकी इतनी नाकाबन्दी की है, खासकर अनात्मवाद और क्षणिक-वादके द्वारा, कि सर राधाकृष्णन् कितना ही “वास्तविक”, “अमर” या खुद बुद्धके अपने मुँहसे निकले वचन “सर्वसत्त्व”का चोगा पहिनाकर ब्रह्मवादको वहाँ घुसाना चाहें; बेचारा शङ्करका प्यारा ब्रह्म क्षणिक-वादके एक ही प्रहारमें बाप बाप करता फिर उधर नजर उठाकर देखनेकी भी हिम्मत न करेगा। हमें सर राधाकृष्णन्की इस हिम्मतकी दाद देनी चाहिये, जो कि ऐसी निराशाजनक परिस्थितिमें भी उन्होंने हिम्मत न छोड़ी। इससे एक बात तो साफ है कि वह “जन्म-मरणकी दुनिया”के पीछे “अमर” तत्त्वको सिद्ध करनेपर तुले हुए हैं। आइये हम उनकी मदद करें।

इंग्लैंडका महान् दार्शनिक बर्कले (१६८५-१७५३ ई०)—लार्ड क्लाइवका समकालीन-विज्ञानवादका जबरदस्त समर्थक था। उसका कहना था—“स्वर्ग .. और धरतीके सभी सामान, संक्षेपमें .. सभी पिंड मनको छोड़ और किसी द्रव्यके नहीं (बने) हैं। .. जब तक मेरे द्वारा वह उपलब्ध (ज्ञात) नहीं होते अथवा मेरे या दूसरे उत्पादित जीवके मनमें अस्तित्व नहीं रखते तब तक वह या तो अस्तित्व ही नहीं रखते अथवा किसी नित्य आत्मामें अवस्थित हैं।”

बर्कले दार्शनिक होते भी लाट-पादरी था और आजकलकी दुनिया पादरियोसे भड़कती बहुत है; इसलिये आइये एक प्रसिद्ध साइंस-वेत्ता, सर जेम्स जीन्सके पास चलें, यद्यपि “सर” होनेसे आपको जरूर कुछ शंका हो उठेगी; क्योंकि आप जानते हैं पूँजीवाद-शिरोमणि सरकार कैसोंको इस पदवीका पात्र समझती है, तो भी यह याद रखना

चाहिये कि जीन्स एक अच्छे गणितज्ञ अच्छे ज्योतिषी—फलितवाले नहीं खोंटे ज्योतिषवाले—रहे हैं। सुनिये, वह क्या कहते हैं—

“मुझे मालूम होता है, आधुनिक साइंस हमें एक बिल्कुल दूसरे रास्तेसे (बर्कलेके मतके) बिल्कुल असमान परिणामपर नहीं पहुँचा रहा है।”

“इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, चाहे पदार्थ ‘मेरे मनमें या किसी दूसरे उत्पादित जीवनके मनमें अस्तित्व रखते हैं’ या नहीं; उनका विषय (गोचर) होना तभी होता है, जब कि वह किसी नित्य आत्माके मनमें अस्तित्व रखते हैं।

“यदि यह सच है कि ‘पदार्थोंका वास्तविक सार’ [कान्टका वस्तु-अपने-भीतर या वस्तु-सार] हमारे ज्ञानसे परे है तो वस्तुवाद और विज्ञानवादकी सीमा-विधायक रेखा सचमुच अत्यन्त अस्पष्ट हो जाती है...; विषयाकार वास्तविकता अस्तित्व रखती है; क्योंकि कुछ वस्तुएँ मेरी और आपकी चेतनाको एक समान प्रभावित करती हैं; किन्तु [ऐसा करके] हम एक ऐसी किसी चीजको मान ले रहे हैं, जिसके मान लेनेका हमें हक नहीं है, यदि हम उसे वास्तविक [वस्तुरूप] या विज्ञानीय [विज्ञान-रूप, मन-रूप] नाम देते हैं। ठीक नाम रखने-पर उसे ‘गणितीय’ कहना चाहिये।”

सर जेम्स जीन्स जिस वक्त विशप बर्कलेके साथ आसमानमें उड़ते जा रहे थे, उस वक्त उन्हें डाक्टर जान्सनकी बात याद आ गई। डाक्टर जान्सनने बर्कलेके दर्शनकी बात सुनकर विज्ञानसे पृथक् भौतिक तत्त्वकी सत्ताको साबित करनेके लिये फर्शपर पैर पटककर कहा था—  
“नहीं, साहेब! मैं इस तरह [पैरसे धरतीकी सत्ताको सिद्धकर] उसे [विज्ञानवादको] गलत साबित करता हूँ।”

❀ The Mysterious Universe (by Sir James Jeans. Pelican Series April 1940.) pp. 172-75.

सर जेम्स जीन्स डाक्टर जान्सनके खंडनका उत्तर अपनी मुस्कराहट-से देना काफी समझते हैं; क्योंकि डाक्टर जान्सन अपने समयमें जो काम कर गए, उसे ही अब उन्हें नई परिस्थितिमें अंजाम देना है। यदि डाक्टर जान्सन जानते कि धरतीपर लात पटककर वह भौतिकवादको सिद्ध कर रहे हैं, जो कि शोषक प्रभुवर्ग तथा उसकी संस्कृति, सभ्यता, धर्मका जानी दुश्मन है, तो वह कभी वैसी गलती न करते। सर जेम्स जीन्स जानते हैं कि वह जो महान् सेवा कर रहे हैं, उसे उपकृत वर्ग भुला नहीं सकता, इसीलिए आगे बढ़ते हुये कहते हैं—❀

“आज ज्ञानकी धारा एक अयांत्रिक वास्तविकताकी ओर बढ़ रही है; विश्व एक बड़े यंत्रकी अपेक्षा एक बड़े विचार [कल्पना]सा जान पड़ता है। मन अब भौतिक जगत्में आकस्मिक भटक आया [बटोही] जैसा नहीं मालूम पड़ता; हमें भान होने लगा है कि [पहिली धारणाको हटाकर] हमें भौतिक जगत्के स्थाया और शासकके तौरपर उस [मन]का स्वागत करना चाहिये—हाँ, अपने वैयक्तिक मनोको नहीं; बल्कि उन मनोको, जिनमें कि परमाणु-विचार [कल्पना]के तौरपर सत्ता रखते हैं। भौतिक तत्त्व स्वयं-मनकी श्रृष्टि और प्राकट्य हैं। हमें ज़ाहिर होता है कि विश्व हमारे मनो जैसे एक मनका पता दे रहा है, जो कि ( उसकी ) योजना बनाता तथा नियंत्रण करता है।”

देखा, सर जेम्स जीन्स कैसे चुपके-से प्रयोगवादी ह्याइटहेडके पास पहुँच गये; और इन बूढ़ोंकी मंडलीमें हमारे सर राधाकृष्णन् जो शोभा दे रहे हैं! आप इनकी बातोंको आदर्शवाक्य बना अपने बैठकखाने—ड्राइंगरूम—में लगा लीजिए, यदि घरकी लक्ष्मीको भुखमरोके घर जाने नहीं देना चाहते—

विश्वके पीछे वास्तविक अमर “सर्वसत्त्व” है—सर राधाकृष्णन् विश्वके पीछे खास प्रयोजन काम कर रहा है—ह्याइटहेड

“एक मन... जो कि [ विश्व की ] योजना बनाता तथा नियन्त्रण करता है।”—सर जेम्स जीन्स ।

और जर्मन मजदूर डीट्ज़गेन—ये दार्शनिक कहलानेवाले लोग “जनताको अज्ञानमें रखनेके लिए अपने भूठे विज्ञानवादको इस्तेमाल कर रहे हैं।”❧

इसके उत्तरमें प्रोफेसर लेवीने जली-कटी सुना इन बूढ़े शोषणके समर्थकोंको जो उत्तर दिया है, उसे हम पहिले उद्धृत कर चुके हैं । नई पीढ़ीका दूसरा दार्शनिक जान लेविस् कहता है †—

“बिना एक कल्पना ( विज्ञान )के चूँकि हम किसी वस्तुको नहीं जान सकते, इसका यह अर्थ हर्गिज नहीं कि हम सिर्फ कल्पनाको ही जानते हैं । ज्ञानका अस्तित्व ही साबित करता है, कि ज्ञाता और ज्ञेय भी अस्तित्व रखते हैं, चूँकि बिना उसकी कल्पना किये हम बाह्य (भौतिक) जगत्का चिन्तन नहीं कर सकते, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जो कुछ अनुभव करते हो, वह सिर्फ अपनी कल्पनाका ही करते हो । हम अपने प्रथम ( इन्द्रिय-) प्रत्यक्षमें खुद प्रकृति ( भौतिकत्त्व )को ही जानते हैं । ( यह ठीक है ) हम उसे पूर्णतया नहीं जानते, और न उसके बारेमें सब कुछ जानते हैं, किन्तु हम यह जानते हैं, कि वह है।”

यदि आप विज्ञानवादकी नब्ज ढूँढ़ें, तो मालूम होगा—उसका आजकल सबसे बड़ा काम है साइंससे प्राप्त होनेवाले ज्ञानके प्रति संदेह पैदा करना—सापेक्ष बतलाना नहीं, क्योंकि सापेक्षताको तो साइंस स्वयं स्वीकार करता है । दूसरा काम है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे धर्मको हस्तावलम्ब देना; इसे सर जेम्स जीन्सके “मन”में हम अभी देख चुके हैं ।

❧Lenin Materialism में उद्धृत ।

†Introduction to Philosophy ( Golancz 1937 )  
pp. 50-51

## तृतीय अध्याय

### भूत और द्वंद्ववाद

वैज्ञानिक ( द्वंद्वात्मक ) भौतिकवादके बारेमें अधिक कहनेसे पहले यह जानना जरूरी है कि भौतिकवाद क्या है। और भौतिकवादको समझनेके लिये भूत ( भौतिक तत्त्व )को बतलाना आवश्यक है।

### क. भूत या भौतिक तत्त्व

#### १. भूतकी व्याख्या

जो कुछ हम अपनी इन्द्रियोंसे देखते-समझते (इन्द्रिय-गोचर) हैं, जो कुछ इन्द्रिय-गोचर वस्तुओंका मूल-स्वरूप है, जो देश (लंबाई, चौड़ाई, मुटाई)में फैला हुआ है, जो कर्म या बेशी मात्रामें दबावकी रोक-थाम करता है, जिसमें इन्द्रियोंसे जानने लायक गति पाई जाती है, वह भूत है।

इन्द्रियसे यहाँ मनुष्यकी जन्मजात इन्द्रियोंकी ही शक्तिको नहीं लेना चाहिये; बल्कि उस शक्तिको भी, जो कि सहायक यंत्रों अणुवीक्षण, दूरवीक्षण, शब्दप्रसारक द्वारा कई गुना बढ़ी प्राप्त होती है।

दार्शनिक लॉक ( १६३२-१७०४ ई० )के मतमें परिमाण (लंबाई, चौड़ाई, मुटाई तथा भार)के रूपमें भूतका जो स्वरूप हमें इन्द्रिय-गोचर होता है, वही वास्तविक है; और गुण (गंध, रस आदि)के रूपमें दिखलाई देनेवाला स्वरूप अ-वास्तविक, काल्पनिक या भ्रान्त है।

---

\*Microscope.

†Telescope.



वैशेषिक रूप, रस आदि गुणों द्वारा ही भूतोंकी वास्तविकता (द्रव्यता) मानता है।—पृथिवी वह है, जो गंधवाली होते गुणवाली है। यहाँ यह कहनेकी अवश्यकता नहीं है कि गुणकी वास्तविकता माननेके कारण ही वैशेषिक विकसित होकर पदार्थ-विज्ञान या साइंसके रूपमें परिणत नहीं हो सका; और विस्तार और भारको भूतका वास्तविक स्वरूप माननेवाली यूरोपीय विचार परंपरा नित्य नव-विकाशवाले आधुनिक साइंसके रूपमें परिणत हो गयी।

यद्यपि साइंस-विस्तार और भारके रूपमें भूतको देखता है; किन्तु उनमें भी वह, जहाँ तक उसकी इन्द्रिय-गोचरताका संबंध है, भारको प्रधानता देता है—

“बाहरी जगत् ( भौतिक तत्त्वों )का ज्ञान उन कम्पनों ( अतएव दबावों )से होता है, जिनको लेते वक्त दस लाखसे ऊपर ज्ञान-तंतुओंके भ्रूटके हमारे मस्तिष्क और रीढ़के भीतरके तन्तु गुच्छकोंमें पहुँचते हैं; उन गुणात्मक ‘भ्रूटको’पर ( वह ज्ञान निर्भर ) नहीं है। परिमाणका गुणमें और गुणका परिमाणमें परिवर्तन ( जिसके द्वारा कि हम किसी पदार्थको इन्द्रिय-गोचर करते हैं ) मस्तिष्कमें होता है; जगत्का जो ज्ञान हमें होता है, यही परिवर्तन उसमें मुख्य साधन है।”\*

गुण ( गंध, रूप आदि ) कैसे परिमाण ( भार आदि )में परिवर्तित होते हैं?—प्रकृतिका स्वभाव ही ऐसा है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन—स्वरूपमें मौलिक परिवर्तन—होना बराबर देखा जाता है; जिसे कि हम आगे कहनेवाले हैं। वैज्ञानिक भौतिकवाद गुण और परिमाण दोनोंको वास्तविक जगत्का स्वभाव ( आसानीके लिये गुण कह लीजिये ) मानता है।

---

\*The Marxist Philosophy and Sciences ( by J. B. S. Haldane, 1938 ) p. 32-33.

भूतकी व्याख्या करते हुए लेनिन्ने कहा है—

“भूतका एकमात्र गुण ( स्वरूप ) यह है, जो कि वह हमारे प्रत्यक्षीकरणसे बाहर अपनी सत्ताको ( रखता है, और ) इन्द्रिय-गोचर वास्तविकताके रूपमें रखता है ।”\*

“भूत दार्शनिक परिभाषामें उस ‘साकार’ वास्तविकताको कहते हैं, जिसका ज्ञान मनुष्यको उसकी इन्द्रियों-द्वारा मिलता है । वह ऐसी वास्तविकता है, जिसकी नकल की जा सकती है, जिसका फोटो खींचा जा सकता है, जो हमारी वेदनाओं ( विषय-इन्द्रिय-मस्तिष्क-संपर्क ) द्वारा ( मस्तिष्क )में प्रतिबिम्बित की जा सकती है—किन्तु, उसकी सत्ता इन ( वेदनाओं )पर निर्भर नहीं है ।”†

“भूत वह है, जो कि हमारी इन्द्रियोंपर क्रिया करते हुए वेदना ( मस्तिष्क-गति )को उत्पन्न करता है । भूत वह ‘साकार’ वास्तविकता है, जिसका प्रता हमें वेदनाओंमें मिलता है ।”‡

यहाँ ‘साकार’ उस ‘निराकार’से उलटे अर्थमें है, जिसका अस्तित्व बाहरी जगत्में कहीं नहीं मिलता, और जो सिर्फ मस्तिष्ककी कल्पना-मात्र है ।

## २. विरोधियोंके आक्षेपोंका उत्तर

भौतिकवादके विरोधी आज नये नहीं पैदा हुये हैं; वह दर्शनके इतिहासके आरम्भसे चले आते हैं, और एक तरह दर्शन पैदा ही हुआ, भौतिकवादके वास्तविक जगत्को विचारों-द्वारा खतम करनेके लिये । उपनिषद्के दार्शनिकोंने ‘नेह नाना’ ( यहाँ अनेक नहीं ) कहा, अफलातूनने ‘भूठे’, भौतिक जगत्की जगह ‘सच्चे’ अभौतिक ( विज्ञानमय ) जगत्की ‘सृष्टि’ की । नागार्जुनने जगत् और उसकी

\* The Materialism and Empirio-Criticism p. 220; †वहीं p. 102, ‡ वहीं p. 116.

वस्तुओंकी सत्ता चूँकि सापेक्ष-अन्योन्याश्रित-है, इसलिये ऐसी सत्तासे इन्कार ही सब कुछ शून्य (अभाव) का प्रतिपादन किया। असंगने अफलातूँ के विज्ञानमय जगत्में बौद्ध दर्शनके क्षणिकवादकी पुट दे भौतिक जगत्के 'ठोसपन'को ध्वस्त किया। शंकर और रोश्दने पहले ही-के भौतिकवाद-विरोधियोंका चर्वित-चर्चण किया। लेकिन, क्या इन बड़े-बड़े दिमागोंके छब्बीस सौ वर्षोंके प्रयत्नसे 'ठोस' जगत् खतम हो गया ?—नहीं, बिल्कुल नहीं, याज्ञवल्क्य, अफलातूँ, नागार्जुन, असंग, शंकर और रोश्दने अपने मतको स्वयं अपने आचरण-द्वारा भूठा साबित किया।—वास्तविक जगत्की सत्ता यदि वस्तुतः नहीं है, तो भूख भी कोई चीज नहीं, और भूख मिटानेके लिये यदि अफलातूँ या शंकरने थालीकी ओर अपने पाँच सेरके हाथको बढ़ाया, तो खुद अपने आचरणसे अपने मतका खंडन किया।

खैर, इन पुराने भौतिकवाद-विरोधी दार्शनिकों तथा उनके आधुनिक वंशजोंको छोड़िये, आज ऐसे कोरे तर्कवादोंका कोई महत्त्व नहीं है। लेकिन हाँ, भौतिकवादके विरोधी एक दूसरी तरहके नये लोग पैदा हुए हैं। ये लोग स्वयं वैज्ञानिक हैं, और उसी विज्ञानके अनुसंधानमें निरत हैं—जो कि निर्भर करता है भूतके अस्तित्व पर। एक बार यदि भूतके अस्तित्वसे इन्कार कर देते हैं, तो किसकी नाप-तोल, किसपर अणुवीक्षण, दूरवीक्षण, रश्मिवर्णवीक्षणका प्रयोग? किन्तु, यह भी कोई नई बात नहीं। दर्शनके इतिहासमें हम अक्सर नागार्जुन, गजाली, श्रीहर्ष जैसे-विद्वानोंको देखते हैं, जो दर्शनकी सहायतासे दर्शनका संहार करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे ये आधुनिक कितने ही देह या दिमाग-के बूढ़े वैज्ञानिक। उनके ऐसा करनेमें भी भारी रहस्य है और उसका साइंससे कोई सम्बन्ध नहीं है; किन्तु अभी उसे रहने दीजिये। आइये, देखें भूत (भौतिक)के अस्तित्वको इन्कार करनेके लिये वह युक्ति क्या देते हैं।—

## भूत

“भूत नहीं है, यह साबित हो गया ।”

“कैसे ?”

“साइंस—उच्च भौतिक विज्ञान—ने साबित कर दिया, कि भूत कुछ नहीं है, वह वस्तुतः शक्ति है ?”

“शक्ति ! भौतिक या अभौतिक—आत्मिक या दिव्य-शक्ति ?”

“भौतिक नहीं ।”

“तो अ-भौतिक, दिव्य ! और फिर उस अ-भौतिक दिव्य शक्तिको सिद्ध कौन कर रहा है ?—साइंस ! और फिर भी वह साइंस है !”

“हाँ, क्योंकि साइंसवेत्ता जो उसे प्रमाणित करते हैं ।”

“मुँहसे कहना, यदि साइंससे प्रमाणित करना है, तो साइंसवेत्ताओं-की सारी चेष्टाएँ साइंस हैं । सर ऑलिवर लाजकी भूत-प्रेत-विद्या-अतएव ओम्हा-विद्या—तथा उसके आधुनिक अवतार थ्योसोफी भी साइंस है । सर चन्द्रशेखरन्-वेंकट रमनका वेद-मंत्र और वर्तमान सामाजिक असमानताकी रक्षाके पक्षमें भाषण भी साइंस है ? सर जेम्स जीन्सका ईश्वर समर्थन भी साइंस है ।...वस्तुतः, आप उनके उतने ही कथनको साइंस-की कोटिमें मान सकते हैं, जिसके ऊपर वेधशाला, प्रयोगशाला और उसके सैकड़ों छोटे-बड़े यंत्र अपनी मुहर लगा चुके हैं । तो क्या इन वेध-शालाओंने गवाही दी है कि भूत नहीं है ? और फिर भूत नहींका मतलब ? जब वृत्तका न होना निश्चयपूर्वक घोसित कर दिया गया, तब ‘आम है’का सवाल ही कैसे उठ सकता है ? फिर साइंस किसकी नाप-तोल कर रहा है ?

“भौतिक शास्त्रमें, आधुनिक खोजोंमें भूतका कोई पता नहीं लगता, वहाँ तो सिर्फ शक्ति ही मिलती है ।”

“वही शक्ति भूत है ।”

“लेकिन वह ठोस नहीं, वह साकार नहीं है ।”

“तो इससे यही साबित हुआ कि कणाद ( १५० ई० ) या उससे

छ सौ साल पहले परमेनिद् (५४०-४८७ ई०पू०)ने भूतका जो सूक्ष्मतम रूप-परमाणु-माना था, वह गलत साबित हो गया। तालिमीका भूकेंद्रक विश्व गलत होनेसे 'विश्व है ही नहीं', 'सूर्य-चाँद हैं ही नहीं' यह नहीं साबित होता है ? परमेनिद और उसके दूसरे एसियातिक साथी विश्वकी गति, परिवर्तन-शीलतासे परेशान थे, वह अथाह समुद्रमें डूबते हुएकी तरह स्थिर भूमि ढूँढ़नेके लिये परेशान थे; इसलिये उन्होंने विश्वके मूलमें टोस—परमाणु—'ढूँढ़' निकाले। परमाणु नित्य, अपरिवर्तनशील, लासानी (असदृश), एकसे, अविभाज्य, असंख्य सूक्ष्म गोलीयों हैं। परमेनिदके भारतीय शिष्योंने षट्कोण तथा कुछ और भेदके साथ परमाणुकी उन स्थायी ईंटोंको अपने दर्शनमें ले लिया। भौतिक विज्ञानने इन गोल या षट्कोण टोस कणोंकी सत्ताको गलत साबित कर दिया, यह ठीक है। उसने विश्वके निम्नतम तलमें विद्युत्-चुम्बकीय कण-तरंग-कण भी, तरंग\* भी—को मूल तत्त्व पाया। इससे सिर्फ़ यही सिद्ध होता है कि भूतकी जो व्याख्या पहले की जाती थी, वह पहले बहुत स्थूल थी। किन्तु, साइंससे भूतका सिद्ध न होना सिद्ध हुआ, यह कहना तो साइंसका अपमान, अपनी बुद्धिका भी अपमान और दुनियाको भी सरासर बेवकूफ़ बनाना है।”

“लेकिन, साइंसने यह तो सिद्ध किया है कि विश्व बिल्कुल खाली—आकाश-शून्य-सा है ?”

“और उसमें शक्ति या विद्युत्-चुम्बकीय कण-तरंग भी नहीं है ?”

“है किन्तु वह नगण्य-सा है।”

“इसलिये नहीं है ! यह तो वही बात हुई, किसीने पूछा यह जाल क्या है ? दूसरेने कहा—कुछ नहीं, धागेसे नरथी किया हुआ भारी शून्य आकाश। धागेकी उपेक्षा और आकाशकी महिमा गाना यह है इन नाम-धारी वैज्ञानिकोंका बैठे-ठाते वक्तका साइंस। मानव-बुद्धि इस भूल-भुलैयाँ

\*देखो “विश्वकी रूप-रेखा” पृष्ठ ६३

को नहीं मान सकती । साइंस जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, भौतिक वस्तुओंके आन्तरिक ढाँचेके बारेमें वह अधिक और अधिक जानकारी प्राप्त करता है । परमाणु—परमेनिदूका नहीं, उन्नीसवीं सदीके रसायन-शास्त्रियोंका भी—टूटा। टामसनने उसके भीतर पहुँचकर एलेक्ट्रन, नाभिकण, प्रोटनका पता लगाया । बीसवीं सदीमें साधारण नाभिकण तथा हाइड्रोजनके नाभिकण, प्रोटनको भी तोड़ा गया, और हम न्यूट्रन और मेसोट्रन तक पहुँचे ।—भूतका यही भीतरी ढाँचा कण और तरंग दोनों—विरोधि समागम—के रूपमें मिलता है । यह सब सिर्फ इतना ही साबित करता है, कि पहली व्याख्या स्थूल थी ज्ञानकी गंभीरताके साथ हमें उसे सूक्ष्म करनी पड़ रही है । इस व्याख्या-परिवर्तनसे भूतका अभाव सिद्ध करना या तो भोलापन प्रकट करना है, या इसके पीछे कोई कुटिल रहस्य है ।—रहस्य जाननेके लिए अभी ठहरिये ।”

भूत है, और उसका होना ठोस सत्य है । आधुनिक साइंस भूतकी आन्तरिक अद्भुत शक्ति और स्वरूपपर प्रकाश डालकर उसके महत्वको घटा नहीं बढ़ा रहा है ।

## ख. भौतिकवाद

### १. व्याख्या

भूतकी व्याख्या जान लेने तथा उसकी सत्ताके मान लेनेपर अब आइये भौतिकवादपर । भौतिकवाद क्या है ?—यह वह दार्शनिकवाद है, जो कि कल्पना, विचार, ज्ञानको मानव चेतना ( मस्तिष्क )पर एक ऐसे वास्तविक भौतिक जगत्का मानस-प्रतिबिंब—चमक—मानता है, जिसकी सत्ता हमारी चेतना या इच्छासे विलकुल स्वतन्त्र है ।

एन्गोल्सके शब्दोंमें—“जो ( चेतना या चेतनको नहीं बल्कि ) प्रकृतिको ( सारे जड़-चेतन जगत्का ) मूल मानता है, ( ऐसे वादको ) भौतिकवाद कहते हैं ।”

\*देखो “विश्वकी रूप-रेखा”

†Feurbach P. 31

अथवा—

“वास्तविक जगत्—प्रकृति और ( उसके ) इतिहास—को उसी तरह ग्रहण करना, जैसी कि वह ऐसे हर आदमीको मालूम होती है, जो कि विज्ञानवादी ( दार्शनिक ) कल्पनाओंकी पूर्णधारणाओंसे मुक्त है ।” ❀

## २. विरोधियोंके आक्षेपका उत्तर

लेकिन जरा ठहरिये, भौतिकवादकी व्याख्या उसके शत्रुओंके मुँह-से सुनिये । भारतके धर्माचार्य कहते हैं—

“जब तक जिये सुखसे जिये, ऋण करके घी ( शराब ? ) पिये ।  
देहके भस्मीभूत हो जानेपर फिर-आना कहाँ से ?”†

—अर्थात् भौतिकवादी परम पामर स्वार्थी, लोलुप, मनुष्यरूपमें मृगा है ? और यूरोपके धर्माचार्य उसे भौतिकवादी कहते हैं, जो कि—शराबी, इन्द्रियलंपट, समाजशत्रु, अहंकारी जीव है । साथमें उनकी राय में विज्ञानवादी ( दार्शनिक ) होते हैं—सयमी, जितेन्द्रिय, समाज-सुहृद, निरहंकारी, स्वार्थत्यागी, महात्मा ।

भारतमें भौतिकवादियोंके लिये यह गाली क्यों मिली, इसका पता इतिहासमें सुरक्षित नहीं—आखिर हमारे इतिहासको राजा रानीके स्वयं-वरोसे फुसत हा तब न ! हाँ, यूरोपीय भौतिकवादियोंको जो गालियाँ पिछली सदीमें दी गईं, उनके लिखनेके लिये एक प्रत्यक्षदर्शी, तथा दर्शनके इतिहास-लेखकोंमें प्रसिद्ध व्यक्ति—जार्ज हेनरी लेविस् ( १८१७-७४ई० ) मौजूद था । देखिये वह क्या लिखता है—और इतिहास अकसर अपने सामान्य रूपको दुहराया करता है, यदि इस बातपर ध्यान रखें तो इससे अपने यहाँकी गालीका भी रहस्य खुल सकता है । जिस समयके बारेमें

❀Feurbach. p. 53

†“यावज्जीवेत् सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः”—सर्वदर्शन-संग्रह ( चार्वाकदर्शन )

लेखक लिख रहा है, यह वह समय था, जब कि फ्रेंच क्रान्ति (अपने उत्पीड़कों—शोषकोंके विरुद्ध कमकर जनताके सशस्त्र विरोध)को देख-सुनकर फ्रांस और इंगलैंडके सम्पत्तिशाली शासकोंके होश उड़े हुए थे और चारों ओर उन्हें अपना पीछा करते कबंध दिखलाई पड़ रहे थे—

“भौतिकवाद एक भद्दा शब्द है, जो कि कुछ खास सम्मतियोंको प्रकट करता है। यह सम्मतियाँ जिन भौतिकवादी-लेखकोंके सिर थोपी जाती हैं, वे ऐसी सम्मति रखते भी रहे, इसमें सन्देह है। वैसे भी यह सम्मतियाँ बेवकूफी और बदमाशीसे भरी हैं, और उन्हें गैर-जिम्मेवार उजड्डु विरोधियोंने जान-बूझकर उन (भौतिकवादी) लेखकोंके मत्थे थोपा है।... भौतिकवादियोंको कमसे कम यह खास सुभीता (अपने सिद्धान्तमें) है, कि वह सभी अतिभौतिक (या अलौकिक) पदार्थोंसे पिंड छुड़ानेकी कोशिश करते हैं; और प्राकृतिक जगत्की व्याख्या प्राकृतिक जगत्के नियमोंसे करना चाहते हैं।... यदि भौतिकवादी विचार गलत हो, तो (भी) वह जितना गलत है उतनी ही मात्रामें खतरनाक हैं; और बहुतसे (प्रभु-वर्गके) लोग इन विचारोंको इसलिए गलत कहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि वह (उनके स्वार्थके लिये) खतरनाक हैं।...”

“अठारहवीं सदीके (भौतिकवाद-प्रधान) दर्शनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया (देखी जाती) है, वह अयोग्य सिद्ध हुए किसी एक सिद्धान्तके खिलाफ उतना नहीं है, जितना कि भयंकर दुराचार (प्रभुता-सम्पत्ति अपहरण)के स्रोत समझे जानेवाले सिद्धान्तके खिलाफ। (यह) प्रतिक्रिया जबर्दस्त थी, क्योंकि वह उस क्रूरतासे प्रेरित हुई थी,

---

❀History of Philosophy (by G. H. Lewis)

Vol. II, pp. 743-44



जो कि फ्रेंच क्रान्तिके अत्याचारों(!!!)के रूपमें यूरोपमें हलचल मचाये हुई थी।...कंदिलाक, दीदेरो और कवानी के दार्शनिक (भौतिकवादी) विचार कन्वेंशन (क्रान्ति-परिषद्)के अपराधोंके जिम्मेवार ठहराये जाते थे।...जिस किसी विचारमें भौतिकवादकी गंध पाई जाती थी, उसे धर्म, सदाचार और सर्कारके नाशके लिये प्रयत्न करनेवाला विचार समझा जाता था। जो कोई विचार अध्यात्मवाद (विज्ञानवाद)की दिशाकी ओर जाता मालूम पड़ता था, उसका बड़े उत्साहके साथ स्वागत किया जाता था; उसका प्रचार और साधुवाद किया जाता था। (इससे) हम समझ सकते हैं कि उस पीढ़ीके (धनी लोगोंके) दिमागमें भौतिकवादके साथ क्रान्तिका सम्बन्ध कितना अटूट (सा जान-पड़ता) था।”

भौतिकवाद-विरोधियोंके मनोभावको व्यक्त करते हुए वह कहता है—  
 “उनका मुख्य उद्देश्य है (वर्तमान) सदाचार और (राज्य-) व्यवस्थाका समर्थन करना, जिनको वह उस (भौतिकवादी) दर्शनके कारण खतरेमें पड़ा समझते हैं; क्योंकि वह उनपर प्रहार करना चाहते हैं। (उनके भाषणोंमें) लगातार (लोगोंके पुराने) पक्षपातों और जोशीले भावोंको भड़काया जाता है।... (जिससे) श्रोता सभी उच्च भावनाओंको अध्यात्मवादी (विज्ञानवादी) सिद्धान्तोंके साथ जोड़नेकी आदत डालता है, और सभी नीच भावनाओंको भौतिकवादी सिद्धान्तोंके साथ; यहाँ तक कि एक (अध्यात्मवादी) संप्रदायका उसके मस्तिष्कमें पूज्यभावनाओंके साथ अटूट सम्बन्ध हो जाता है, और दूसरे (भौतिकवाद)का ‘घृणाकी भावनाओंके साथ।”

### ३. भौतिक-वादियोंका आदर्श

जिन लोगोंको नरपशु बनाकर यह गालियाँ सुनाई जाती थीं, उनका

---

❀फ्रेंच-क्रान्तिमें कमकर-जनताने ज्यादा अत्याचार या खून-खराबी की, अथवा सत्ता-धारियोंने, इसे यहाँ बतलानेकी जरूरत नहीं।

सबसे बड़ा अपराध दूसरा ही था; जिसे उस समाजके दो सरताज अपराधियों—मार्क्स और एन्गोल्स—के मुँहसे सुनिये ॥—

“इसे समझनेके लिये भारी चातुरीकी अवश्यकता नहीं है, कि भौतिकवादका साम्यवाद और समाजवादके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। भौतिकवादके सिद्धान्तोंसे (साबित है)—मनुष्यका मूलतः भला होना, बौद्धिक क्षमतामें समान होना; तजर्बा, आदत और शिशुवर्धनकी सर्व-शक्तिमत्ता; मनुष्यपर बाह्य परिस्थितियोंका प्रभाव, उद्योग-धंदेका भारी महत्त्व, (जीवनके) उपभोगोंका औचित्य आदि-आदि। यदि मनुष्य अपने सारे ज्ञान, प्रत्यक्ष आदिको इन्द्रिय-जगत्से तैयार करता है; तो इसका अर्थ यह है; कि व्यवहार-जगत्को इस तरह व्यवस्थापित किया जाय, जिसमें कि (मनुष्य) इस (जगत्)में (जो वस्तु) सच्चे अर्थोंमें मानवीय है, उसे अनुभव कर सके, तथा मानवके तौरपर स्वयं अनुभव करनेकी उसे आदत पड़ जाय।

“यदि (व्यापक अर्थमें) समझदारीवाला स्वार्थ ही सारे आचार (-नियमों)का मूल है, तो मनुष्यके वैयक्तिक स्वार्थोंको मानवीय स्वार्थोंसे एक कराना होगा। यदि मनुष्य भौतिक अर्थोंमें अ-स्वतंत्र है तो अपराधोंके लिये व्यक्तियोंको दण्ड न दे, समाज-विरोधी अपराधोंके प्रसव-स्थानोंको नष्टकर हर स्त्री-पुरुषको अपने जीवटको दिखलानेके लिये सामाजिक अवसर देना चाहिये। यदि मनुष्यका निर्माण परिस्थितियाँ करती हैं, तो परिस्थितियोंको मानवीय बनाना होगा। यदि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक है, तो वह अपने वास्तविक स्वभावको सिर्फ समाजमें ही विकसित कर सकता है; फिर तो उसके स्वभावकी, शक्तिकी नाम एक अकेले व्यक्तिकी शक्तिसे न कर समाजकी शक्तिसे करना चाहिये।

“ये और इसी तरहके विचार, प्रायः शब्दशः, सबसे पुराने फ्रेंच भौतिकवादियोंमें पाये जाते हैं।”

भौतिकवादके लिये रात-दिन गालियों कोई इतिहासमें पढ़नेकी ही बातें नहीं हैं। हमारे सामने ही भौतिकवादी सोवियत् देश और उसकी सरकारको कितनी गालियाँ पिछले २४ वर्षोंसे दी जाती थीं, यह हम सब जानते हैं—यद्यपि आज सोवियत् जनता और लालसेनाने अपनी कुर्बानियों, मृत्यु-निर्भयतासे बतला दिया है, कि भौतिकवादी किसीसे भी ज्यादा हँसी-हँसी मरना जानते हैं। फ्रांसके कमन्सिस्त अद्भुत आत्मोत्सर्गका एक महान् उदाहरण हर रोज पेश कर रहे हैं। आज ( मार्च, १९४२ ई०)से चन्द ही सप्ताह पहले हिटलरकी गोलीसे उड़ये गये फ्रेंच कमन्सिस्तों साथी गब्रील पेरीने मृत्युसे कुछ ही क्षण पहिले लिखा था :—

“मेरे मित्रोंको मालूम होना चाहिये कि मैं अपने उस आदर्शके प्रति ( अंत तक ) सच्चा रहा हूँ, जिसे कि अपने सारे जीवनमें मैंने ( अपने सामने ) रखा। मेरे देशवासी जानें कि मैं इसलिए मर रहा हूँ, जिसमें कि फ्रांस जीता रहे।” अंतिम बार मैं अपने हृदयको टटोल रहा हूँ। मैं वहाँ कोई पछतावा नहीं अनुभव करता। यदि मुझे फिर (जीवन-)आरंभ करना पड़े, तो फिर उसी पथका अनुसरण करूँगा। चंद मिनटोंमें मैं आनेवाली प्रभामयी उषाके लिये अपनी ( जीवनरूपी ) भेंट चढ़ाऊँगा।

\*पुराने यूनानी भौतिकवादी दार्शनिकों तथा सत्रहवीं अठारहवीं सदीके यूरोपीय भौतिकवादियों ( बेकन, हॉब्स, लॉक—अंग्रेज, कन्डि-लाक, कबानी, दा'लम्बर, लामेत्री, लाप्लास, दो'ल्व्वाख, दीदेरो, हेलवे-शिथो, दुप्वा, वोल्नी-फ्रेंच )के मतोंके बारेमें दर्शन-दिग्दर्शन पृष्ठ २६७-३२४को देखो।

†कमन्सिस्त दैनिक La Humanity (मानवता)के विदेश-विभागके संपादक। ‡रायटर लंदन ८ मार्च १९४२ ई०।

विदा, चिरंजीव फ्रांस !”

## ग. द्वंद्ववाद

द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मकवाद अंग्रेजी भाषाके डायलेक्टिक्स शब्दके अर्थमें इस्तेमाल होता है। यह शब्द भी यूनानी दियो-लोग शब्दसे आया है, जिसका अर्थ है द्वि-संवाद—दो आदमियोंका प्रश्नोत्तर। बुद्धके बहुतसे सूत्र प्रश्नोत्तरके रूपमें ही सुत्त-पिटकमें मिलते हैं, इसीलिये उन्हें “बुद्धका डायलाग” ❀ भी कहा गया है। उनसे पहले उपनिषद्में भी द्वि-संवादात्मक उपदेश बहुत हैं। यूनानके दार्शनिक सुक्रात (४६६-३६६ ई०पू०)ने भी अपने उपदेशोंके लिये यही ढंग स्वीकार किया था, और प्रश्नकर्ताके प्रश्नका जो उत्तर वह देना चाहता था, उसे प्रश्नोत्तर द्वारा स्वयं उसीके मुँहसे कहलवाता था। यह ढंग सुक्रातके बाद इतना पसंद आया कि उसके शिष्य अफलातूँ (४२७-३४७ ई०पू०-ने इसे “परम सत्य” तक पहुँचनेका साधन बतलाया। यदि “डायलेक्टिक्स”का प्रयोग सिर्फ द्विसंवादात्मक अर्थमें ही होता, तो हम भी इसी शब्दको इसके लिये इस्तेमाल करते; किन्तु डायलेक्टिक्सका दर्शनमें जिस अर्थमें प्रयोग होता है, वह डायलागका मुख्य नहीं, लाक्षणिक अर्थ है; और “वादे-वादे जायते तत्त्वबोधः” (वाद-वाद करते हुए तत्त्वबोध होता है)के अर्थमें ज्यादा आता है। आप एक बात कहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं; फिर हमारी और आपकी परस्पर विरोधी बातोंसे एक तीसरी बात तै पाती है—इस तरह जहाँ परस्पर विरोधी बातोंसे तीसरे तत्त्वकी उत्पत्ति होती है, उसे डायलेक्टिक्स कहते हैं, जिसे हिन्दीमें हम द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मकवाद कह सकते हैं; यद्यपि इसमें मूल यूनानी, शब्दका सर्फ पूर्वार्ध “दियो” (द्व) भर ही आता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रियामें जिस क्रमसे हम परिणाम या तत्त्वबोधपर पहुँचते हैं, उसे तीन सीढ़ियोंमें विभक्त किया जा सकता है—

❀ Dialogues of the Buddha

- (१) वाद—जीव भूत है ।  
 (२) प्रतिवाद—जीव भूत नहीं, बिल्कुल अलग चेतन तत्त्व है;  
 (३) संवाद—जीव न भूत है, न अलग तत्त्व है, बल्कि वह भूतके गुणात्मक परिवर्तनसे उत्पन्न एक नया तत्त्व है ।

### १. व्याख्या

उपरोक्त कथनपर ध्यान रखते हुए हम द्वन्द्ववादकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। भाषणमें द्वन्द्ववाद वह प्रक्रिया ( तरीका ) है, जिसमें दो परस्पर विरोधी मतोंके संघर्षके बाद हम सत्य तक पहुँचते हैं। प्रकृतिमें द्वन्द्ववादका अर्थ है अपने भीतरी विरोधी स्वभावोंके द्वन्द्वसे प्रकृतिका एक तीसरे रूपमें विकसित होना—हाइड्रोजनके प्राण पीड़क तथा आक्सीजनके प्राणदायक तत्त्वोंसे तीसरे तत्त्व-जलका निर्माण। विचार-क्षेत्रमें इस प्रक्रियाका अर्थ है, दो विरोधी विचारोंके द्वन्द्वसे तीसरे विचारपर पहुँचना। जैसे—

(१) वाद ( यांत्रिक भौतिकवादी )—जगत् भौतिक ( परमाणु- ) तत्त्वमय है, क्योंकि वही इन्द्रियगोचर, तथा इन्द्रियगोचर ज्ञानद्वारा सिद्ध है ।

(२) प्रतिवाद (विज्ञानवादी)—जगत् अभौतिक (विज्ञान-) तत्त्वमय है, क्योंकि भूतसे विलक्षण चेतना तत्त्व विज्ञानके माननेपर ही संभव है ।

(३) संवाद—जगत् द्वन्द्वात्मक भौतिक तत्त्वमय है, भौतिक होनेसे वादवाली बात आ जाती है, और द्वन्द्वात्मक होनेसे भूतमें नये गुणके उत्पादन करनेकी शक्ति, जिससे गुणात्मक परिवर्तन द्वारा चेतनाका पैदा होना बिल्कुल संभव है ।

इसीलिये एन्गोल्सका कहना है॥ —

### २. द्वन्द्वात्मक विधिकी विशेषता

“अतिभौतिक (अध्यात्म)—शास्त्रियोंके लिये वस्तुयें तथा उनकी

मानसिक झलक ( प्रतिबिंब) — विचार — अलग-अलग हैं; उनपर एकके बाद एक तथा एक दूसरेसे अलग करके विचार करना चाहिये; (क्योंकि) वही स्थिर, ठोस एक ही बार सदाके लिये देने बनाये शोधके विषय है ।...

“इसके विरुद्ध द्वन्द्ववाद वस्तुओं तथा उनके (मानस) प्रतिबिंबों — विचारों — को उनके वास्तविक संबंधों, उनकी... गति-आरम्भ, और अन्तके साथ हृदयंगम करता है ।... द्वन्द्ववाद जीवन और मृत्युकी असंख्य क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं, प्रगतिशील तथा प्रगति-विरोधी परिवर्तनों-पर बराबर ध्यान रखता है ।”

“किसी चीज और उसके विरोधी भागका विभाजन द्वन्द्ववादका सार है ।” ❀ प्रचलित तर्कशास्त्र और द्वन्द्ववादमें भारी अन्तर यह है, कि तर्कशास्त्र उसी वस्तुको अपने विचारका विषय बना सकता है, जो कि स्थिर, ठोस, एक ही बार सदाके लिये पकीपकाई मिल गई है । किन्तु, जगत् और उसकी वस्तुयें ऐसी नहीं हैं — गति और परिवर्तन उनकी नस-नसमें भरा है । रोज़मर्राके साधारण व्यवहारके लिये प्रचलित तर्क-शास्त्र काम दे सकता है, जैसे साधारण कामोंके लिये अंकगणित या बीजगणित; किन्तु जब हम चल-ग्रहों, चल-उपग्रहों, चल-सूर्य, चल-नक्षत्रोंकी दुनियामें पहुँचकर हिसाब लगाना चाहते हैं, तो स्थिर गणित अंकगणित, बीजगणित — वहाँ काम नहीं दे सकता, वहाँ चल-कलनकी जरूरत पड़ती है । इसी तरह सौर परिवारके भीतर न्यूटनके गुरुत्वाकर्षणसे हमारा काम बहुत कुछ चल जाता है, किन्तु सौर परिवारमें भी बारीक गणित तथा सौर परिवारके बाहरकी समस्याओंके हल करनेमें गुरुत्वाकर्षण काम नहीं दे सकता, वहाँ जरूरत होती है आइन्स्टाइनकी सापेक्षताके अनुसार विश्वकी वक्रताकी ।†

\*Materialism ( Lenin ) p. 321

†देखो “विश्वकी रूपरेखा” ( सापेक्षतावाद )

## ३. द्वन्द्ववादके सोलह सूत्र

संक्षेपमें “विरोधियोंकी एकता (समागम)”के सिद्धान्तको द्वन्द्ववाद कहते हैं। इसपर हम आगे सविशेष कहनेवाले हैं। द्वन्द्ववादके स्वरूपको समझानेके लिये लेनिन्ने १६ सूत्र रचे हैं, डेविड गेस्टकी छोटी व्याख्याके साथ हम उन्हें यहाँ देते हैं ❀—

हम आमपर विचार कर रहे हैं, इस विचारके लिये ‘साकार’ ( भौतिक ) आम चाहिये यह कहनेकी आवश्यकता नहीं; किन्तु आमका स्वरूप हजारों विशेषतायें रखता है, जिन विशेषताओंके साथ कि वह ‘सजीव’ विश्वका अंग बना हुआ है। आमपर विचार करते वक्त हम उसकी सारी विशेषताओंको एक साथ विचारका विषय नहीं बना सकते। आममें गोलाई-मुटाई, नरमपन-कड़ापन, पीला-हरापन, मिठास-खटास, मीठी सुगंध, तीखी सुगंध, कच्चापन-पकापन, सड़ापन... और इनके सैकड़ों प्रभेद पाये जाते हैं। निश्चय ही हम सोचते-वक्त आमकी इन सारी विशेषताओंपर एक ही समय नहीं विचार सकते; इसलिए हम एक समय आमकी किसी एक विशेषता—रंग, स्वाद या गंध—को बाकी विशेषताओंसे पृथक्कर उसे विचारका विषय बनाते हैं। यह सिर्फ सुभीतेके ख्यालसे किया जाता है। किन्तु, यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी विचार या चिन्तन असम्भव है, जब तक कि उसका विषय—वस्तु—न हो; और वस्तु अपनी हजारों विशेषताओंके साथ विश्वका अभिन्न अंश है; इसलिये द्वन्द्ववादी तरीकेसे सोचते वक्त हमें वस्तुओंको उसी रूपमें देखना चाहिये, जिसमें कि वह वस्तुतः है। इसीलिये लेनिन्का पहिला सूत्र—

१. प्रत्यवेक्षण ( के विषय )को ‘साकार’ ( वस्तुसत्, खुद वही वस्तु ) होना चाहिये, ( न कि उदाहरण या प्रतिनिधि होनेके लिये अयोग्य आकार )।

विचारकी पहिली अवस्थामें हम वस्तुको अपने दिमागमें विश्व—  
द्वंद्वतापूर्ण 'सजीव' विश्व—से अलग कर लेते हैं, जो कि वास्तविकता  
नहीं है। वास्तविकता लानेके लिये उस पृथक्कृत वस्तुको फिर उसके  
'घर'में रखना होगा, जिसमें कि वह फिर 'सजीव' विश्वका अंग बन  
जाये—गोया इस प्रकार हम पहिली अवस्था( पृथक्करण )का प्रतिषेध  
करते हैं, ऐसा किये बिना हम अध्यात्मवाद, विज्ञानवादकी मानसिक  
भूल-भुलैयोंसे बच नहीं सकते। इसीलिये, लेनिन्का दूसरा सूत्र—

२. हमें प्रत्येक वस्तुके दूसरी वस्तुओंके साथ अनेक प्रकारके  
जो सम्बन्ध हैं, उनके सारे योगफलपर विचार करना चाहिये।

प्रत्येक वस्तु यही नहीं कि विश्वव्यापी घटनाका एक अंश है;  
बल्कि वह स्वयं भी वस्तुतः एक घटना—अंतस्तम भागमें भी किसी  
तरहके स्थिर सारसे शून्य नित्य परिवर्तनशील प्रवाह—है; इसलिये  
उसके "स्वभाव"को उसकी प्रकृतिमें समाये रूपमें समझा जा सकता है;  
न कि उसे परिवर्तनके रूपसे अलग करके। अतएव, हमारे लिये  
विचारणीय हैं—

३. वस्तु या प्रतीयमान विश्वका\* विकास, उसकी अपनी  
गति, उसका अपना 'जीवन'।

किन्तु, यह विकास ऐसा नहीं है, जो कि हेतुके बिना 'दैवी चमत्कार'-  
की तरह अपने आप जारी हो गया हो; यह विकास सदा आन्तरिक द्वंद्व  
( विरोध ) तथा बाहरी संबंधों—जिनमें खुद द्वंद्व भी शामिल है—का  
परिणाम है। हम विकासकी व्याख्या उतनी ही कर सकते हैं; और  
बुद्धिसम्मत तरीकेसे उसे उतना ही समझ सकते हैं, जितने परिमाणमें  
कि हमने वस्तुके आन्तरिक द्वंद्वकी खोज की है। अतएव—

४. हमें वस्तुमें (उसकी) आन्तरिक विरोधी प्रवृत्तियों (तथा  
पहलुओं)की तलाश करनी चाहिये; उन्हें देखना चाहिये।

\*Phenomena.



५. वस्तु ( या आकार आदि )को विरोधोंके योग या एकताके तौर पर भी देखना चाहिये ।

६. हमें इन विरोधोंके संघर्ष या प्राकट्य तथा जो इन संघर्ष आदिके साथ टकराता है, उसका परीक्षण करना चाहिये ।

हर एक वस्तु अपने स्वरूपमें अनगिनत पेचीदगियोंसे भरी है । उसके बनानेवाले सारे पहलुओं और विशेषताओंकी गिनती नहीं की जा सकती । वह विश्वकी दूसरी वस्तुओंमेंसे प्रत्येकके साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके संबंध रखती है । उसका परिज्ञान हमें तभी हो सकता है, जब कि हम उसे इन भागोंमें विभक्त—(विश्लेषण)—करके देखें; और इन भागोंको उनके पारस्परिक संबंधके साथ संबद्ध ( सश्लेषण ) करके विचार करें । अतएव, वस्तुके यथार्थ ज्ञानके लिए ज़रूरी है—

७. विश्लेषण और संश्लेषणकी एकता, भिन्न-भिन्न भागोंमें तथा पूर्ण-योगमें विभाजन—इन भागोंको एक साथ जमा करना ।

८. प्रत्येक वस्तु ( या आकार आदि )के सम्बन्ध—विभिन्न ही नहीं, बल्कि साधारण, सामान्य ( संबंध भी ) । प्रत्येक वस्तु ( आकार, घटना आदि ) सभी दूसरी वस्तुओंसे सम्बद्ध है ।

९. सिर्फे विरोधोंकी एकता ( समागम ) ही नहीं, बल्कि सभी दूसरी स्व-विरोधी ( वस्तुओं )का प्रत्येक निश्चय, प्रत्येक गुण, प्रत्येक विशेषता, प्रत्येक पहलू, प्रत्येक स्वभावका भी ।

१०. नये पहलुओं, सम्बन्धों आदिके प्रकट होनेकी अपरिमित प्रक्रिया ।

११. मनुष्यों द्वारा वस्तुओं, आकारों, घटनाओं आदिके ज्ञानके गम्भीर होने—बाहरी रूपसे सार-रूप तथा कम गहराईसे अधिक गहराई तक पहुँचने—की अनगिनत प्रक्रियाएँ ।

१२. सह-भावसे कार्यकारण-सम्बन्ध ( हेतुता ) और जोड़

( सन्धि ) तथा एक-दूसरेकी निर्भरताके एक रूपसे दूसरे अधिक गहरे तथा अधिक बहुव्यापी ( साधारण ) रूपमें पहुँचनेकी अनगिनत प्रक्रियाएँ ।

विरोधोंके बीच होता यह संघर्ष विकासका कारण बनता है, तथा एक सीमापर पहुँचकर पूर्वके स्थिति-प्रवाहसे एक बिल्कुल क्रान्तिकारी-विच्छेद उपस्थित करता है, और पुरानेकी जगह एक नई वस्तु ( या गुण ) प्रकट होती है । इस प्रकट होनेकी विशेषता है, एक स्थितिसे बिल्कुल भिन्न स्थितिमें कूदना—शान्त प्रवाहका प्रवाहित होना नहीं, बल्कि पिछले प्रवाहका विच्छेदकर एक नये प्रवाहका उपस्थित होना । इस कूदानके स्वरूपको लेनिन्ने अपने शेष चार सूत्रोंमें बतलाया है—

१३. ( वस्तुकी ) निम्न अवस्थामें पाई जानेवाली कुछ विशेषताओं, गुणों आदिकी उच्च अवस्थामें आवृत्ति होना ।

१४. पुरानी ( अवस्था )की ओर दिखलावटी लौटना ( प्रतिषेधका प्रतिषेध ) ;

१५. ( बाहरी ) आकारका ( भीतर रहनेवाले ) सारके साथ संघर्ष तथा सारका आकारके साथ संघर्ष ।

१६. परिमाणका गुण तथा गुणका परिमाणके रूपमें परिणत होना ।

१५वें और १६वें सूत्रकी व्याख्या हैं । याद रखना चाहिये कि द्वंद्ववाद मार्क्सवादके ज्ञानका सिद्धान्त है—इसके द्वारा ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । सूत्रमें कई बातोंकी व्याख्या अपेक्षित है, जिसे हम आगे कहनेवाले हैं; इसलिये यहाँ कहनेकी जरूरत नहीं ।

#### ४. क्षणिकवाद

द्वंद्ववादके रूपका जो दिग्दर्शन ऊपर हुआ है, उससे स्पष्ट है, कि वह विश्व और उसकी वस्तुओं—वस्तु नहीं घटना—को परिवर्तनशील गतिशील प्रवाह मानता है । इसके समझनेके लिये आइये इन बातों-पर अलग-अलग विचार करें ।

(१) परिवर्तन—जिस वक्त मनुष्य भाषाका विकास कर रहा था— और उसमें काफी आगे तक पहुँच चुका था, उस वक्त द्वंद्ववाद पैदा नहीं हुआ था, जिसके कारण कुछ अपरिहार्य दोष हमारी भाषाओंमें रह गये हैं। हम विश्वको घटनाओंका प्रवाह न समझ, उसे वस्तुओंका समूह मानते हैं, उसीके अनुसार हम भाषामें गति-परिवर्तन-द्योतक क्रिया-पद “होता है” ( भवति ) न कहकर, “है” ( अस्ति ) कहते हैं। हमारी बहुत-सी दिक्कतें, गलतफहमियाँ दूर हो जायँ, यदि हम ‘अस्ति’का बायकाटकर हर जगह ‘भवति’का प्रयोग करें। हर ‘चीज’ ‘है’की अवस्थामें नहीं, बल्कि ‘होने’की अवस्थामें है। द्वंद्ववादका ‘है’से कोई संबंध नहीं, चाहे भाषाकी अनिवार्यतासे हमें उसका प्रयोग भले ही करना हो—वह सिर्फ ‘होना’से संबंध रखता है।

परिवर्तनशीलता ( क्षणिक )वादको अधिक विकसितकर उसे एक साइंसका रूप देनेका भारी श्रेय मार्क्सवादको बहुत हद तक जरूर है; किन्तु यह सिद्धान्त बहुत पुराना है। बुद्ध ( ५६३-४८८ ई० ) और उनके समकालीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लितु ( ५३५-४२५ ई० ) दोनों ही क्षणिकवाद ( अनित्यवाद )के महान् समर्थक थे। बौद्धोंका तो हर समय यह नारा रहा कि “जो है वह क्षणिक है” ❀ जो क्षणिक नहीं है वह है ही नहीं। हेराक्लितु कहता था, “(जगत्की) सृष्टि उसका नाश है, उसका नाश उसकी सृष्टि है; कोई चीज नहीं है, जिसके पास स्थायी गुण हो। संगीतका समन्वय निम्न और उच्च स्वरोका समागम— विरोधियोंका समागम—है। यह (क्षणिकता) एक ऐसा नियम है, जिसे न देवताओंने बनाया, न मनुष्योंने। यह सदासे रहा है और रहेगा।” बुद्ध और हेराक्लितुके क्षणिकवादी दर्शनपर हम अन्यत्रां कह चुके हैं।

हेगेल ( १७७०-१८३१ ई० ) यद्यपि विज्ञानवादी था; किन्तु वह असंग (४०० ई०)की भाँति मानता था कि विज्ञान स्थिर नहीं, क्षणिक

\* “यत् सत् तत् क्षणिकम्” देखो “दर्शन-दिग्दर्शन” पृष्ठ ५१०, ७२३, ७५७

है; इसीलिये उसे शंकराचार्यकी तरह मायावाद—रस्सीमें सॉपके भ्रमकी भाँति यह जगत् अपनेसे सर्वथा विलक्षण ब्रह्ममें भ्रम, मायामात्र हैं—का सहारा नहीं लेना पड़ा। हेगेलने पहलेसे चले आते विज्ञानवादमें परिवर्तनशीलता (द्वैतता)को मिलाकर उसे एक कदम आगे बढ़ाया। किन्तु पहले हीसे मौजूद असंगके द्वैतवादको “प्रच्छन्न बौद्ध” शंकराचार्यका स्थिर ब्रह्मवाद—मायावाद—का रूप देना, उनके प्रयत्नको प्रगतिकी ओर नहीं; बल्कि पतनकी ओर बतलाता है। मार्क्स-एन्गोल्सके वैज्ञानिक ( द्वैतात्मक ) भौतिकवादने हेगेलके द्वैतात्मकवादको काल्पनिक विज्ञानवादसे मुक्तकर उसे और आगे बढ़ाया।

एन्गोल्स परिवर्तन-शीलतावादके बारेमें ममभाते हुए कहते हैं—

“जब हम सारी प्रकृति या मानव-जातिके इतिहास या खास अपनी ही बौद्धिक ( मानसिक ) क्रियापर विचार, मनन करते हैं; तो सबसे पहले संबंधों, टक्करों, योगों-विभागोंकी न खतम होनेवाली उलझनोंका चित्र हमारे सामने आता है। इस ( चित्र )में पहले जो जहाँ जैसा था, ( दूसरे क्षण ) उसमेंका कुछ भी बच नहीं रहता व कुछ चल रहा ( गतिशील ) है, अस्तित्वमें आ रहा, और विलीन हो रहा है।

“अतएव पहले-पहल हम चित्रको संपूर्ण ( रूप )के तौरपर देखते हैं, उस वक्त उसके अलग-अलग अवयव कम या अधिक ( नज़रसे ) ओझल रहते हैं; हम ( वहाँ ) गति, परिवर्तन, संबंध देखते हैं, न कि ( ऐसी ) चीजें, जो कि गति या संबंध कराती हैं और ( परस्पर-) संबंध हैं।

“यह विचार, यद्यपि दृश्योंके चित्रके सामान्य स्वरूपको पूरे आकारके तौरपर ठीकसे प्रकट करता है; लेकिन वह तब तक चित्रको बनानेवाले विस्तार ( अंगोंमें )को समझानेके लिये पर्याप्त नहीं है; और

जब तक हम इन ( अंगों-विस्तारों )को नहीं समझते तब तक हमें सारे चित्रका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता । इन अंगोंको जाननेके लिये हमें उन्हें उनके प्राकृतिक या ऐतिहासिक संबंधसे अलग करना होगा; फिर प्रत्येककी—उसके स्वभाव, विशेष कारण, कार्य आदिके साथ—परीक्षा करनी होगी । प्राकृतिक ( भौतिक ) साइंस और ऐतिहासिक गवेषणाका यह मुख्य काम है ।

“लेकिन, ( साइंसके ) काम करनेके इस ढंगने हमारेमें यह आदत लगा दी है कि हम प्राकृतिक वस्तुओं तथा घटनाओंको पृथक्कर—विशाल सम्पूर्ण ( आकार )से उनके संबंधको हटाकर—देखते हैं; उन्हें हम गतिकी अवस्थामें नहीं, स्थितिकी अवस्थामें; परिवर्तनशील नहीं, स्थायी ( रूप )में; जीवन ( की अवस्था )में नहीं, बल्कि मृत्यु ( की अवस्था )में देखते हैं ।”

“इसके विरुद्ध द्वंद्ववाद वस्तुओं और उनके ( मानस- )चित्रोंको उनके आवश्यक संबंध, सहभाव, गति, आरम्भ और अन्त ( के रूप )में देखता है ।

“प्रकृति द्वंद्ववादका प्रमाण है ।” प्रकृति अतिभौतिक ( आध्यात्मिक ) रीतिसे नहीं, बल्कि द्वंद्ववात्मक रीतिसे ( अपना ) काम करती है । वह सदासे आवृत्ति करनेवाले चक्र ( युग )की सनातन अद्वैतता ( के रूप )में नहीं, बल्कि एक वास्तविक, ऐतिहासिक ( न दुहराये जानेवाले ) विकासके रूपमें काम करती है ।”

विश्व वस्तुओंका समूह नहीं, घटनाओंका समूह है; अर्थात् जिसे हम वस्तु कहते हैं, वह वस्तुतः परिवर्तनशील तरंग-प्रवाह है । एक पीपलके पत्तेको लीजिये । यह उस समय छोटे-छोटे कणोंका समूह जान पड़ता है; किन्तु यदि अणुवीक्षणकी सहायतासे लाखों गुना बढ़ाकर देखें, तो वे कण अपने समूहके भीतर निरन्तर बदलते दिखलाई पड़ेंगे ।

इस तरह हम नंगी आँखोंसे पत्तोंमें जिस स्थिरताको देखते हैं। सूक्ष्मतामें जानेपर उसे उसका अवयव स्वीकार नहीं कर सकते।

परिवर्तन विश्वके रोमरोममें है, प्राणि-अप्राणि सारा जगत् इस नियमसे जकड़ा हुआ है। विचार बदलते रहते हैं, राय बदलती रहती हैं, हमारी रुचि-अरुचि, हमारी सदाचारीय मूल्य आँकनेकी भावना, हमारी समझ, खुद हमारा स्वभाव भी बदलता रहता है। अपने वातावरणके कारण हम बदलते; नये बन रहे हैं; और हमारे प्रभावमें आकर वातावरण भी बदल रहा और नया बन रहा है। हम भी उसके लिये वातावरण हैं। विश्व स्वयं अपनेको बदलता, नया बनाता प्रकट करता है। उसका हर एक भाग गति कर रहा है। हर एक दृश्य वही नहीं है जो कि एक क्षण पहले था। कोयलेके एक टुकड़ेको हम जलाते हैं—वह अब कोयला नहीं, बल्कि धुआँ और प्रभास्वर ताप है। वह अब चमकता काला डेला नहीं है, बल्कि बिखरे हुए कण हैं, जो कि आकाशमें फैल रहे हैं। हर एक परिवर्तन पहले क्षण किसी वस्तु या वस्तु-समूहकी गतिके रूपमें दिखलाई देता है, जिस गतिके साथ उस वस्तुकी कुछ विशेषताएँ तथा दूसरी वस्तुओंके साथ उसके सम्बन्धमें भी तब्दीली हो रही है।

लेकिन, इस गतिको सीधे-सादे तौरसे देशमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाना नहीं समझना चाहिये; बल्कि जैसा एन्गोल्सने कहा है : “यह वास्तविक ऐतिहासिक (न दुहराया जानेवाला) विकास है।” विश्वमें घटित हो रहा, प्रत्येक परिवर्तन, एक नवीन भाव (वस्तु)को अस्तित्वमें लाता है। विश्व परिवर्तन-शील विश्व है। एक क्षणसे दूसरे क्षणमें भी वह वही (पहिले क्षणवाला ही) नहीं है। प्रत्येक सॉस, जो मैं अपने सेलमें इस वक्त ले रहा हूँ, वह सेलके वायु-मंडलके आक्सीजन, कार्बन आदिके परिमाणमें अन्तर पैदा कर रहा है। परिवर्तनशील विश्व कहनेका यह भी मतलब है कि उसके गुण भी बदल रहे हैं।

इस आमूल परिवर्तनमें सन्देह करनेकी जरूरत नहीं, जब कि हमें

मालूम है कि भौतिक तत्त्वोंके भीतर घुसनेपर हम जिन हाइड्रोजन आदि (६२) परमाणुओंपर पहुँचते हैं, उनमें रेडियो-क्रियावाले परमाणुओं स्वतः टूटकर बदलते हुए एकसे दूसरे तत्त्वमें परिणत होते रहते हैं। रेडियो क्रियावाले परमाणु—उनके नाभिकण—जो टूटते हैं, वह किसी बाहरी प्रहारके कारण नहीं, बल्कि अपने भीतरकी विरोधी शक्तियोंके समागमके ही कारण। स्यूट्रनसे गोला-बारी करके हालमें साइंस वेत्ताओंने परमाणुके आकार-गुण सबमें परिवर्तनकर हजारों तरहके नये रासायनिक मिश्रित तत्त्वोंको तैयार किया है।

सदृश उत्पत्ति—प्रकृतिके अन्तस्तममें परिवर्तन और भी क्रान्ति-कारी है, और भी आमूल है, यह तो मालूम हुआ। अब सवाल उठेगा कि ऐसा होनेपर हमें “यह वही है” का ख्याल क्यों होता है? यहाँ हमें लेनिन्के १३वें-१४वें सूत्रोंको फिर दुहराना पड़ेगा। परिवर्तनकी कुदान निम्न शर्तोंके साथ होती है—“निम्न अवस्थामें पाई जानेवाली कुछ विशेषताओं, गुणों आदिकी उच्च अवस्थामें आवृत्ति होनी, और पुरानी (अवस्था)की ओर दिखलावटी लौटना।” इसका अर्थ है कि हर एक नई उत्पत्ति पुरानेके सदृश होती है। इस सदृश-उत्पत्तिके कारण वैसा भ्रम होना आश्चर्यकी बात नहीं है।

(२) गति—“गतिके बिना भूत (भौतिक तत्त्व) रह नहीं सकता; कोई ऐसी गति नहीं जो कि भूत-गति नहीं है”, देमोक्रीतु, लुक्रेतिसे से लेकर मार्क्स, एन्गल्स, लेनिन् होते आज तक सारे भौतिकवादियोंका यही नारा रहा है। एन्गल्सने लिखा—†

“गति भूतके (अपने) अस्तित्व (रहने)का स्वरूप है। बिना गतिके भूत न कभी था, और न कभी रहेगा। (हम देखते हैं) —

\*प्लोमियम्, रडोन्, रेडियम्, अक्टोनीयम्, थोरियम् आदि। देखो, “विश्वकी रूपरेखा” (किताब महल)

† Anti-Duhring (1878) p. 71

विश्व-आकाशमें गति, नाना प्रकारके आकाशीय पिंडोंके ऊपर छोटे-छोटे पिंडोंकी यांत्रिक ( 'गुरुत्वाकर्षणवाली' ) गति ताप या विद्युत्-चुंबकीय तरंगों, रासायनिक मिश्रण और बिछुड़न या प्राणि-शरीरके रूपमें अणु-गुच्छकोंकी गति—किसी भी समय विश्वमें भूतका प्रत्येक परमाणु इन गति-प्रकारोंमेंसे एक या दूसरे रूपमें, अथवा एकाएक इन प्रकारोंमेंसे अनेक रूपोंमें होता है। सभी (तरहका) विश्राम, सभी साम्यावस्था सिर्फ सापेक्ष है, और उसे गतिके प्रकारोंमेंसे किसी एककी अपेक्षासे ही समझा जा सकता है।”

(३) विश्व विच्छेदयुक्त प्रवाह—परिवर्तनके बारेमें लिखते वक्त हम बतला आये हैं, कि किस तरह विश्व और उसके क्षुद्र परमाणुओं तकपर परिवर्तनका नियम लागू है। भौतिक तत्त्वके सूक्ष्मतम ज्ञात अंश एलेक्ट्रॉनोंको ले लीजिये। साइंसकी ताजा गवेषणाओंने सिद्ध किया है, कि वह कण-तरंग है—अर्थात् उसमें कण-जैसी एकदेशीयताके गुण भी हैं, और तरंग-जैसे प्रवाहके गुण भी; जिसका साफ अर्थ है कि वह सीमित—परिच्छिन्न—विच्छिन्न ( विच्छेदयुक्त ) प्रवाह है। द्वंद्ववाद इसी विच्छिन्नतामें तथा उसीके द्वारा होते विश्वका घटना-प्रवाह मानता है। विश्व और उसके पदार्थोंके प्रत्येक अभिनव रूप, अभिनव गुणके उत्पन्न होनेके साथ ही अतीत रूप, अतीत गुणसे विच्छेद हो जाता है। इसीलिए, द्वंद्ववाद सिर्फ प्रवाह कहकर ही नहीं ठहर जाता, बल्कि उसे विच्छिन्न प्रवाह भी कहता है। विच्छिन्न और प्रवाह दो परस्पर विरोधी बातोंको सुनकर घबड़ाना नहीं चाहिये। द्वंद्ववाद विरोधि-समागमवादका ही दूसरा नाम है। यदि सनातनी तर्कशास्त्रकी समझमें यह नहीं आता, तो उसे जंगलकी खाक छानने दीजिये। प्रकृति जब स्वयं इसका समर्थन करती है, तो तर्क बपुरा किस खेतकी मूली है।।

ॐदेखो “विश्वकी रूपरेखा” पृष्ठ ८६

†“यदिदं स्वयमर्थानां रोचते तत्र के वयम्”—प्रमाणवार्तिक



विच्छेदयुक्त प्रवाहके समझनेके लिये दो तरहकी गतियोंको लीजिये । सॉप सरकता है—हर स्थानको छूता जाता है. उसकी गति निरंतर प्रवाह है । और, मेंडककी कुदान ( मंडक प्लुति ) एक दूसरे ही तरहकी गति है, जिसमें मेंडक हर स्थानको छूता नहीं है, इस स्थानपर है, और फिर कूदकर पाँच हाथके स्थानसे कोई संपर्क रखे बिना नये स्थानपर आपड़ता है । जिस विच्छेदयुक्त प्रवाहके बारेमें हम कह रहे हैं, वह इसी तरहकी मेंडक-कुदान है । अंकगणितको हम इस तरहकी मेंडक-कुदानसे भरा देखते हैं । संख्याको एककी संख्यासे दोकी संख्यापर क्या हम सर्प-गतिसे जाते देखते हैं. या मेंडक-कुदानसे ? हर अंकपर यही बात है ! अंकमें हम जहाँ १, २, ३...का प्रवाह पाते हैं, वहाँ १ से दो. २ से तीन...के कुदान-विच्छेदको भी पाते हैं । यह साफ विच्छेद (कुदान) युक्त प्रवाह है ।

इस विरोधी-समागम—विच्छेदयुक्त प्रवाह—के न होनेपर प्रकृति 'निर्जीव' वैचित्र्यहीन होती । आजकल सिनेमाका बहुत प्रचार है । नागरिक. ग्रामीण सभी लीला चिटनीस और रेगुका देवीका अभिनयोंका आनंद लेते हैं । जानते हैं, सिनेमाके चल चित्र किस तरह रुपहले पर्दे-पर प्रतिबिंबित हो हमारे मनोरंजनके कारण बनते हैं । वहाँ भी कण-तरंग, विच्छेदयुक्त-प्रवाह मौजूद है । फिल्म सैकड़ों फीट लंबा पारदर्शक (काँच-सा) फीता है, जिसपर छोटी-छोटी चौकोर तसवीरें हैं । इन इंच-दो इंच लम्बी-चौड़ी चौकोर तसवीरोंको कागजपर लेकर यदि आप आतशी शीशे से देखें, तो वह चौखटीमें लगी 'निर्जीव' (गतिशून्य) तसवीरें हैं । किंतु, जब यह छोटे-छोटे तसवीर-मनकोंकी माला (कण-तरंग)के रूपमें एक-के बाद एक पर्दे परसे गुजरती हैं, तो उनको हम उस रूपमें देखते हैं, जिसे चल-चित्रपट कहते हैं । किन्तु, यहाँ एक बात और खयाल रखिये, यदि सिनेमाकी मशीन-जालटेनके मुंहसे गुजरते वक्त एक तसवीरको दूसरी तसवीरसे 'अविच्छिन्न' क्रमसे लगा दिया जाय, तो जानते हैं तसवीर आपको कैसी दिखलायेगी ?—बिलकुल अस्पष्ट, बिना फोकस् किये

कमरेसे खींची तसवीर अथवा साठ वर्षके बूढ़ेकी ऐनकको लगाकर चलनेवाले बालककी आँखोंसे देखी जानेवाली 'दुनिया'की तरह। इसी-लिये, सिनेमाकी चित्र-मालामें एक तसवीरको दूसरीसे विच्छेद करनेका इन्तिजाम किया गया है। इसी विच्छेदयुक्त चित्र-प्रवाहका चमत्कार है, जिसे कि हम सिनेमाकी चलती-फिरती तसवीरोंमें पाते हैं।

## घ. द्वंद्वात्मक ( वैज्ञानिक ) भौतिकवाद

भौतिकवादके कई भेद हैं, खासकर उसके ऐतिहासिक प्रवाहमें। एक पुराण भौतिकवाद था, चार्वाकको जिसका समर्थक बतलाया जाता है; और कहा जाता है कि वह सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाणको मानता था—गोया वह मनुष्यकी मस्तिष्क-शक्तिके इस्तेमालको ठीक नहीं मानता था। लेकिन, हम नहीं समझते, चार्वाक इतना बच्चोंका-सा दार्शनिक था। उसका प्रत्यक्ष प्रमाणपर जोर देनेका यही मतलब हो सकता है, कि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होनेवाला ज्ञान 'परमार्थ' सत् है, दूसरी तरह—कल्पना आदिके द्वारा अनुमान-उपमान-शब्द—से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, वह उतने ही अंशमें प्रामाणिक होंगे, जितने अंशमें कि उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाणकी सहायता प्राप्त है।—प्रत्यक्ष मूर्धाभिषिक्त प्रमाण है, दूसरे उसके चाकर हैं। चार्वाकके समय कुञ्जीपर चलनेवाली घड़ी अथवा वाष्प-चालित यंत्रोंका पता नहीं था। पीछे इन यंत्रोंके अस्तित्वमें आनेपर जो भौतिकवाद प्रचलित हुआ, उसे यांत्रिक भौतिकवाद कहते हैं।

(१) यांत्रिक भौतिकवाद—पुराण भौतिकवादमें 'किण्व' डालनेसे शराबके नशाकी उत्पत्तिकी भाँति भूतसे चेतनकी उत्पत्ति बतलाते थे। लेकिन, जब चाभी देकर हफ्तों नहीं, वर्षों चलनेवाली घड़ियाँ बनने लगीं, तो इसे लेकर दो तरहके दार्शनिक विचार पैदा हुए, जिनमें एक तो दे-कार्त-जैसे उन ईश्वरविश्वासियोंका गिरोह, जो कि विश्वको भारी

घटी-यंत्र और ईश्वरको चाभी लगानेवाला मानते थे । इस यांत्रिक ईश्वर-वादमें ऐसे विचार भी शामिल थे, जिनमें ईश्वरको प्रलय तकके लिये चाभी लगा आराम करते बतलाया गया था, और इसीलिये उनका कहना था, बीचमें सारी बातें प्राकृतिक नियमसे चलती हैं । दूसरा विचार यांत्रिक भौतिकवादियोंका था, जो बँड़ी, घड़ीसाज सबको भौतिक मानकर कहते थे, कि किसी ईश्वरको सृष्टिके आदिमें चाभी देने तथा प्रलय (क्यामत)-के समय नाश करनेकी जरूरत नहीं । सत्रहवीं-अठारहवीं सदीमें यंत्रके जो तरह-तरहके आविष्कार हुए थे, उनका प्रभाव भौतिकवादपर पड़ना जरूरी था । यांत्रिक भौतिकवादियोंके लिये मन और भूत एक ही चीज थी । इस अर्थमें नहीं कि प्रकृतिसे मन विकसित हुआ है, बल्कि दोनों अभिन्न हैं । गुणात्मक परिवर्तनसे—विच्छेदयुक्त प्रवाह द्वारा—किस तरह बिल्कुल नई वस्तु—घटना—पैदा होती है, इसे वह महत्व नहीं देते थे । उनके लिये जिस तरह घड़ी उसके पुर्जों का योग है; वैसे ही मन भी उसके बनानेवाले भौतिक तत्त्वोंका योग है । अठारहवीं सदीके यांत्रिक भौतिकवादके बारेमें एन्गोल्सने लिखा था\*—

“पिछली सदीका भौतिकवाद बहुत अधिक यांत्रिक था; क्योंकि उस समय सभी प्राकृतिक साइंसोंमें यंत्रशास्त्र और ( वहाँ भी वस्तुतः ठोस पार्थिव तथा आकाशीय पिंडोंका यंत्रशास्त्र—संक्षेपमें गुरुत्वाकर्षणका यंत्रशास्त्र एक निष्कर्षपर पहुँच पाया था ।...दे-कार्तोंके लिये जैसे पशु (जीव-रहित स्वयं वह यंत्र) था वैसे ही अठारहवीं सदीके भौतिकवादियोंके लिये मनुष्य एक यंत्र था । रसायन और प्राणि-संबंधी स्वभाव (जिन, घटनाओंमें, यह सच है—यंत्र-शास्त्रके नियम भी लागू हैं; किन्तु दूसरे उनसे उच्चतर नियमों द्वारा वे भी फेंक दिये जाते हैं)की घटनाओंमें

\*Ludwig Feuerbach p. 367

दि-कार्तों सिर्फ मनुष्यों और फरिश्तोंमें ही जीवत्माकी सत्ताका स्वीकार करता था, बाक़ी प्राणी उसके लिये जीव-रहित यंत्र थे ।

इस तरह सिर्फ यंत्र-शास्त्रके मानोंके प्रयोगका अभाव पुराने फ्रेंच भौतिक-वादकी एक खास कमी थी जो कि उस समयके लिये अनिवार्य भी थी।

“दूसरी खास कमी उस भौतिकवादकी इस बातमें थी कि वह विश्वको घटना-प्रवाह - ऐतिहासिक घटना-प्रवाहके तौरपर विकसित होते भूत ( भौतिक तत्त्व )—के तौरपर समझनेकी क्षमता न रखता था।\*\*\*वह समझता था कि प्रकृति निरन्तर गति कर रही है। किन्तु, उस समयके विचारके अनुसार यह गति सदासे एक वृत्तपर हो रही है, इसलिये उस स्थानसे कभी नहीं हटती, और फिर उन्हीं परिमाणोंको उत्पन्न करती है।”

फ्रांसीसी भौतिकवादी दो'ल-वाश् ( १७२३-८६ ई० )ने लिखा था—“हम ( भौतिकवादियों )को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, यदि कोई व्यक्ति पहिलेकी कल्पनाओंसे इन्कार करता है। यदि कोई बतलाता है कि प्रकृति अटल एवं सार्वत्रिक नियमोंके खास समूहके अनुसार काम करती है; यदि कोई विश्वास करता है कि मनुष्य, चौपाया, मछली, कीड़े, वृक्ष आदि जैसे आज हैं, वैसे ही सदासे रहते आये हैं और रहेंगे; यदि वह जोर देता है कि तारे नभ-मंडलमें अनन्तकाल तक जगमगाते रहेंगे।” यांत्रिक भौतिकवादकी यह यांत्रिक जड़ता ही थी, जिसने विज्ञानवादको आगे बढ़ानेमें काफी सहायता पहुँचाई; यद्यपि उसमें सबसे सहायक थी मध्य और उच्च वर्गके शिद्धिंतोंके दिमागकी क्रान्तिके नामसे उत्पन्न हुई परेशानी।

( २ ) वैज्ञानिक भौतिकवाद—द्वंद्ववादके बारेमें हमने बतलाया कि वह द्वंद्वसमागम, विच्छेद-युक्त प्रवाह और गुणात्मक परिवर्तनका सिद्धान्त है। भूत और भौतिकवादको भी हम बतला चुके, और यह भी कि यांत्रिक भौतिकवाद - अपने समयके लिये काफी प्रगतिशील रहते

‡D'Holbach. †Essays in History of Materialism ( by Plekhanov ) p. 13में उद्धृत।

भी—नई उलझनोंको अपने काठके हथियार द्वारा सुलझानेमें असमर्थ था। भौतिकवाद + द्वंद्ववाद = द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जिसे ही वैज्ञानिक भौतिकवाद कहते हैं, भौतिकवादका उच्चतम विकास है; और वह विश्वके सारे क्षेत्रपर एक-सा लागू होता है।

( i ) व्याख्या—वैज्ञानिक भौतिकवाद वह भौतिकवाद है, ( क ) जो अतिभौतिक ( आध्यात्मिक ) और विज्ञानवादी धारणाओंसे मुक्त है; ( ख ) जो कि प्राकृतिक जगत् ( जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है )को विकसित होते, स्वरूप-परिवर्तनके निरन्तर घटना-प्रवाहके रूपमें स्वीकार करता है; ( ग ) इसीलिये जो उसी तरहके विकास हो रहे तरीकेपर अपनी विचार-प्रक्रियाको चलाता है—वह सभी वस्तुओंको उनकी बहु-पार्श्वताके एक दूसरेसे भिन्न स्वरूपों. उनकी अनेकतामें एकता, और उनके विकास-संबंधी बाहरी-भीतरी परिणामांशों ( की दृष्टि )से देखना चाहता है।❀

साइंस-युगके आरम्भमें एक समय था जब कि दर्शन भी धर्मकी भाँति उपेक्षित था; किन्तु कांट, हेगेल-जैसे दार्शनिकोंने उसे बचानेकी कोशिश की। कान्टने प्रतिभा और प्रयोगकी सारी कसौटियोंको कुण्ठित करके, और हेगेलने साइंसके आधार द्वंद्वात्मकभूत ( भौतिक ) तत्त्वको ही द्वंद्वात्मक-विज्ञान नाम देकर अपने दर्शनके लिये साइंसकी सहायता प्राप्त की। इसमें शक नहीं कि कान्ट और हेगेलके प्रयत्नने दर्शनकी वह गत नहां बनने दी, जो कि धर्मकी हुई। और उसके बाद तो दर्शन यहाँ तक दावा करने लगा कि वह सब साइंसोंके ऊपर महासाइंस है; वैज्ञानिक भौतिकवाद अपनेको साइंसोंका निरंकुश शासक—महाराजा—नहीं समझता; उसकी इस विषयमें क्या राय है, इसे एन्गोल्सके शब्दोंमें सुनिये—†

\*Dialectics ( by T. A. Jackson ), p. 22.

†Socialism, pp. 39-40

( ii ) उद्देश्य —“आधुनिक [ वैज्ञानिक ] भौतिकवाद सारतः द्वंद्व-वादी है, और उसे उस प्रकारके ( दर्शन-विद्या )की कोई जरूरत नहीं जो कि महाराजाकी भोंति बाकी सभी साइंसोंकी भीड़पर ‘मेरा शासन है’ यह दिखलाना चाहता है । प्रत्येक खास साइंसके लिये वस्तुओंके बड़े समुदाय और वस्तु-संबंधी हमारे ज्ञानके बीच अपनी स्थितिको साफ करना जरूरी है, और जैसे ही वह यह कर लेता है, वैसे ही इस सारे समुदायके लिये उपयोगी एक खास साइंसकी जरूरत नहीं रहती । अब भी पहलेके सभी दर्शनोंमेंसे जो कुछ बच रहा है, वह है विचार और उसके नियमोंका साइंस-प्रचलित तर्कशास्त्र और द्वंद्ववाद । और बाकी सभी बातें इतिहास और भौतिक ( प्राकृतिक )...साइंसके अन्तर्गत हो गई हैं ।”

इस तरह साफ है, कि वैज्ञानिक भौतिकवाद अपनी वही स्थिति नहीं समझता, जो कि दूसरे दर्शन । पैसोंके लिये—दो-चार नहीं दो-चार हजार दो-चार लाखके लिये—जूआ-चोरी, रिश्वत, बेईमानी, बही-खातेका जाल ...सब कुछ करनेवाला शिक्षित धनिक-वर्ग तथा उसके पिट्ट जिस तरह रोटीकी बात करते ही नाक-भौ सिकोड़ सातवें आसमानपर बैठे देवताकी तरह बोल उठता है—मनुष्य रोटीसे नहीं जीता, रोटीका सवाल रखना मानवताका अपमान है; मनुष्यको “नेह नाना”, “सत्यं शिवं सुन्दरं”, “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते ।” ❀ ठीक इसी तरह दर्शन भी अपनेको सातवें आसमानका देवता समझ “राम यादशाहके हुक्मनामे” निकालता है, जो नितान्त परिहासास्पद है, इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं ।—और इसे दार्शनिकोंमें अधिक सोचने-समझनेकी शक्ति रखने-वाले बूझते हैं । इसीलिये तो वह भी पुराने समयमें ( और अब भी जब तब )—जैसे कणाद, गौतम, गज्जाली, रोशदने—और दुनियाकी

❀“यहाँ नाना नहीं है”, “सत्य, अच्छा, सुन्दर”, “उसी ब्रह्मका ज्ञान करो, इसका नहीं जिसकी कि ( पामर लोग ) उपासना करते हैं ।”

आँखमें धूल भोंकनेके लिये कान्ट और विलियम जेम्सने भी—धर्म और दर्शनके समन्वयकी कोशिश की थी, उसी तरह आज भी कुछ लोग दर्शन और साइंसका समन्वय करना चाहते हैं ।

इससे एक बात और साफ हो जाती है, कि मानवकी प्रगतिमें दर्शन धर्मके आगे आनेवाली स्थिति रखता है । इसलिये दुनियामें सभी जगह दर्शनको गाली देते देख भी धर्मको उसकी सहायता पानेके लिये अपना हाथ पसारना पड़ा । साइंस दर्शनसे भी आगेकी प्रगति है, इसलिये “लोग क्या कहेंगे”के खयालसे दर्शन चाहे साफ स्वीकार न करे; किन्तु वह भी साइंसका मुँह जोहता है । “राम बादशाहका हुक्मनामा” निकालनेसे दर्शन साइंसका महाराजा नहीं हो सकता । वैज्ञानिक भौतिकवाद अपनेको साइंसके ऊपर नहीं समझता और न साइंससे अलग । वह सभी साइंसों—ज्योतिष, भौतिकशास्त्र, रसायन, प्राणिशास्त्र ...के गवेषणीय विषय द्वंद्वात्मक भूतको आँखोंमें ओभल न होने देनेकी कोशिश करता है । इसकी वर्तमान अवस्थामें कितनी जरूरत है यह आप आसानीसे समझ सकते हैं, जब कि जिन्स और एडिग्टन जैसे साइंसदानोंको धर्म-दर्शन-राज तथा वर्तमान समाज-व्यवस्था-की चापलूसी करते हुये अपने पदको ठीकरो (“सर”...!)के मूल्य बँचते देखते हैं । वैज्ञानिक भौतिकवादकी आज अवश्यकता है, विचार-क्षेत्रमें इन प्रतिक्रियावादी विचारों ( दर्शनों )से लोहा लेनेके लिये । वस्तुतः, वैज्ञानिक-भौतिकवाद विज्ञानों ( साइंसों )का अधिनायकत्व है, जो कि कमकर-अधिनायकत्वकी भौति नीचेसे—भिन्न-भिन्न साइंसोंसे—शक्ति प्राप्त करता है । और जैसे कि एन्गोल्सने अभी कहा, जैसे ही साइंसोंको “आत्मचेतना” आ जायेगी, और नामधारी साइंसदानोंकी धाँधली तथा अनधिकार-चेष्टा खतम हो जायगी; वैसे ही यह अधिनायकत्व और विचार-क्षेत्रकी सर्कार भी सुख मुर्झा-मुर्दा हो जायगी, तथा जो काम वैज्ञानिक भौतिकवादके रूपमें आज संगठित हुआ है, उसे खुद साइंस अपने आप करने लगेंगे; इस प्रकार

राज्य-हीन वर्ग-हीन चेतनावान् कमूनिस्त समाजी जनताकी भोंति अपने भीतर वह किसी ऑलिवर लाज, ज़ीन्स और एडिंग्टन (रमनको भी ले लीजिये ) जैसे पुरान-पोषकको नहीं पैदा होने देगे ।

(iii) साइंसवेत्ता और वैज्ञानिक भौतिकवाद—उपरोक्त कथन सिर्फ़ ज़बानी जमा-खर्च नहीं है, इसे आप वैज्ञानिक भौतिकवादी सारी विचारधारामें पायेंगे । मैंने स्वयं जब इस पुस्तकको लिखना चाहा, तो तब तक कलम नहीं चलाई, जब तक कि वैज्ञानिक भौतिकवादके मूल आधार भौतिक साइंस और सामाजिक साइंसपर हिन्दीमें पुस्तकें—“विश्व की रूपरेखा” और “मानव समाज” पहिले नहीं तैयार कर लीं । इसकी ईमानदारीका सबसे बड़ा प्रमाण है, प्रयोगपर जोर देना; इसे हम अभी थोड़ा ठहरकर कहनेवाले हैं, किन्तु यहाँ इतना जान लेना चाहिये कि वैज्ञानिक भौतिकवाद किसी भी वाद, विचार, दिमागी कल्पनाको तब तक माननेकेलिये तैयार नहीं, जब तक कि प्रयोग—भौतिक विश्लेषण और परीक्षण—पर वह ठीक न उतरे; जैसा कि आजके वैज्ञानिक भौतिकवादके जीवित सर्वश्रेष्ठ विचारक स्तालिनका कहना है—“प्रयोग बिना वाद (सिद्धान्त) नपुंसक-बौध्द है, वाद बिना प्रयोग अंधा है ।”

वैज्ञानिक भौतिकवाद साइंस-वेत्ताओंके कितने कामका है यह तो इसके नाम—वैज्ञानिकों (साइंस-वेत्ताओं)के भौतिकवाद—से ही साफ़ है, किन्तु यदि इसमें साक्षीकी जरूरत है तो इंगलैंडके सर्वश्रेष्ठ साइंस-वेत्ताओंमें एक जे० बी० एम्०, हैल्डेनके शब्दोंको सुनिये—

“द्वन्द्वात्मक (वैज्ञानिक) भौतिकवादको आजकल अंग्रेज वैज्ञानिक विचारकोंमेंसे कुछ लोग इस्तेमाल करने लगे हैं । किन्तु दुर्भाग्यसे

---

\*Marxist Philosophy and the Sciences (by J. B. S. Haldane), p. 46.



उनके (सफल गवेषणोंमेंसे) कुछ उत्तम उदाहरणोंको यहाँ उद्धृत करना (अच्छा नहीं, क्योंकि, उससे उनकी नौकरी और वेतनपर खतरा हो सकता है।”

देखा, पूँजीवादी समाजके विचार-स्वातंत्र्यकी दिखलावटी ढोलके अंदर कितनी पोल है ! उसने साइंस-क्षेत्रके कमकरोंके सिरपर भी कच्चे धागेके सहारे नंगी तलवार लटका रखी है !!

(iv) भूतकी प्रधानता—“नेह नाना”वाले उपनिषद्के ऋषियों, तथा निर्विकार विशान(मन)-मयी (अभौतिक) दुनियाके ‘स्रष्टा’ अफलातूँको छोड़ दीजिये, उन्हें अत्याचारके भारसे दबी जाती दासोंकी पृथिवीकी भुलानेका वही रास्ता मालूम हुआ; किन्तु आधुनिक साइंस-युगके विचारक भी भौतिक जगत्को भुलवानेकी जी-तोड़ कोशिश करके जब बेहतर दुनिया बनानेके प्रयत्नमें बाधा डालते हैं, तो आश्चर्य और क्षोभ दोनोंकी सीमा नहीं रहती। शायद वह कह सकते हैं कि बेहतर दुनिया बनानेमें हम बाधा नहीं डालते; किन्तु “करनी-रहित कथनी” अपने और दूसरोंको धोखा देनेके सिवाय कुछ नहीं है। यदि उनके विचारमें भौतिक दुनियाका अस्तित्व ही नहीं है, तो सर राधाकृष्णन् हिन्दू विश्वविद्यालयकी व्यासगद्दीसे गीता या शंकराचार्यके अद्वैतवाद—मायावाद—को सुनाकर कुछ नौजवानोंके दिमागमें धर्मकी सड़ी लाशकी माला धारण करानेमें भले ही सफल हो सकते हैं, किन्तु उनसे यह आशा नहीं की जा सकती, कि वह उसी तरह नई दुनियाके निर्माण करनेमें प्राण-शरीर लगा सकेंगे, जितना कि वह तरुण लगा सकते हैं, जिनके लिये दुनिया माया, अनिर्वचनीय ब्रह्मकी छाया नहीं, बल्कि धह वस्तु-सत्य—हजारों पीढ़ियों और असंख्य मनुष्योंके दुःख-सुख, जीवन-मरणकी वास्तविक दुनिया—है। वह जमाना गया जब भौतिकवादियोंको दुराचारी “ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्”वादी स्वार्थी कहकर लोगोंको भड़काया जा सकता था। अब लोगोंकी आखें खुली हैं, और वह जानते हैं कि सबसे

पामर नरपशु दुराचारी मनुष्य मिलेंगे धर्माचार्यों और उनके इशारेपर गद्गद् हो नाचनेवाले सेठों, राजाओं, नवाबोंमें। स्वार्थके लिये जाति और देशको बँचनेवाले भी उसी वर्गमें ज्यादा मिलेंगे, जो कि “नेह नाना”का अनन्य भक्त है।

हाँ, लेकिन आजके दार्शनिकोंने पैतरा बदला है, वह मायावादकी जगह परिणामवादी विज्ञानवाद—दुनिया कल्पित नहीं, अभौतिकतत्त्व (विज्ञान या मन)का परिणाम (रूपान्तर) है—को मानते हैं; वह कहते हैं विश्वके भीतर मूलतत्त्व भूत नहीं, अ-भूत (विज्ञान, मन) है। लेकिन भूतके बिना मन (विज्ञान) कभी था, क्या यह कल्पना भी की जा सकती है—वैज्ञानिक विधिके अनुसार ? साइंस हमें बतलाता है कि मनके पैदा होनेसे पहिले अरबों वर्षों तक बिना मनके ही भूत (भौतिक-तत्त्व) मौजूद था। भूगर्भ-शास्त्री पृथिवीकी आयुको दो अरब वर्षसे ऊपर मानते हैं, आइये देखिये तो वहाँ मन कब उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पहिले यह प्रश्न उठ खड़ा होगा—मनको किसके भीतर मानते हैं। प्रभु ईसाके भक्तोंका फतवा था कि स्त्रियोंमें जीव नहीं है। खैर! यह चौदह-पंद्रह सौ वर्षोंकी पुरानी बात है; और बात बढ़नेपर जीव और आत्माकी बालकी खाल खींचनेका डर है। ईश्वरपुत्र-ईसाके परमभक्त दे-कार्त (१५६६-१६५० ई०)को लीजिये, उस मरे—प्रभु मसीह उसकी आत्माको शान्ति दें—अभी तीन सौ वर्ष मुश्किलसे हो पाये हैं—उसका कहना था; मनुष्य छोड़ बाकी सभी प्राणी—बानर और वनमानुष भी—चलते-फिरते यंत्र हैं। आधुनिक मानवका पता ४०, ५० हजार वर्षसे पहिले बिस्कुल नहीं लगता। यदि नेआन्डर्थल, जावी, चीनी पथराई हड्डियोंवाले मानवों अथवा मानवाभासोंको भी मान लें कि उनमें अफ-लादूँ और शंकराचार्य जैसा मन था, जो कि अपने भीतरसे इस ब्रह्मांडको मदारीकी थैलीकी तरहसे निकाल सकता था; तो भी हम १०लाख वर्ष तक ही पहुँचते हैं। यदि आप और आप्रह करते हैं, और आधुनिक पक्षियों

तककी मन प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि तोते मनुष्यकी तरह बोलते हैं—बोलते ही नहीं गुस्सा या खाना माँगनेके शब्दोंके अर्थसे भी कभी-कभी परिचित देखे जाते हैं—इसलिये उनके तुफैलसे सारी पक्षी जातिको यदि मनवाली माननेका आग्रह करते हैं, तो एवमस्तु; तब भी ५० लाख वर्षसे आप आगे नहीं पहुँचते—साथ ही यह भी ख्याल रखिये कि उस वक्तके पक्षी-तोतेका तो क्या आजके उल्लूके जूतेका तस्मा भी खोलनेकी योग्यता नहीं रखते थे। तब भी मनकी आयु ५० लाख वर्ष होगी, जब कि पृथिवी ( उसके मन-हीन भूत )की आयु २०,००० लाख वर्ष है। आप यदि सारे पुराण-पक्षी, पुराण-सरीसृप, अर्धजलचर, मछली, प्रथम रीढ़धारीसे भी आगे अ-रीढ़धारी प्रथम प्राणीको भी मन-वाला कहना चाहते हैं, तो हम उसके लिये भी तैयार हैं, यद्यपि इतना बतला देनेके साथ कि इन बेचारोंको अपने मनसे दुनिया बनानेकी साथ 'सात जन्म'में भी नहीं हो सकती थी; और जोंक, केंचुये जैसी अरीढ़धारी प्राणिजातिके प्रथम वंशज बेकूटीरिया और विरसू जैसोंको भूत और अ-भूत ( जड़-चेतन ) दोनों कहलानेका वैसा ही अधिकार था, जैसे चमगादड़को पशु और पक्षी दोनों कहलानेका। खैर, आपके इस दुराग्रह-के मान लेनेपर भी मनकी आयु सिर्फ ५०० लाख वर्ष होती है, जब कि पृथिवीमें मौजूद भूत उम्रमें उससे ४० गुना बूढ़ा है। इससे साफ साबित है, कि विश्वमें भूत ( भौतिक तत्त्व ) पहिलेसे मौजूद था, मन या विज्ञान पीछे आया। साइंसवेत्ता हैल्डेनके शब्दोंमें\*—

“चाहे, बाहरी प्रकृति (जगत्)के बारेमें हमारा ज्ञान (साक्षात् नहीं) परम्परसे (विषय-इन्द्रिय-मस्तिष्कके संपर्कसे प्राप्त वेदना द्वारा) ही क्यों न हो, किन्तु हम उसके बारेमें जितना जानते हैं, उसके सामने हमारा वेदनासंबंधी ज्ञान नगण्यसा है; क्योंकि इस (जगत्)के बारेमें जो ज्ञान हमें प्राप्त है, वह सामाजिक (सारे समाज द्वारा अर्जित) है।

\*Marxist Philosophy and Sciences, pp. 140-42

मैं अपने हाथको देखता हूँ, और जानता हूँ कि इसमें कितनी ही नस, पेशी, हड्डी, रुधिरविंदु...हैं। यह ज्ञान हजारों शरीर-शास्त्रियोंकी वेदनाओंपर आधारित है। मैं प्रत्येक केशके परमाणुओंकी स्थिति-व्यवस्थाको जानता हूँ (या कमसे कम स्थूल रूपसे जानता हूँ)। यह ज्ञान आस्टबरीकी वेदनासे प्राप्त हुआ है, जो कि एकम-रेके फोटो-चित्रोंकी परीक्षा करते वक्त उसे हुई। हजारों आदमियोंका समाजीकृत (सारे समाज द्वारा अर्जित) ज्ञान, चाहे वह (साक्षात् नहीं, वेदना-) परम्परासे ही प्राप्त क्यों न हो, उससे कहीं अधिक (प्रामाणिक) सूचना हमें देता है, जितना कि एक आदमीका वैयक्तिक ज्ञान। मुझे वास्तविक दुनियामें काम करना है। वे (विज्ञानवादी वेदान्ती) भी यदि पूर्णतया स्वार्थी नहीं हैं, तो, अपने विचारोंको अपने साथी (दूमरे मनुष्यों) तक भूत (भौतिकतत्त्वों)पर काम करते हुए लेखन या भाषण द्वारा पहुँचाते हैं। यदि आप (विज्ञानवादी) सचमुच विश्वास रखते हैं, कि आपने अपनी वेदनाओं द्वारा जगत्को बनाया है, तो आप (ऐसी विषम दुनिया बनाकर अपने ऊपर) बड़ी भारी जवाबदेही ले रहे हैं।.. तो भी मैं (जगत्के बनानेवाले) आपको नहीं कहता कि आप एक (दूसरी इससे) बेहतर दुनियाको बनायें; बल्कि मैं सिर्फ (इतना ही अर्ज करूँगा, कि आइये) इस सामने (मौजूद जगत्)को बदलनेमें हमारी सहायता कीजिये। मुझे विश्वास है, ऐसा (बदलनेकी सहायता) करनेमें [स्वार्थी वेदान्ती सत्ताधारियोंकी ओरसे] जिस विरोधका सामना आपको करना पड़ेगा, वह आपको पक्का विश्वास करा देगा, कि आपका मुकाबिला [मायासे नहीं बल्कि] वास्तविकता [ठोस जगत्]से हो रहा है।...

(v) वैज्ञानिक भौतिकवादके सामने काम - इसे मार्क्सने एक सूत्रमें कह दिया है—

दार्शनिकोंने भिन्न-भिन्न तरहसे जगत्की सिर्फ व्याख्या की है; किन्तु ( अब ) बात है, उस ( जगत् )के बदलनेकी ।”

भौतिकवादियोंको पिछले सत्ताईस सौ वर्षोंमें—याज्ञवल्क्यसे लेकर हिट्लर तक—जो गालियाँ सुननी पड़ी हैं, वह इसीलिये कि वह इस दरिद्रता और अन्यायसे भरी दुनियाकी गलत-सलत व्याख्या नहीं करना चाहते, बल्कि उसे बदलनेमें लग जाते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवाद वह दर्शन ( हमारी भाषामें प्रचलित शब्दके अनुसार ) है, जो कि बतलाता है—दुनियामें परिवर्तन होता है और कैसे वह परिवर्तन होता है। यही नहीं उस परिवर्तनमें मनुष्य होनेके नाते हमें हिस्सा भी लेना चाहिये। हमारी आँखोंके सामने दो प्रकारके भारी परिवर्तन घटित हो रहे हैं। एक परिवर्तन वह है जो कि साइस अपने आविष्कारोंसे उपस्थित कर रहा है।—रेल, तार, बिजली, हवाई-जहाज, रेडियो, सिनेमा जिस तरहके परिवर्तन को उपस्थित कर रहे हैं, वह मनुष्यकी अचिन्त्य क्षमताको बतला रहे हैं। राजघाट ( बनारस )के पुलके पास खड़े होकर देखिये तो इस पारसे उस पार मील भरके करीब लम्बे और भारी-भारी लोहेके गाटरोंसे बने उस विशाल पुलको, और फिर उसके पास खड़े किसी ३॥ हाथ लम्बे आदमीको देखिये। देखिये मनुष्यके जग-परिवर्तन करनेकी शक्तिको। यह विज्ञान(ब्रह्म)-वादियोंकी तरहकी शक्ति नहीं है, वैसी शक्तिवाले आगरे और काँके (राँची)में काफी मिलेंगे, किन्तु उन्होंने एक छल्लूँदर भी पैदा करके नहीं दिखाई। और जब ५०,००० और ६०,००० टन, ( १५,००,००० और १८,००,००० पंद्रह और अठारह लाख मन )के किसी क्वीनमेरी जहाजको आप देखते हैं, उस वक्त भी डेढ़ मन भारी आदमीकी परिवर्तन करनेकी शक्तिको समझ सकते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवादी मनुष्यके कोरे सपनानेपर नहीं, बल्कि वास्तविक परिवर्तनकी शक्तिपर विश्वास करते हैं, और जगत्को बेहतर रूपमें परिवर्तित करनेके लिये उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। सोवियत् मध्य-एशियामें कराकल्पकी हजारों

मील विस्तृत निर्जल निर्जन भूमि है। वहाँ छोटी-छोटी घास उगती थी, जिसके सहारे लाखों भेड़ें, घोड़े, ऊँट पाले जा सकते थे, किन्तु वहाँ पीनेका पानी नहीं था। जमीनके पेटमें पानी प्रचुर परिमाणमें था, किन्तु वह कास्पियन समुद्रके जलसे भी ज्यादा खारा (नमकवाला) था। नमक बेकार चीज नहीं, पानी बेकार चीज नहीं, घास बेकार चीज नहीं, क्योंकि उनकी सहायतासे अपार सम्पत्ति—नफा कमानेकी ही नहीं, मनुष्यके जीवनको सुखी और समृद्ध बनानेवाली—पैदा की जा सकती थी, किन्तु आदिकालसे करा-कल्पक पथिकके हृदयमें सिर्फ भारी भय संचार करनेका कारण बना रहा। जब सोवियतोंकी घोर भौतिकवादी सरकार कायम हुई, मनुष्यने जग-परिवर्तन करनेके लिये साइंसके हथियारको हाथमें लिया; तो कराकल्पककी उस मरुभूमिमें बड़े-बड़े थ्यूब-वेल लगाये गये, बड़े-बड़े जलाशय बनाये गये। जाड़ेमें पाँच-छै महीने तक इस करा (काले) रेगिस्तानमें पानी जम जाया करता है। उस समय थ्यूब-वेलसे पानी निकाल-निकालकर इन सीमेंट किये तालाबोंमें भरा जाता। सर्दियोंसे शुद्ध पानी बर्फ बन जाता और नमक नीचे तलछुटके तौरपर बैठ जाता। इन बर्फकी चट्टानोंको हजारों मनुष्य और मशीनें दूसरे महान् सरोवरों में डालते रहते हैं। गर्मी आनेपर बर्फ पिघलकर वहाँ शुद्ध जलकी अपार जलराशि जमा हो जाती। आज कराकल्पककी भूमिसे लाखों टन नमक निकलता है, करोड़ों करोड़ भेड़ें तथा दूसरे पशु मांस, ऊन, चमड़ा और दूध प्रदान कर रहे हैं। आज वहाँ बिजलीकी रोशनी, रेडियो, सिनेमा, पुस्तकालय, अस्पताल, होटल, रेस्तराँसे सुसज्जित शहर और कस्बे आबाद होते जा रहे हैं। मनुष्य जगत्के परिवर्तित करनेमें जोर-शोरसे लगा हुआ है।

मनुष्यने अपने सामाजिक (वैयक्तिक नहीं) प्रयत्नने मस्तिष्कको विकसित किया, साइंसको पैदा किया, अब उसकी सहायतासे वह जग-परिवर्तनको और तेजीसे कर रहा है। तो भी इस परिवर्तनके साथ खुद

समाजके परिवर्तनमें गति अत्यन्त मन्द रही है, लेकिन अब वह समझने लगा है, जग-परिवर्तन करते हुए अपने तथा अपने समाजको अछूता रखनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये, बल्कि दानको घरसे शुरू करना चाहिये। इसीलिये यहाँ “समाजवादकी जय”, इसीलिये यहाँ “साम्य-वादकी जय”, “इसीलिये यहाँ पूँजीवादकी क्षय” करनी है।

(vi) सत्य बनाया नहीं जाता—वैज्ञानिक भौतिकवाद घटना—प्रवाहवाली इस वास्तविक दुनियासे अलग सत्यकी दुनिया खोजनेकी गलती नहीं करता। दार्शनिक काफी ऐसे हैं और हुए हैं, जो इस भौतिक दुनियाके पीछे एक आत्मा, ब्रह्म, या मन (विज्ञान)की वास्तविक लोकोत्तर दुनियाके पानेका दावा करते हैं। ऐसा दावा करनेवालोंके बारे-में हम यही कह सकते हैं, कि उन्होंने वहाँ ‘सत्य’को पाया नहीं—पैदा किया। किन्तु ‘सत्य’ पाया जाता है, पैदा नहीं किया जाता है। इस विद्यमान दुनियासे इन्कारकर इस तरह सत्यका पैदा करना सिर्फ मनका लड्डू है, जिसे हाथमें लेकर परीक्षा नहीं कर सकते, जो किसीकी भूखको तृप्त नहीं कर सकता। हम जिसकी वैज्ञानिक परीक्षा नहीं कर सकते, वह सिर्फ मूढ विश्वासकी बात भर हो सकता है।

(vii) फ्वेरबाखपर ग्यारह सूत्र—हेगेलके द्वंद्ववादको मार्क्स तक पहुँचानेमें लुडविग् फ्वेरबाख ( १८०४-७२ ई० )का खास हाथ है। फ्वेरबाखने “ईसाइयत-सार”<sup>१</sup> नामसे एक बहुत ही विचारपूर्ण पुस्तक लिखी थी,<sup>२</sup> जिसे पढ़नेके बाद मार्क्स ( १८१८-८३ ई० )ने १८४५ ई०-में एक नोटबुकमें ग्यारह बातें नोट कर दी थीं। मार्क्सकी मृत्युके बाद १८८८ ई०में एन्गल्स जब मार्क्सके कागजोंकी देखभाल कर रहे थे, तो उन्हें ये नोट मिले, जो “फ्वेरबाखपर नोट”<sup>३</sup> के नामसे

\*Essence of Christianity.

<sup>१</sup>देखिये “दर्शन-दिग्दर्शन” पृष्ठ ३४५

<sup>३</sup>Thesis on Feuerbach.

मशहूर हैं। वैज्ञानिक भौतिकवादके समझनेके लिये तरुण ( २७ वर्ष ) मार्क्सके ये सूत्र बहुत सहायक साबित हुये हैं।—

१. अब तक विद्यमान हर एक भौतिकवाद— जिसमें फ़वेरबाख़का भी शामिल है—में प्रधान दोष यह है, कि ( उनमें ) विषय [बाह्य पदार्थ], वास्तविकता, इन्द्रियगोचरताको मानुषिक इन्द्रियगोचरीय क्रिया, प्रयोगके तौरपर नहीं, मानसिक तौरपर नहीं, बल्कि सिर्फे विषय या चिंतनके तौरपर ही ग्रहण किया जाता था। इस तरह भौतिकवादके विरोधमें विज्ञानवादने क्रियावाले पहलूको विकसित करनेका मौका पाया; किन्तु [हाँ] निराकार रूपमें ही, क्योंकि विज्ञानवाद किसी वास्तविक इन्द्रियगोचरीय क्रियाको स्वीकार नहीं करता। फ़वेरबाख़ विचारके विषयों [मानसिक कल्पना-चित्रों]से वस्तुतः भिन्नता रखनेवाले इन्द्रियगोचर विषयोंको स्वीकार करता है; किन्तु वह स्वयं मनुष्यकी क्रियाको विषयों ( बाह्य पदार्थों )के द्वारा होनेवाली क्रियाके तौरपर ख्यालमें नहीं लाता। इसीका परिणाम है, जो कि “ईसाइयत-सार”में सैद्धान्तिक मनोभावको ही वह एकमात्र शुद्ध मानवीय मनोभाव समझता है; और प्रयोगको वह सिर्फ उस [मानवीय मनोभाव]की दिखलावटी गंदी ‘म्लेच्छ’-मूर्ति मानता और निश्चित करता है, इसीलिये वह व्यवहार-गाम्भीर्य-समन्वित क्रान्तिकारी क्रिया [ प्रयोग ]के महत्त्वको समझ नहीं पाता।

२. साकार सत्य क्या मनुष्यकी समझ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यह प्रश्न सैद्धान्तिक नहीं व्यावहारिक प्रश्न है। सत्य—अपने सोचनेकी वास्तविकता, शक्ति, ‘इस-ओर-पन’—को प्रयोग [क्रिया]में मनुष्यको सिद्ध करना होगा। प्रयोग [ क्रिया ] से रहित चिन्तनकी वास्तविकता या अवास्तविकताके बारेमें



विवाद करना सिर्फ मतवादोंवाला सवाल [है, अतएव व्यर्थ ] है ।

३. मनुष्य परिस्थितियों और [ पारिवारिक ] पालन-पोषणकी उपज है; इसीलिये परिवर्तित मनुष्य [किन्हीं] और परिस्थितियों तथा परिवर्तित पालन-पोषणकी उपज हैं । — भौतिकवादी सिद्धान्त यह भूल जाता है कि परिस्थितियाँ भी उसी तरह मनुष्य द्वारा बदली जाती हैं, और शिक्षकको स्वयं शिक्षा प्राप्त करनी होती है । इसलिये इस सिद्धान्तको समाजको दो हिस्सोंमें बाँटनेकी बातपर आना पड़ता है जिनमेंसे एक ( राबर्ट ओवेनके रूपमें ) समाजके ऊपर आसन लगाता है ।

परिस्थितियों और मानवीय क्रियाओंके परिवर्तनको एक ही साथ ( लानेकी बात ) क्रान्तिकारक प्रयोगके तौरपर ही माना और बौद्धिक तौरसे समझा जा सकता है ।

४. फ़वेरबाख् मजहबी आत्म-बहिष्कार—दुनियाको दो मजहबी काल्पनिक तथा वास्तविक दुनियाओंमें बाँटना—को लेकर शुरू करता है । मजहबी दुनियाको उसके संसारी उपादानमें विलीन करना फ़वेरबाख्का काम है । उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि यह कर चुकनेपर भी मुख्य बात करनेको रह जाती है; क्योंकि सांसारिक उपादान अपनेको अपनेसे ऊपर उठा एक स्वतन्त्र लोकके तौरपर स्थापित करता है; [ फ़वेरबाख्ने जो यह ईसाई स्वर्गकी व्याख्या की है ] उसकी यह व्याख्या इस सांसारिक उपादानके आत्म-भेद ( अपनी फूट ) और आत्म-विरोधिता द्वारा ही की जा सकती है । इसलिये सांसारिक उपादान [ईसाईस्वर्गसे भिन्न यह हमारी ठोस दुनिया]को ही सबसे पहले उसके [ आन्तरिक ] विरोधके रूपमें समझना होगा, और तब विरोधको हटाकर प्रयोगमें उसे आमूल परिवर्तित करना होगा । इस तरह,

उदाहरणार्थ एक बार जहाँ पता लग गया कि ( पवित्र सन्त-परिवारके भीतर ) सांसारिक परिवार (का ख्याल) छिपा हुआ है, तो खुद सांसारिक परिवारका ही सैद्धान्तिक (शास्त्रीय) तौरसे खंडन और प्रयोग द्वारा मौलिक परिवर्तन करना चाहिये।

५. फवेरबाख् निराकार चिन्तनसे सन्तुष्ट न हो, इन्द्रियगोचरतायुक्त चिन्तनमें प्रवृत्त होना चाहता है; किन्तु इन्द्रियगोचरताको वह एक व्यावहारिक [प्रयोग-लायक] मानवीय इन्द्रियगोचरतायुक्त क्रिया नहीं ख्याल करता।

६. फवेरबाख् मज्जहबको उसके मानवीय सारमें लेता है। किन्तु, यह मानवीय सार एक-एक व्यक्तिमें सदा पाई जानेवाली निराकार-कल्पना नहीं है। तहमें पहुँचनेपर वह सामाजिक संबंधोंका पुंज [ मुरब्बा ] है।

फवेरबाख् इस वास्तविक सारको खंडन करनेका प्रयत्न नहीं करता; इसीलिये वह [निम्न बातोंके लिये मजबूर है]—

( १ ) ऐतिहासिक घटना-प्रवाहसे निकालकर धार्मिक भावनाको अपने लिये खास चीजके तौरपर स्थिर करना, और एक निराकार—अलग-थलग—मानवीय व्यक्तिको पहलेसे मान लेना।

( २ ) अतएव मानवीय सार, फवेरबाख्के मतसे, केवल [न्यायशास्त्रकी] जाति—[जिसका काम है, मूक [निष्क्रिया] आन्तरिक समानता [गायपन]के तौरपर, बहुतसे व्यक्तियों [गाय-शरीरों]को स्वभावतः मिलाना—के तौरपर समझा जा सकता है।

७. इसीलिये फवेरबाख्को नहीं सूझ पड़ता, कि 'धार्मिक भावना' खुद एक सामाजिक उपज है। जिस निराकार व्यक्तिका

उसने [ अपने ग्रन्थमें ] विश्लेषण किया है, वह वस्तुतः एक खास प्रकारके समाजका [ व्यक्ति ] है।

८. सामाजिक जीवन सारतः व्यावहारिक [ प्रयोगात्मक ] है। सभी [ दिव्य- ] रहस्य—जो सिद्धान्तको रहस्यवादकी ओर भगा ले जाते हैं—मानवीय व्यवहार [ प्रयोग ] तथा उस व्यवहारके समझनेसे बौद्धिक तौरपर हल हो जाते हैं।

९. चिन्तनमूलक भौतिकवादके द्वारा सबसे बड़ी बात जो मिली है, वह 'नागरिक समाज'में अकेले व्यक्तियोंका दृष्टिकोण है।

१०. प्राचीन भौतिकवादका दृष्टिविन्दु 'नागरिक समाज' है, नवीन [ भौतिकवाद ]का दृष्टिविन्दु है मानवतायुक्त समाज या समाजवाद-युक्त मानवता।

११. दार्शनिकोंने भिन्न-भिन्न तरीकेसे जगत्की सिर्फ व्याख्या की है, और अब बात है उसके बदलनेकी।

फ़ेरेबाख़्त्सने जो ये ग्यारह सूत्र लिखे हैं वह बिना भाष्य और विवरणके समझमें आना इसलिये भी मुश्किल है; क्योंकि उनमें हर जगह फ़ेरेबाख़्त्सकी 'मास्टर-पीस' ( श्रेष्ठ कृति ) ईसाइयत-सारकी ओर संकेत है। भाष्य-विवरणकी जरूरत समझते हुए भी मैं उस लोभका संवरण करना चाहता हूँ; क्योंकि पुस्तकके विस्तारका ख्याल जरूर रखना है और साथ ही फ़ेरेबाख़्त्स और उसके 'ईसाइयत-सार'-पर मैं 'दर्शन-दिग्दर्शन'में लिख चुका हूँ। यहाँ, पाठक यदि सिर्फ़ इतना मनमें रखें, तो कुछ काम चल जायगा, कि फ़ेरेबाख़्त्सने ईसा मसीह, पवित्रात्मा, पिता-ईश्वर, परलोक ( स्वर्ग-नर्क ), फरिश्ता आदि सभी ईसाई कल्पनाओंका आधार इसी हमारे चातुर्भौतिक जगत्को माना है, और ईसाइयतकी अलौकिकतापर भारी प्रहार किया है। मार्क्सने फ़ेरेबाख़्त्सको कुछ बातोंमें और आगे न बढ़नेके लिये फटकारा भी है

तो भी प्रवेरबाख्के महत्त्वको वह कम नहीं मानता । फवेरबाख् कहता है—

“धर्म मनुष्यको अपने आपसे अलग कराता है; ( इसके कारण ) वह ( मनुष्य ) अपने, सामने, अपने प्रतिवादीके तौरपर, ईश्वरको ला रखता है । ईश्वर वह है, जो कि मनुष्य नहीं है—मनुष्य वह है, जो कि ईश्वर नहीं है । ईश्वर और मनुष्य दो विरोधी छोर हैं; ईश्वर पूर्णतया भावरूप, वास्तविकताओंका योग है; मनुष्य पूर्णतया अभावरूप (अकिंचन) सभी अभावोंका योग है ।” ❀

### ३. परिवर्तनकी घटना-शृङ्खला

जगत्के परिवर्तनकी व्याख्या जगत्से करना, वैज्ञानिक भौतिकवादका सबसे मुख्य काम है, यह अब तककी लिखी पंक्तियोंसे स्पष्ट हो गया होगा । अब यह बतलाना है कि परिवर्तन—आमूल परिवर्तन—किन अवस्थाओं, सीढ़ियोंसे गुजरता है । यह सीढ़ियाँ वैज्ञानिक भौतिकवादकी त्रिपुटी हैं—

(१) विरोधि-समागम, (२) गुणात्मक परिवर्तन और (३) प्रतिषेधका प्रतिषेध । वस्तुके उदरमें विरोधी प्रवृत्तियाँ जमा होती हैं, इससे परिवर्तनके लिये सबसे आवश्यक चीज़—गति—पैदा होती है । फिर हेगेलके द्वन्द्ववादी प्रक्रियाके वाद और प्रतिवादके संघर्षसे संवाद रूपमें नया गुण पैदा होता है, इसे दूसरी सीढ़ी गुणात्मक-परिवर्तन कहते हैं । पहले जो वाद था, उसको भी उसकी पूर्वगामी कड़ीसे मिलानेपर वह किसीका प्रतिषेध करनेवाला संवाद था, अब गुणात्मक-परिवर्तन—आमूल परिवर्तन—जबसे उसका प्रतिषेध हुआ, तो यह प्रतिषेधका प्रतिषेध है ।

#### (१) विरोधि-समागम—

दो या अधिक एक दूसरेसे गुण और स्वभावमें विरोधी वस्तुओंका समागम दुनियामें पाया जाता है, यह बात हर एक आदमीको जब-तब

नज़र आती है। किन्तु, उसे देखकर यह ख्याल नहीं आता कि एक बार इस विरोधि-समागमको मान लेनेपर फिर विश्वके संचालक ईश्वरकी जरूरत नहीं रहती, न किसी अभौतिक रहस्यमय दिव्य-नियमकी अवश्यकता। त्रिंश्वके रोम-रोममें गति है, दे-कार्तने (अरस्तू, उदयन और गज़ालीने भी) कहा कि गतिका स्रोत ईश्वर है। दो परस्पर-विरोधी शक्तियों (वस्तुओं, घटना-प्रवाहों)का मिलना ही गति पैदा करनेके लिये पर्याप्त है। गतिका नाम विकास है—या लेनिन्के शब्दोंमें कहिये—“विकास विरोधियोंके संघर्ष (का नाम) है।” ❀ विरोधी जब मिलेंगे तो संघर्ष जरूर होगा, और, संघर्ष नये स्वरूप, नई गति, नई परिस्थिति अर्थात् विकासको जरूर पैदा करेगा, यह बात साफ है। अंटाघरमें विलियार्ड खेलनेवाले देखते हैं : मेज़पर दो विरोधी दिशाओंकी ओर गति रखनेवाले गेंद चल रहे हैं। यदि उनकी गति विरोधी न हो, तो उनका मिलन न होगा। यदि विरोधी गति होनेसे एक एक तरफसे आता है, दूसरा दूसरी तरफसे, तो दोनों विरोधियोंका समागम होता है—यह विरोधके समागम पैदा करनेमें हेतु होनेका दृष्टान्त है। किन्तु, मामला यहीं खतम नहीं हो जाता। दो विरोधी गेंदों (अंटों)का जब समागम होता है, तो उनके गुणोंमें भी परिवर्तन हो जाता है : एक अंटा पूर्व को जा रहा था, दूसरा उत्तरको; दोनों मिलते—टकराते—हैं, अब उनके वेग (गति)की दिशा पूर्व या उत्तरकी ओर न रहकर नई दिशामें होती है, यह वेगका गुणात्मक परिवर्तन (दिशात्मक परिवर्तन) है। खैर, इसे आगेके लिये छोड़िये। यहाँ यह तो स्पष्ट है कि विरोध शक्ति या क्रियाका नाम है, जो विरोधीके स्वभावमें है। उस क्रियाके होनेपर समागम होना, और समागमसे नये गुण, नये स्वभावका पैदा होना अनिवार्य है।

( १ ) व्याख्या—अफलातूँ बहस करता था—हमारी कुर्सीका काठ कड़ा है, कड़ा न होता तो हमारे बोझको कैसे सहारता ?

और काठ नर्म है, यदि नर्म न होता, तो कुल्हाड़ा उसे काट कैसे सकता ? इसलिये, काठ कड़ा और नर्म दोनों है—भूत ( भौतिकतत्त्व ) परस्पर विरोधी पदार्थ है । अफलातूँ ठीक स्थानपर पहुँच गया था, निशाना ठीक लगा था; किन्तु वह बहक गया । उसने सत्यपर पहुँचनेके लिये प्रकृति ( प्रयोग )को छोड़, कल्पनापर अधिकतर आधारित तर्क-शास्त्रको अपना पथ-प्रदर्शक बनाया । और परिणाम ? दो विरोधी गुणोंका एक जगह होना असम्भव है, इसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती; इसलिये यह कड़ापन, यह नर्मपन और स्वयं यह भूत ही अ-सत्य—सत्ता न रखनेवाला—है; जो सत्ता है, वह इससे परे है, जिसे हमारी पथ-प्रदर्शिका कृपामयी बुद्धि दिखलाती है । उसका ख्याल इधर नहीं गया, कि आप चले थे वस्तु ( कुर्सी )की परीक्षा करने—कुर्सी क्या है ? कुर्सी बेचारी जैसी है (कड़ी + नरम) वैसा रूप दिखलाती है । आपको कुर्सी-की ईमानदारीपर विश्वास रखना चाहिये था; क्योंकि उसने आपके मन-को लुभानेके लिये ( बुद्धि-संगत बननेके लिये ) बड़ा-चढ़ाकर नहीं कहा; बल्कि एक तरह अपनी हीनता—दोष—को दिखलाया । लोग बाजारमें सिर्फ नफा कमानेके लिये बैठे हुए बनियेकी भी इस तरहकी बातपर ज्यादा विश्वास करते हैं; फिर वहाँ कुर्सी बेचारी आपसे नफा खानेके लिये भी बैठी नहीं है ।

कुर्सीक्या है यह आप जानना चाहते थे। कुर्सी जो है, उसे उसने प्रकट किया । उसकी बातको इन्कारकर जो आप तर्क (कोरी बुद्धि या कल्पना)-के फेरमें पड़कर यह कहते हुए लौट रहे हैं “यह गलत कहती है—यह है ही नहीं !!” गलत कहती है—कहती है !! और है नहीं तो भी कहती है !!! बाहरे बाँझके पुत्रके ब्याह रचानेवाले !! आपके ऐसा पारखी यदि अपने ६ फीट लंबे दो मन भारी शरीरको सूक्ष्मकर इंचके दस करोड़वें हिस्सेके बराबर लम्बे-चौड़े तथातोलाके ५ लाख-लाख-अरबवें भागके बराबर भारी हाइड्रोजन परमाणुके भीतर घुस पाता, और वहाँ वह नाभिमें

अवस्थित १/१० करोड़-करोड़ इंचके १/१२.५ हजार-लाख-लाख-लाख तोला भारी कण (प्रोटन)के गिर्द उससे काफी फासिलेसे १/१५ लाख-लाख इंचके १/६२.५ लाख-लाख-लाख-लाख तोला भारी दूसरे कण (एलेक्ट्रॉन)को बड़ी तेजीसे घूमते देखता। शायद किसी “मानव-बस्ती”से बहुत दूर इस सूनसान बयाबानमें इस नृत्यको देखकर प्रसन्नता होती—

आखिर अफलातूँ भी प्रकृतिकी मनोहारिणी छुटाका आनंद कभी-कभी लेता जरूर रहा होगा। ( माना सुक्रात जैसे मनीषी निरपराध महापुरुषके मारे जाने, तथा अपने सामन्त-परिवारको अधिकारच्युतकर उनका स्थान लेनेवाले अथेन्सके बनिया शासकोंके उस अत्याचारके कारण उसका मन दुनियासे बहुत छोटा हो गया था, तो भी यौवनमें प्रकृतस्थ रहते समय सामन्त-परिवारकी सुन्दरी अथेन्स-नागरी अपनी पत्नीके अधरों-को उसने कभी मधुर तो जरूर पाया होगा)। हाँ, यदि नृत्यसे “आँखों”-को तृप्तकर जैसे ही अफलातूँ उन दोनों कणोंके पास पहुँचता, देखता कि बाहरवाला कण ( एलेक्ट्रॉन ) बड़े जोरसे उसे धक्का दे रहा है। शायद अफलातूँ जैसा तत्त्वपरीक्षक इसे बुरा न मानता, समझ लेता—

अभी अथेन्सके नागरिकोंकी भौतियह शिष्टाचार-निपुण नहीं हुआ है, या उपनिषद्की “अतिथि देवो भव”ॐ ( आगन्तुकको अपना न बना आगन्तुक ही रख घरबार उसे हाथमें सौंप दो )की शिक्षा न पा, ब्राह्मणके अदर्शनसे अभी वह म्लेच्छ ही रह गया है। किन्तु यदि किसी तरह वह भीतरवाले कण ( प्रोटन )के पास पहुँच पाता, तो अंधे धृतराष्ट्रके लौह-भीमके आलिङ्गनवाला तजर्बा अपने सिर पड़ता।—और मालूम होता वह तो ऐसा आलिङ्गन ( आकर्षण ) करना चाहता है, कि हड्डी-पसली भी साबित नहीं रहे। एकके धक्के और एकके “आलिङ्गन”के ताज़े तज़बे-के बाद अफलातूँ जैसे सम्भ्रान्त सामन्त-परिवारके एक भद्र पुरुषकी क्या राय हो सकती थी, इससे हम यही समझ सकते हैं, कि वह उनक

ॐअतिथिको देवता मानो।

असभ्य, जंगली, बर्बर कहता, और गुस्सा शान्त होनेपर यदि दार्शनिकों-की सहृदयतासे काम लेता तो क्लाइव या रोड्सको उन्हें सभ्य बनानेके लिये भेजता। किन्तु हमारे इस अफलातूँने अपनेको सहृदयता-असहृदयता, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, कर्म-अकर्म सबसे ऊपर उठाया, अपनेको ठीक अफलातूनी “विश्वरूप”में दिखलाया—( हाइड्रोजन ) परिमाणु = एलेक्ट्रॉन् + प्रोटॉन्, और एलेक्ट्रॉन् = - बिजली, प्रोटॉन् = + बिजली। - = ० ( ऋण धन = शून्य )। हमने जो देखा, छोड़ो बाबा उसे, उससे भर पाया, भगवान् ऐसी गत किसीकी न बनाये। किन्तु, हमारी गुरु पथ-प्रदर्शिका, बुद्धि ( तर्क, कल्पना ) जो कुछ कहती है, हम तो उसके माननेवाले हैं। वह बतलाती है, इस तरहकी ऋण-धन संयुक्त, परस्पर विरोधी वस्तुओंका समागम ( परमाणु ) तीन कालमें नहीं हो सकता; इसलिये परमाणु है ही नहीं, एलेक्ट्रॉन् है ही नहीं, प्रोटॉन् है ही नहीं। एलेक्ट्रॉन् अब भी अफलातूँको अपनी उजड़ु भाषामें कह रहा है—“आओ, दार्शनिकप्रवर ! मेरे पास आओ, और खुद देखो कि मैं हूँ या नहीं।” दूरसे प्रोटॉन् अपनी दो हजार गुनी तेज आवाजसे चिल्लाकर कह रहा है—“स्पार्टनवीर नहीं, अथेन्सके विलासी कायरोकी सन्तान ! जरा इधर तो आ, यदि मैं हूँ ही नहीं, तो आनेमें क्या उज्र है ?”

हमारा सौभाग्य है कि आजके साइंसवेत्ता अफलातूँके तर्कका अनुसरण नहीं करते—कमसे कम उस वक्त, जब कि वह रविवारके दिन चर्च या विश्वनाथके मंदिरमें न हो, साइंसकी प्रयोगशालामें रहते हैं। वह प्रकृतिके उदरमें उसके रोम-रोममें व्याप्त इस विरोधि-समागमको दूषण नहीं, भूषण समझते; और रोटीको कड़ी और नरम दोनों पा, उसे फेंककर भूखा मरना नहीं पसंद करते। साइंसवेत्ता हैल्डेनके शब्दोंमें—“अफलातूँकी भाँति मेज नरम और कड़ी दोनों है। ( इसलिये नहीं

\*Marxist Philosophy and the Sciences, p. 30.



है )—कहनेकी जगह हम कितनी ही बारीक नापोंसे पता लगाते हैं कि काठ कितना कड़ा है, इसको टुटानका जोर कितना है, आदि ।”

अफलातूँ के योग्य शिष्य अरस्तूने मनोमयी दुनियासे नीचे उतरनेकी कोशिश जरूर की; किन्तु उसकी प्रथम महान् प्रसूति *तर्कशास्त्र*ने अफलातूँकी कृपामयी तर्क बुद्धिको सामन्त-रानीकी जगह चक्रवर्तीरानी ( राजराजेश्वरी, मलका-मुश्रज़्जमा ) बनानेकी पूरा कोशिशकी । संसारके व्यवहार ( प्रयोग )ने तर्क-विद्याको पैदा किया था । मगर, यह शोख लड़की बाजारमें अपनी कीमत बढ़ी देख माँ-बापको पहचाननेसे इन्कार करती है । अरस्तूने कहा कि वस्तु और तदनुकूल गुण तो ठीक है; किन्तु इससे उलटी बात करनी ग़लत है । हेगेलने कहा—वस्तु अपने भीतर अनुकूल ही नहीं, प्रतिकूल—विरोधी—गुण भी रखती है, यही विरोध वस्तुमें पर-अनपेक्षित स्व-चालित गतिका स्रोत है, जिससे वह वस्तु अपनी गति—अपने आत्मविकास—के दौरानमें, एक दूसरी ही वस्तुके रूपमें अपनेको परिणित कर सकती है । लेकिन, *तर्कशास्त्र*के प्रणेता दो दिग्गजोंकी लड़ाईमें बेचारे सर राधाकृष्णनकी बुरी हालत हुई है । विश्वनाथके बेलपत्रको खाकर मालवीयजोकी गद्दीसे (सिंहासनबत्तीसीकी पुतलियोंकी भाँति) गीता-कथाका श्रद्धा और शर्मसे आये तरुणोंके कानोंमें इन्जेक्शन दे, लम्बी धोती-पगड़ी सँभालते अभी दर्वाजेसे वह बाहर निकलते ही हैं, कि यूनान और जर्मनीके दो मस्त्रोंको इस तरह हिन्दू विश्वविद्यालयके मैदानमें जूझते देखते हैं । राधाकृष्णनके ख्यालमें पहले तो आया—जाने दो, दोनों सफेद मूजियोंको लड़ने दो । किन्तु, ज़रा ही देरमें मालूम हुआ, इस लड़ाईमें बाबा विश्वनाथ (जिनके बेलपत्रको वह उससे भी ज्यादा श्रद्धा-भक्तिसे अभी खा चुके थे, जिससे शायद बाबाका नादिया भी न खाता होगा ) भी खतरेमें हैं । हेगेलकी जीतका मतलब एक ही कदम आगे उसके शिष्य फ्वेरबाख्की जीत, मार्क्सकी जीत, भौतिकवादकी जीत, अनीश्वरवादकी जीत, पुराने-समाज

और धर्मके ध्वंसकोंकी जीत । माथा ठनका, राधाकृष्णन्की पतली-दुबली शान्त मूर्ति दुर्वासा बन गई । पगड़ी फेंकी, धोतीका कच्छा बाँधनेमें असमर्थ देख विद्यार्थियोंने मदद की । हिरनकी भाँति चौकड़ी मारते वह भी अखाड़ेके पास पहुँच गये । “बड़े-बड़े डूबे जायँ कौन कहे कितना पानी”की कहावत याद आई, कुछ ठमके; और ठमकनेमें एक और भी कारण हुआ, सोचने लगे ‘अरुलातूँ और शंकराचार्य दोनों भारी मित्र थे—वेदान्तमें देश-काल तीनों कालमें असत्य हैं—लेकिन, अरस्तू तो अपने गुरुका वैसा ही पक्का चेला नहीं है, जैसा कि मैं अपने गुरु शंकराचार्यका । फिर क्यों मैं इस कम्बख्त अरस्तूके गाढ़े वक्तमें काम आऊँ ?’ उसी वक्त अंध-पुत्र दुर्योधन ( सुयोधन नहीं )की बात याद आई— हम अपने घरमें सौ और पाँच हैं, किन्तु बाहरवालोंके लिये १०५ । बेचारे सर साहेब बेतहाशा बोल गये—“भूत (जड़तत्त्व) जीवन या चेतनाका विकास नहीं कर सकता, जब तक कि उसके अपने स्वभावमें उन (के उत्पादन)की क्षमताएँ न हों । बाहरी वातावरणसे चाहे कितना ही धक्का क्यों न दिया जाय, केवल भूतसे जीवनको जबर्दस्ती निकाला नहीं जा सकता ।” प्राच्य महाविद्यालयके विद्यार्थियोंने पहले इस रंग-रेजीके पट्ट आ विदेशियोंके लिये दर्शनके एरंड-कल्पवृक्षके प्रति पहलेसे चली आई ईर्ष्याके कारण तटस्थ रहना चाहा; किन्तु श्रद्धेय महामहोपाध्याय बालकृष्ण मिश्रका इंगित देख उन्होंने आनंदबागके दयानंद-शास्त्रार्थका नज़ारा पेश कर दिया । बेचारा हेगेल कहता ही रह गया— विश्वके गर्भमें सर्वत्र विरोध-समागम है, यह उसकी जबर्दस्त क्षमता है, जिससे वह कुछसे कुछ हो जाता है । सर्वपत्नी रट रहे थे—यह गलत है “मनुष्यके धार्मिक तथा आचारिक, दार्शनिक तथा ललित-कलात्मक उच्चतम तजबेंके प्रति भक्ति हमसे माँग पेश करती है, कि हम काल (-आस)

---

\*Indian Philosophy by Sir S. Radhakrishnan, Vol. I, p. 181


भागी वास्तविकता [भौतिक जगत्]के मूलको सनातन [ब्रह्म]में, सान्तके आधारको अन्तमें, मनुष्यको ईश्वरसे उत्पन्न हुएके तौरपर स्वीकार करें।” ❀

विद्यार्थियोंकी तालीमें हेगेलकी आवाज़का दूर तक पहुँचना मुश्किल था। अन्तमें वह हिन्दू-विश्वविद्यालयको यह कहकर कोसता चला गया—“तो काहेकोयहसाइंस कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रयोगशाला, रसायनशालाकी ईंट-चूनेकी इमारतोंपर रुपया बर्बाद किया, यहाँ तो दूसरे विश्वनाथ-मंदिर और दूसरे नादियोंकी जरूरत है।” विद्यार्थियोंने जर्मन दार्शनिकके क्रोधपूर्ण परिहासको बिना समझे एक स्वरसे कह डाला—“मालवीयजीकी कृपा है, दूसरी बार आओगे तो उसे भी देख जाओगे, विदेशी म्लेच्छ कहींके।”

हाँ, यदि हिन्दू विश्वविद्यालयकी कथाको बीचमें लानेसे गंभीर पाठकोंको विरक्ति हुई हो, तो क्षमा करें। इस कथासे भी हम यही कहना चाहते थे, कि प्रकृति (भूत) पारस्परिक विरोधोंकी खान है, वही उसका जीवन, वही उसका स्वभाव है। राधाकृष्णन् जिस क्षमताको चाहते हैं वह प्रकृतिके अपने पेटमें है। “मुझको कहीं खोजे बंदे मैं तो तेरे पासमें”के अनुसार जब इतनी बड़ी जबर्दस्त शक्ति—क्षमता—प्रकृतिके पासमें नहीं, पेटमें मौजूद है, तो उसे किसीके सामने हाथ पसारनेकी क्या जरूरत ? और भीतरमें मौजूद वह क्षमता न हो, तो “बाहरी वातावरण [ईश्वरको भी, कृपया ले लीजिये]से चाहे कितना ही धक्का क्यों न दिया जाय, [विरोधि-समागम रूपी आन्तरिक क्षमतासे हीन द्वंद्वात्मकता-रहित] केवल भूतसे जीवनको जबर्दस्ती करके निकाला नहीं जा सकता।”

(२) स्वरूप--विरोधि (योंके)-समागमको विरोधियोंका परस्पर-अन्तर्व्यापन या एकता भी कहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि ये विरोधी सचमुच ही हिन्दू विश्वविद्यालयके अरस्तू-हेगेल या भीम-जरासंधकी तरह

दो अलग व्यक्तियोंकी तरह मल्लयुद्ध नहीं कर रहे थे; बल्कि वे एक ही ( अभिन्न ) वास्तविकताके ऐसे दोनों प्रकारके पहलू होते हैं । ये दोनों विरोध, दार्शनिकोंको परमार्थकी तराजूपर तुले सनातन कालसे एक दूसरेसे सर्वथा अलग अवस्थित भिन्न-भिन्न तत्त्वके तौरपर नहीं रहते; बल्कि वह वस्तुरूपेण एक हैं—एक ही समय, एक ही स्थान पर, अभिन्न होकर रहते हैं—कृपया इसे याज्ञवल्क्य या कबीर साहब ( अथवा राधा-कृष्णान्की भी ) भाषा न समझकर सीधी-सादी प्रकृतिकी भाषा समझिये । पुराने यूनानी भी इस नियमको जानते थे—



“जो कर्जखोरके लिये ऋण ( देना ) है, वही महाजनके लिये धन ( पावना ) है । ( हमारे लिये ) पूर्वका रास्ता (दूसरेके लिये) पश्चिमका भी रास्ता है । बिजलीमें धन और ऋणके छोर दो अलग स्वतन्त्र तरल ( पदार्थ ) नहीं है ।” ❀

\*Logic by ( Hegel )

लेनिन्ने विरोधको द्वन्द्ववादका चार (= सार ) कहा है—और यह भी कि “( किसी ) एक ( वस्तु )का विभाजन और उसके विरोधका ज्ञान द्वन्द्ववादका सार है ।”<sup>१</sup> पर एकता अभी-अभी सिर्फ एक क्षणकी मेहमान है, जैसे कि चलती मोटरके पहियेका छोर धरतीसे क्षण भरके लिये छूता है; और उसका उतना महत्त्व नहीं है, जितना कि उसके द्वारा शक्ति पाकर चलते रहते चक्केके रूपमें जो गति और परिवर्तन है उसका । तो इस प्रकार एक ही वस्तु ( घटना-प्रवाह )में हम विरोधियोंका समागम भी पाते हैं, जिसका फल होता है विरोधियोंका संघर्ष; और उसका परिणाम होता है समागम ( एकता )का टूटना तथा ‘नवीन’ ( तत्त्व )का प्रकट होना । मृत्यु ( टूटने )से इस नवीनके प्रकट होने ( जीवन )को खरीदा जाता है ।

( ३ ) संघर्ष, समागम साम्यावस्था—सभी वस्तुयें जड़-मूलसे बदलती, नई उत्पन्न होती हैं, सभी वस्तुयें प्रवाहमय बत्तीकी टेमकी तरह हैं—विश्वकी इस वास्तविकताके बारेमें बनला चुके हैं । समाज ऐसे विश्वका एक अंग है, इसलिये वह उसके कानूनसे बाहर कैसे जा सकता है । समाजमें भी आमूल परिवर्तन होता है; क्योंकि समाजके भीतर तथा उसके वातावरणमें विरोध समागम मौजूद है । विरोधका अर्थ है हलचल, साम्यावस्थाका ध्वंस । प्रकृतिमें गिर-साम्यावस्था चाहना उससे आत्म-हत्याकी माँग करनी है । वह साम्यावस्थाको लाती है; किन्तु मोटरके चक्केके भूमिसे छूनेकी तरह क्षण भरके लिये, साम्यावस्था स्वयं प्रवाहमय चंचल है । वह स्थापित होती है, नष्ट होती है, फिर स्थापित होती है, फिर नष्ट होती है... किन्तु उन्हीं धागोंकी उधेड़-बुन नहीं है, सब चीज नई, हर क्षण नये चक्के, नया ‘आकाश’ ( वेग-क्षेत्र ), नई भूमि । इसी साम्यावस्थाको चढ़ा-बढ़ाकर हम स्थिति नाम देते हैं । अचल चित्रसे चल चित्र ( सिनेमा )को हम ज्यादा पसंद करते हैं; किन्तु प्रकृतिको अपना

सिनेमा चलाते देख हम तमाशा देखते बच्चोकी तरह कहते हैं, “माँ, मैं रेणुकाको ‘घर आये’ गाती देखना चाहता हूँ।” कितना ही माई-दाई करनेपर भी जब प्रकृति आपके लिये अपने सिनेमाकी गतिको रोकनेकी तैयार नहीं होती, तो आप अपने मनसे एक नये स्थिर ध्रुव-संसारको रचने लगते हैं।—वहाँ बसन्त और वर्षाके ऋतु, वैचित्र्य तथा उसकी सुषमा न होती होगी, फिर वहाँ अश्वघोष और कालीदासकी भी जरूरत नहीं। आखिर—“धोबी वसिके का करे दीगंबरके गाँऊँ”। यदि आगरा-काँके-वाले जग-निर्माताओंकी भौतिका आपका जगत् न होता और आप किसी इष्ट-मित्र या अपनी आजन्म सहधर्मिणी मुन्नूकी माँको भी उस अपने ‘हाथकी’ बनाई दुनियामें ले जाना चाहते, और बेचारी सती साध्वी हिन्दू पत्नीको उस देशकी भनक भी मालूम हो जाती; तो या तो सनातन धर्मके अनुसार वह कूएँमें कूदकर जान दे डालती या किसी अप-टू-डेट सखीका अनुकरण करते हुये अदालतमें तिलाककी भिन्ना मॉगनेके लिये तैयार पाई जाती।

विरोधियोंका समागम, विरोधियोंका संघर्ष प्रकृतिको चिर-नवयौवन प्रदान करता है, चिर-नवयौवनका रास्ता यदि जरा-मरणके श्मशानसे जाता है, तो जिस तरह प्रकृतिको इसमें एतराज नहीं, उसी तरह सच्चे प्रकृति-पुत्रों और पुत्रियोंको भी एतराज नहीं होना चाहिये और न महा-देवी वर्माकी तरह ‘सांध्यगीत’के स्वरमें घड़ेके घड़े आँसू बहानेके लिये बैठ जाना चाहिये।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादकी त्रिपुटी—विरोधिसमागम, गुणात्मक-परिवर्त्तन, प्रतिषेध-प्रतिषेध—हेगेलकी देन है। यह सुनकर तअजब करनेकी जरूरत नहीं है कि ऐसा इज्जतदार दार्शनिक ऐसी नामाकूल हर्कत क्यों कर बैठा। वह या उसकी तरहके दूसरे इज्जतदार हैं या बेइज्जत इसका निर्णय सदियोंमें होगा, फिर मत करें, यदि वास्तविकको वास्तविक, परिवर्त्तनशीलको परिवर्त्तनशील कहना और अपने मनसे गढ़कर ‘नई

मौलिकता'को न उपस्थित करना इज्जतसे हाथ धोनेके लिये काफी है, तो ऐसी इज्जत अपने पास रखें। हेगेल बेचारा था भी हमारा आदमी (पञ्जाबी भाषामें 'साडा-बन्दा' )। उसे प्रच्छन्न भौतिकवादी नहीं कह सकते; क्योंकि गौडपादके प्रशिष्य प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्यकी भाँति उसने अपनेको छिपानेकी कोशिश न की। द्वन्द्ववाद प्रकृतिका अभिन्न स्वरूप है, इसे उसने पहिचाना और स्वीकार किया; किन्तु जब विचारके आनन्दमें विभोर हो वह इस अपने महान् आविष्कारको कागजपर लिखकर साटना चाहता था, तो वह प्रकृतिकी जगह 'विज्ञान' (अ-भौतिक-तत्त्व)-पर सट गया—यों कहिये देवताओंका अमृत गलतीसे राहु-केतुके मुखमें पड़ गया। लेबिल ठीक जगह लगा दीजिये, सब काम बना बनाया है। मार्क्सने यही किया, और हेगेलके दर्शनको शीर्षासनकी सासतसे बँचाया—हाँ, मैं सासत ही कहता हूँ, चाहे जवाहरलालजी जैसे सभ्रान्त व्यक्ति भी उसे क्यों न अपना रहे हों। अच्छा, अब अपने असली विषय द्वन्द्ववादके दूसरे सूत्र गुणात्मक परिवर्तनपर चलें।

### ( २ ) गुणात्मक परिवर्तन—

“केवल परिमाणात्मक [ नाप-तोल संबंधी ] परिवर्तनही एक खास सीमा पार होनेपर गुणात्मक (नये गुणोवाले) भेदोंमें बदल जाता है।”

( १ ) व्याख्या—कार्बन डायोक्साइड ( द्विआक्सित कार्बन ) एक जहरीली गैस है, यदि शुद्ध द्वि-आक्सित कार्बनमें कोई साँस ले तो वह मर जायगा, किन्तु मनुष्यके जीवन धारणके लिये भी उसकी आवश्यकता है। मनुष्यके रुधिरमें ५% ( पाँच सैकड़ा ) द्वि-आक्सित कार्बनकी जरूरत है; जिसके बिना आदमीका स्वास्थ्य और जीवन नहीं रह सकता। यहाँ मात्राके भेदसे गुण ( प्राण-रक्षा, प्राण-ध्वंसन )में भेद हो जाता है।

क्लोरीन् एक जहरीली गैस है, जिसे रसायनिक युद्धमें इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम् ( सोडा ) एक तरहका क्षार है, जिसे पानीपर रखनेसे आग लग जाती है। इन दोनोंके परमाणुओंको खास परिमाणमें मिलानेसे खानेका नमक पैदा होता है—जिसमें न क्लोरीन् जैसी प्राण-संहारक गैसका गुण है, न सोडियम्का आग लगानेका गुण, बल्कि एक बिल्कुल नये गुणका प्रादुर्भाव होता है— वह अब खानेका नमक है।

ये परिमाणके परिवर्तनसे गुणके परिवर्तन—परिमाणात्मक परिवर्तनसे गुणात्मक परिवर्तन—के उदाहरण हैं। आइये इसके बारेमें कुछ हेगेलके मुँहसे सुने—

“आदमी परिवर्तनको मन्द गतिसे ( थोड़ा-थोड़ा करते हुये ) परिवर्तन लानेकी कोशिश करना चाहते हैं; किन्तु यह मन्दगति ( का परिवर्तन ) सिर्फ अस्पष्ट परिवर्तन है, जो कि गुणात्मक परिवर्तनसे उलटा है। मन्दगतिमें दोनों वास्तविकताओं—चाहे उन्हें अवस्थाके तौरपर लीजिये या स्वतन्त्र वस्तुके तौरपर—के संबंध रुके रहते हैं।... परिवर्तनको ( स्पष्टताके साथ ) समझनेके लिये जिस ( बात )की जरूरत थी वह हटाई हुई रहती है।...”

“संगीत-संबंधी संबंधोंमें...जब आगे-आगेके स्वर आदि-स्वरसे क्रमशः आगे और आगे होते जा रहे हैं... ( उस वक्त ) एकाएक एक मुड़ान ( मुड़ना-लौटना ), एक ऐसा आश्चर्यजनक स्वर-समन्वय प्रकट हो उठता है; जिसपर कि अभी तक बीती गतिसे परिमाणानुसार बढ़ते हुए नहीं पहुँचाया गया, बल्कि वह एक दूरस्थ क्रियाके तौरपर, एक दूरस्थ वस्तुके संबंधीके तौरपर प्रकट हुआ।

“[ रसायनशालामें ] धातुवाली आक्साइड ( उदाहरणार्थ सीसा आक्साइड ) आक्साइड [ आक्सीजन-मिश्रित ] होनेके एक खास



परिमाणुवाले स्थानोंपर ( पहुँचकर ) बनते हैं, और अपने रंग तथा दूसरे गुणोंमें फर्क करते हैं। वह क्रमशः एक ( रूप )से दूसरेमें लीन नहीं होते।...

“सभी (तरहके) जन्म और मरण, क्रमशः गतिसे नहीं होते, बल्कि इस ( गति )की रोक है और परिमाणात्मक परिवर्तनसे गुणात्मक परिवर्तनपर ( मंडक ) कुदान करते हैं। .. उत्पत्ति और लयपर विचार करते वक्त साधारण कल्पना समझती है कि जब उन्हें उसने क्रमशः प्रकट होते या विलीन होते कल्पित कर लिया, तो उन्हें समझ लिया। किन्तु ..सत्ता ( सद् वस्तु )में जो आम तौरसे परिवर्तन होते हैं, वह सिर्फ एक परिमाणसे दूसरे परिमाणके रूपमें ही नहीं होते, बल्कि गुणात्मक [ एक गुणवाले रूप ]से परिमाणात्मक [ दूसरे परिमाणवाले रूपमें ], तथा परिमाणात्मकसे गुणात्मक परिवर्तन होते हैं: यही दूसरा बन जाना है, क्रमसे नाता तोड़ लेना है।...”

“पानी [ बर्फ होनेके लिये ] ठंडा होते वक्त लेईके ( कड़े होनेके ) तरीकेसे थोड़ा-थोड़ा करके कड़ा नहीं होता, बल्कि यकबयक कड़ा [बर्फ] हो जाता है। जब वह हिम [ जमनेके ] बिन्दुपर अच्छी तरह नहीं पहुँचा हो; हो सकता है ( अभी ) वह पूर्णतया तरल है ( यदि वह निश्चल है ), और हल्के तौरसे हिलानेसे कठोर अवस्थामें आ जाता है।”

( २ ) जीवन और भूत—भौतिकवादियोंपर यह आक्षेप किया जाता है, कि वह तो जीवन और मन जैसी उत्तम वस्तुको जड़-तत्त्वकी कोटिमें ला देते हैं, इसीलिये हमने सर राधाकृष्णनको 'हिन्दू-धर्म डूबा'के नामसे तो नहीं किन्तु उससे कुछ ऊँचे तलपर “मनुष्यके धार्मिक तथा आचारिक, दार्शनिक तथा ललित कलात्मक उच्चतम तजबेकी भक्ति”-की गायगुहार लगाते और एक कलमवीरके तौर पर भीष्म-प्रतिशा करते देखा : भौतिकवाद मेरी लाश परसे गुजरकर ही पुण्य-भूमि भारतमें घुस सकता है। लेकिन हम उन ऐसोको विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि

भौतिकवादी जीवन और मनको जड़ भौतिकतत्व हर्गिज नहीं मानते— कौन ऐसा गँवार होगा, जो कन्दको चीनी, चीनीको गुड़, गुड़को ऊख, ऊखको मिट्टी अतएव कन्द ( कलाकन्द )को मिट्टी कहनेकी गलती करेगा । वैज्ञानिक भौतिकवादी प्रकृतिमें सर्वत्र गुणात्मक-परिवर्तन देखते और मानते हैं; और गुणात्मक परिवर्तनका मतलब है “उससे किन्तु वही नहीं ।” मिट्टीमें गुण वह हर्गिज नहीं था, जो कि कन्दमें है, कन्द मिट्टी बिलकुल नहीं है । कन्द और मिट्टी उन्हीं परमाणुओंसे बने हैं, और नष्ट होनेपर वह उन्हीं “सृष्टिकी मूल ईंटों”के रूपमें रह जायेंगे, यह वैज्ञानिक भौतिकवादी नहीं मानते । वैज्ञानिक भौतिकवादियोंकी मूल ईंटें परमाणु नहीं कण-तरंग, विच्छेद-युक्त घटना-प्रवाह है, जिनके खमीरमें भी क्षण-क्षण नाश-उत्पादका नियम मिला हुआ है । इसलिये कन्द और मिट्टीमें उन्हीं परमाणुओंके समझनेकी गलती नहीं करनी चाहिये । कन्द मिट्टीसे हुआ है यह मान सकते हैं, किन्तु कन्द मिट्टी है, इस बातकी तोहमत हमपर नहीं लगाई जा सकती । यह सच है जीवन या मन जिससे पैदा हुआ है, वह भूत [भौतिकतत्व] ही है, किन्तु मन भूत हर्गिज नहीं है—किसी तरहसे भी नहीं, चाहे उसके अन्तस्तलमें घुसकर देख लें । यह बिल्कुल गुणात्मक परिवर्तन, पूर्व (भूत) प्रवाहसे टूटकर नया प्रवाह है । कृष्ण भगवान्का बेटा जीवे, उनके गीतोक्त परम सात्विक आहारकी महत्त्वपूर्ण व्याख्या—जिसके समझनेमें सर राधाकृष्णन्की दार्शनिक बुद्धि भी पूर्णतया कुंठित है, और अपने गीतोपदेशमें उसके असली अर्थको उन्होंने कभी श्रोताओंको नहीं बतलाया होगा—पर मुझे पूर्ण विश्वास है, यद्यपि उस महापुरुषके “सपत्नीक” नाम धारण करनेसे उनका कर्त्तव्य जरूर इस बातका तकाजा रखता था ।—आज्ञ सम्भ्रान्त हिन्दुओंके घर-घरमें परम सात्विक अंड-खाद्यका प्रचार हो रहा है, और ऐसा ही कोई अभाग होगा, जिसने भोग लगाते वक्त पावकपूत इस कोमल श्वेत शालिग्रामको हाथसे फोड़कर देखा न हो । यदि आपने इस

वास्तविक ब्रह्म-अंडको भीतरसे न देखा हो, तो एक बार जरूर तोड़कर देखिये। वहाँ कहीं छोटे-छोटे पंखवाले उस चूजेका पता नहीं मिलेगा, जिसे आप बाईस दिन बाद उससे निकला देखेंगे। यदि जैसा कि मुर्गी माईने उसे दिया है, उसी तरह आपने फोड़ा तो बाहरी खोलके भीतर पहले एक सफेद तरल खोल पायेंगे, वह उन्हीं रसायनिक तत्त्वोंका है, जो कि हमारी हड्डी, संगमरमर और चीनीमें मिलते हैं। उसके भीतर केसरिया रंगका तरल (रस) भरा हुआ है। वहाँ, खूब अंगुली आँख गड़ा-गड़ाकर देख डालिये, सिवाय पीले, सफेद तरल रसके और कुछ नहीं पाइयेगा—यदि उबले हुये अंडेको फोड़ें, दोनों प्रकारके इन तरल तत्त्वोंको दो रंगोंके आलूके गुद्देकी शकलमें देखेंगे। सद्यः प्रसूत अंडेकी अवस्था और चूजेमें जमीन-आसमानसे भी भारी अन्तर है, इसलिये जीव और भूतको एक कहना सरासर गलती है; साथ ही यह उससे भी भारी गलती है, कि गुणात्मक परिवर्तनकी अद्भुत क्षमता रखनेवाली प्रकृतिको उसके इस जन्मसिद्ध अधिकारसे वंचितकर जीवन या मनको कहीं बाहरसे आई चीज माना जाये।

चूजा तो मिट्टीसे गुड़ तकके गुणात्मक परिवर्तन-जैसा है। जब हम उसे मिट्टी (भूत) माननेके लिये तैयार नहीं, तो कन्द-जैसे सर्वोच्च विकासके धनी मनुष्यको भूत ( भौतिकतत्त्व ) मानना वैज्ञानिक भौतिकवादसे उतना ही संबंध रखता है, जितना गदहेके सिरसे सींग। सींग मनुष्य भूतका सर्वोच्च गुणात्मक परिवर्तन है। उसकी मानसिक, आचारिक शक्ति अद्भुत है। मनुष्य सोचता है, स्नेह-प्रेमके लिए आत्मोत्सर्ग करता है, कला और सौन्दर्यका आनंद लेता है, उदार भावनाओंसे पूर्ण उत्तम कार्य करनेकी उसमें क्षमता है। वह प्रकृतिकी आकस्मिक घटना या उपज नहीं है, और न वह केवल पशु है। लेकिन, ये सारे उच्च गुण सारी श्लाघनीय विशेषताएँ किसी ऐसे आत्मिक—विज्ञानमय (ब्रह्ममय) अंगत्से नहीं आई हैं, जो कि हमारे जगत्से भिन्न, परे और पहलेसे

मौजूद था। ये सभी भव्य गुण या विशेषतायें अपना भौतिक इतिहास रखती हैं, और अपने विकासके मार्गको विश्वपर अंकित किये हुये हैं। उनका वह विकास-पथ बतलाता है कि उनसे करोड़ों वर्षों पहले अरबसे अधिक वर्षोंसे लगातार जीवन-रहित, मन-रहित भूत (भौतिकतत्त्व) मौजूद था। फिर “अल्पारम्भ क्षेमकरः”को मोटो बनाकर बहुत छोटेसे रूपमें जीवनका आरम्भ हुआ इत्यादि। हमारे सामने सभी बातें साफ हो जाती हैं, जब हम इसे देख और समझ लेते हैं कि भूत (भौतिकतत्त्व) कभी निश्चल नहीं रहता, गति उसका गुण (स्व-रूप=स्व-लक्षण) है। भूतकी उसकी परिभाषा है—भूत वह है जो गतिमें रहता है।

(३) दृष्टान्त—हेगेलके ऊपर उद्धृत वाक्योंमें गुणात्मक परिवर्तन को संक्षेपमें—अतएव कुछ क्लिष्ट भाषामें—बतलाया गया है। हमने कुछ सरल करनेकी कोशिश की है, यदि उसे और साफ करनेकी जरूरत है, तो फिर सुनिये। भूतमें विकास होता है, मिट्टीसे ऊख, गुड़ (या बिना गुड़के भीषे) चीनी, कंद तकका विकास हम खुद अपने हाथों करते हैं। प्रकृति इस विकासको क्रमशः और एकाएक दोनों तरहसे करती है। क्रमशः विकासके रूपमें तिकाते-तिकाते एकदम हथियार छोड़ती है; अथवा लम्बी या ऊँची कूदानवाले खिलाड़ीकी भाँति पहले दौड़ते हुए फिर एकदम भेंडक-कूदान करती है—नया गुण, नई वस्तु, नई घटनाअस्तित्वमें आती है।

१. पानीके जमनेका दृष्टान्त हेगेलने दिया है। बर्फ बनते वक्त पानी धीरे-धीरे गाढ़ा नहीं होता; बल्कि टेम्प्रेचर गिरते-गिरते जैसे ही हिम-विन्दु (३२° फार्नहाइट, ०° सेंटीग्रेड)पर पहुँचता है, वह एकाएक बर्फ हो जाता है उसका तरलपन लुप्त हो जाता है, उसकी प्रवाहिता लुप्त हो जाती है, वह शीशेके बराबर कड़ा और भारी लोरी और ट्रामको अपने ऊपरसे गुजारने लायक हो जाता है। आप स्वच्छ पतीलीमें कण-धूलिसे रहित शुद्ध जलको आगपर रखते हैं, वह गर्मात्मा फिर संतुलित होता है।

आप “थर्मामीटर” से गर्मीकी वृद्धिकी गतिको देखते जाते हैं,  $20^{\circ}$ ,  $25^{\circ}$  तक वह आपको ठण्डा लगता है,  $26^{\circ}$ ,  $27^{\circ}$  में आपके शरीर इतना गर्म होनेसे न ठण्डा न गर्म, जितना ही तापमान ऊपर उठता जाता है, पानीकी गर्मी बढ़ती जाती है—जितनी गर्मी बढ़ती जाती है, तापमापक यंत्रका पारा उतना ही ऊपर चढ़ता जाता है।  $25^{\circ}$  में आप हाथ रखना नहीं चाहते,  $26^{\circ}$  में और असह्य गर्मी। आपको आश्चर्य होगा पानी खौलता क्यों नहीं ? आप इत्मीनान रखिये जिस तरह स्वच्छ करके आपने पानीको रखा है, उससे उसको खौलनेकी नौबत नहीं आयेगी। खौलनेके लिये कण और धूलि चाहिये, जिससे हवाके प्रवेश और बुलबुला बननेकी गुंजाइश हो। आपके जलमें कोई विजातीय तत्त्व नहीं है, इसलिये उसे भी उससे डर नहीं। यह देखिये टेम्प्रेचर  $21^{\circ}$  डिग्री फार्नहाइटपर पहुँच गया। सजग हो जाइये। क्या कहा—अभी भी तो वैसा ही है। यह लो यह क्या हुआ ? सारा पानी बिना खौले यकायक भाप हो गया, देखिये  $212^{\circ}$  फार्नहाइट ( $100^{\circ}$  सेंटीग्रेड ) है।

इस तरह तापके परिमाणके परिवर्तन—परिमाणात्मक परिवर्तन—ने एक खास सीमापर पहुँचते ही गुणात्मक परिवर्तन कर दिया, तरलको टेम्प्रेचर ठोस या भाप (गेस) बना दिया।

२. तराजूका दृष्टान्त देखने, समझनेमें इससे भी सहल है। सेरका बटखरा रख एक बहुत अच्छे तराजूसे आप खसखस (पोस्तेके दाने)-को तोलिये। पाव, दो पाव, तीन पाव, पंद्रह छुट्टाँक, १५ छुट्टाँक ४ तोला, १५ छुट्टाँक ४ तोला ११ माशा, १५ छुट्टाँक ४ तोला ११ माशा ७ रत्ती, १५ छुट्टाँक ४ तो० ११ मा० ७ रत्ती, ७ चावल, १५ छुट्टाँक ४ तो० ११ मा० ७ रत्ती, ७ चावल, ७ खसखस तक धीरे-धीरे रखते जाइये, तराजूकी डौंडी सीधी नहीं होगी, किन्तु जैसे हो आप आखिरी खसखस रखेंगे, वह बराबर हो जायेगी, और उसके आगे एक खसखस बढ़ाते ही डौंडी गिर जायेगी।

३. इसे भी छोड़िये, दूसरा दृष्टान्त लीजिये। चार पहलवान एक पत्थरको उठाना चाहते हैं। सारी ताकत लगाकर हार गये, वह नहीं उठा। उस वक्त एक लड़का उधरसे गुजरा। लड़केके यह पूछनेपर कि क्या मैं भी हाथ लगा दूँ, तीन पहलवान हँस पड़ते हैं। चौथेको जाने-अनजाने वैज्ञानिक भौतिकवादकी गंध लग गई है, वह कहता है—अज्ञाने दीजिये। लड़का हाथ लगाता है, पत्थर उठ जाता है। बाकी तीन पहलवान लड़केको भगवान् या सिद्ध-पुरुष मानना चाहते हैं, वह उसके चरणोंमें दंडवत् गिरना ही चाहते हैं; किन्तु वह भौतिकवादी पहलवान कह उठता है—ऐसी कोई सिद्धाई नहीं है, आखिरी थोड़ासा भार बँच रहा था, जिसे उठानेके लिये हम चारोंकी शक्ति बँच नहीं रहती थी, इसलिये हम उठा नहीं पाते थे।

४. और उदाहरण लीजिये। स्टोबमें आप हवा भर रहे हैं। भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, पूरी हवा भर दी गई है, स्टोबकी सूई खतरेकी लाल लाइनपर पहुँच गई है। होशियार हवा भरनेवाले गुणात्मक परिवर्तनवादी होनेके कारण आप समझ गये कि अब इसकी उदरपूर्ति हो गई। आपका साथी भगवान्दास कोरा भाग्यवादी, ब्रह्मवादी-कर्मवादी, या मायावादी-शून्यवादी है। वह आपके जरासा हटते ही जलते स्टोबमें एक ही पिचकारी और कसता है, स्टोब फटनेका धड़ाका होता है। आप दौड़कर देखते हैं, घरमें आग लग रही है भगवान्दास जलते कपड़ोंमें तड़फड़ा रहा है। खैर आप किसी तरह गीले कपड़ेकी मददसे भगवान्दासको बुझाकर बाहर निकालते हैं। अस्पतालमें जाकर वह बँच जाता है। चञ्चा होनेपर भगवान्दास कहता है—भाई ! मैंने तो आधी फूँक भर भी हवा नहीं डाली होगी, भगवान्ने किसी पुरिबले कर्मका फल दिया। आप कहते हैं—इसी जन्मके कर्मका फल है, वह आधी फूँक हवाका परिमाण गुणात्मक परिवर्तन करनेकी सामर्थ्य रखता है। और यदि भगवान्दास—भाई ! लगानेमें अनुप्रासका आनन्द तो

जरूर मिलता है; किन्तु कितनी बार मैंने आपसे प्रार्थना की कि इस सनीचेर नामको बदलो—उसी गुणात्मक परिवर्तनको आपने मध्य-साधक स्टोबका भक्त रूपमें परिवर्तन देखा ।

(४) मन—मस्तिष्क और चिन्तन स्मरण आदिकी क्षमता-क्रिया-जिसे कि हम मन कहते हैं—का क्या संबंध है, इसके बारेमें हम अन्यत्रकाफी कह चुके हैं । इसलिये उन बातोंको यहाँ दुहरानेकी जरूरत नहीं, साथ ही “जीवन और भूत”पर लिखते वक्त हम अपनी स्थिति साफ कर आये हैं, कि जीवन भूतसे उत्पन्न है, किन्तु भूत ही नहीं है । जीवन और मन एक ही घटनाका दूसरा पहलू, अथवा साधारण जीवनका उच्चतर विकास है । पावलोफ़ने इस सदीमें मस्तिष्ककी अंधेरी कोठरीमें घुसकर उसे देखनेका काम शुरू किया । पिछले चालीस वर्षों में उसके कितने ही भागोंको आलोकित जरूर किया जा सका है, किन्तु मस्तिष्ककी पीली मज्जाके करोड़ों सेलोंका रहस्य इतनी जल्दी नहीं खोला जा सकता । तो भी गवेषणाओंका जो कुछ फल मालूम हुआ है, उससे पता लगता है मनकी भिन्न-भिन्न क्रियामें मस्तिष्कके भिन्न भिन्न भागोंके सेल-समुदायोंसे संबंध रखती है । एक अकेला सेल् अलग करके अनिश्चित काल तक अनुकूल अहारके साथ रखा जा सकता है, किन्तु उस वक्त वह अपनी सारी अद्भुत शक्ति खो बैठेगा, और एक साधारण एकसेलीय प्राणी—अमोय्वा—जैसा जीवन व्यतीत करेगा । इसलिये कहना चाहिए कि मस्तिष्क इन सेलोंका योग मात्र नहीं है, यहाँ परिमाण-संबंधी परिवर्तनसे गुणात्मक परिवर्तन होता है—और मस्तिष्कके करोड़ों सेल वह काम करते हैं, जिसे उन सेलोंकी वैयक्तिक क्षमता अलग-अलग नहीं कर सकती । नालंदाके दार्शनिक धर्मकीर्ति ( ६०० ई० )के शब्दोंमें—“एकसे कोई

\*“विश्वकी रूपरेखा”

†“न किंचिदेकमेकस्मात् सामग्र्याः सर्वसंभवः ।” प्रमाणवार्त्तिक  
३।५।३६ “संहतौ हेतुता तेषाम्”—वहीं २।२८ ।

एक वस्तु नहीं होती, ( बहुतसे हेतुओंकी ) सामग्रीसे सबकी उत्पत्ति होती है ।” “उनकी संहति (संघात)में हेतुता है ।”

मनके बारेमें विचार करनेके लिये कुछ भी आगे बढ़नेसे पहिले यह खयाल हटा देना चाहिये कि मन एक खास तत्त्व है, जो फूलकी तरह अपने भीतरसे चिन्तन-स्मरण आदिकी सुगंधि निकालता रहता है । आधुनिक मस्तिष्क-विद्या-विशारद मनोविज्ञानवेत्ता मनको एक द्रव्य नहीं, बल्कि घटना-प्रवाह मानते हैं । जीवन और मनकी तुलना करके देखिये तो मालूम होगा, मन तभी तक रह सकता है, जब तक कि जीवन है । जीवनके न रहनेपर मन (चिन्तन, स्मरण)का रहना बिलकुल असंभव है । खैर, इसे तो आप फजूल वक्त लेना कहेंगे । किन्तु यह खयाल रखिये, कि परीक्षासे यह सिद्ध हो चुका है, कि मन शरीरके मरनेसे पहिले मर जाता है, इस तरह हमारे यहाँके नैयायिकोंकी व्याप्ति— “जहाँ-जहाँ धूम वहाँ-वहाँ आगकी तरह “जहाँ-जहाँ मन वहाँ-वहाँ जीवन” तो ठीक उतरती है; किन्तु जिस तरह “जहाँ-जहाँ आग वहाँ-वहाँ धूम”को गलत व्याप्ति (अ-व्याप्ति) कहेंगे, क्योंकि निर्धूम आग भी देखी जाती है; उसी तरह “जहाँ-जहाँ जीव वहाँ-वहाँ मन” ( चिन्तन, स्मरण... ) भी अव्याप्ति है; क्योंकि जीवन-चिह्न, शरीरकी उष्णता श्वास-प्रश्वासके बंद होनेके पहिले ही चिन्तन-स्मरणकी क्रियायें समाप्त हो जाती हैं—“मन” मर जाता है । यही नहीं कि मनके बाद भी शरीर जीता देखा जाता है, बल्कि बाज वक्त तो शरीरके मर जानेपर भी,— हिटलरके बंब द्वारा ध्वस्त ग्राममें एकाध बच गये दुबमुँहे बच्चेकी भोंति शरीरके कुछ सेलोंको जिन्दा रहते देखा जाता है, यद्यपि यह ‘दुबमुँहा बच्चा’ देर तकका मेहमान नहीं होता—मुर्दोंके नाखून और केश जो कभी-कभी बड़े पाये जाते हैं, वह इसीके दृष्टान्त हैं । वस्तुतः जिसे हम शरीर कहते हैं, वह अरबों स्वतंत्र-सजीव सेलों (हों, यदि हमारे शरीरके किसी सेलको निकालकर खास रसमें रखें तो



वह अनिश्चित काल तक एकसेलीय जन्तुकी तरह जीवित रहेगा )— का संघात है । ये सेल अलग-अलग उस शक्तिको नहीं पैदा कर सकते, जिसे हम मनका नाम देते हैं; किंतु उनकी संहतिमें हेतुता होती है और गुणात्मक परिवर्तनसे चिन्तन-स्मरण जैसी अद्भुत शक्ति (=मन) पैदा हो जाती है । पंकज (कमल-फूल) पंकसे पैदा होता है, किन्तु वह पंक नहीं है; मन भी पंकज (पंकसे पैदा हुआ) है, किंतु वह पंक नहीं । जैसे कमलके रूप-गुणको देखकर उसे स्वर्गसे टपका मानना पंकके साथ घोर अन्याय और अपनेको जड़-भरत साबित करना है, उसी तरह मनको आसमानसे टपकाना भी जड़-भरत बनना है; अथवा “रोटी खाइये घी-शक्कर”की कहावतके अनुसार दूसरोंको धोखा देना है ।

एक बार फिर भूतके उदर-गह्वरमें हम आगको ले चलना चाहते हैं । एलेक्ट्रनको प्रोटन (हाइड्रोजनके नाभिकण)के गिर्द निरन्तर नृत्य करनेके बारेमें हम कह आये हैं । पिछले युद्धके बाद वैज्ञानिक कैसे इस प्रोटनके जबर्दस्त किलेको भी तोड़नेमें समर्थ हुए, इसे दूसरी जगहः देखिये । यहाँ संचेपमें इतना ही समझिये कि वह प्रोटन भी तोड़नेपर एलेक्ट्रन और पोजिट्रन (पोजिटिव = धन बिजली)से युक्त मिला, और अब वैज्ञानिकोंने एलेक्ट्रनके नामको और वैज्ञानिक बनाते हुए उसे निगोट्रन (निगेटिव = ऋण बिजली कण) नाम दे दिया । एलेक्ट्रन, निगोट्रन, न्युट्रन इन “प्रारम्भिक” इकाइयोंसे कैसे विश्वका विकास हुआ, इसके बारेमें भी हम यहाँ दूर तक नहीं जा सकते । ये भिन्न-भिन्न परिमाणमें मिलकर (परिमाणात्मक परिवर्तनसे) गुणात्मक परिवर्तन करते हुए हाइड्रोजन, कार्बन, रेडियम जैसे परस्पर भिन्न स्वभाववाले ६२ रसायनिक मूलतत्वों (परमाणुओं)को विकसित करते हैं । ये परमाणु मिलकर अणुओं, अणु-गुच्छों तथा भिन्न-भिन्न रसायन-योगो—जल (ओ १ हा २), नमक आदि—को बनाते हैं । खैर, इस योगके बनाने-

ॐ “विश्वकी रूपरेखा”

में तापमानका खास महत्त्व है। तापमानके परिमाणके परिवर्तनसे कैसे जलमें गुणात्मक परिवर्तन हो वह ठोस बर्फ तथा गेसरूपी भापमें परिवर्तित हो जाता है, इसे हम बतला आये हैं। लेकिन इस तापको ढूँढ़नेके लिये मशाल लेकर बाहर भटकनेकी जरूरत नहीं। भूत (भौतिकतत्त्व)-की गतिका ही नाम ताप है; और वह गति भूतमें स्वाभाविक है—गतिरहित भूत कहीं नहीं पाया जा सकता। एलेक्ट्रॉन् १,८२,६२८ मील प्रति सेकण्डकी चालसे चक्कर फाटता है। रेडियमसे स्वतः सदा निकलनेवाले कणोंमें एक अल्फा-कण भी है, यह एलेक्ट्रॉन्की गतिके सामने छकड़ा है—सिर्फ १०से १५ हजार मील प्रतिसेकण्ड चलता है; किन्तु जानते हैं वह कितना गर्म होता है—५० अरब डिग्री सेंटीग्रेड (फार्नहाइट करनेमें और ज्यादा डिग्री होगा), उसके सामने सूर्यकी नाभिपरकी ४ करोड़ डिग्रीवाली गर्मी हिमालयकी सर्दी है। हाँ, तो गति = गर्मी संघर्ष = समागम कराती है। परिमाणके परिवर्तनसे गुणमें परिवर्तन होता है। पृथिवी दो अरब वर्ष पहले बहुत संतप्त थी, ताप गिरनेके साथ गुणात्मक परिवर्तन शुरू हुए और अन्तमें जीवनकी आगमनीके लायक तापमान हुआ।—जीवन ०° सेंटीग्रेड (३२° फार्नहाइट)से १००° (२१२ फार्नहाइट) तक जीवित रह सकता है। और १००° सेंटीग्रेडपर थोड़े समय तकके लिये जीवित रहनेवाले बेक्टिरिया और विरस हैं, जिन्हें भूत और जीवकी बीचकी कड़ी माना जाता है। तापमान जीवनपर क्या प्रभाव रखता है, इसे मैं अपनी पुस्तक “विश्वकी रूपरेखा”से उद्धृत करता हूँ—करना ही चाहिये, नहीं तो आपलोग समझने लगेंगे कि अपनी पुस्तकका विज्ञापन देकर उसे बिकवाना तथा नफा कमाना चाहता है। नफेकी बात किसी हिन्दी-लेखकसे पूछिये और उद्धृत करनेका एक यह भी मतलब है : क्या जाने दुनियाके इस महातूफानमें “विश्वकी रूपरेखा” कहाँ रहे और “वैज्ञानिक भौतिकवाद” कहाँ ?—

प्रोफेसर हर्टविग्ने मेंडकोपर तापमानका प्रयोग किया है। उन्होंने

एक ही मेंडकके एक ही दिन दिये अंडोंको चार भागोंमें बाँटा । चारों भागोंको क्रमशः  $११^{\circ}$ ,  $१५^{\circ}$ ,  $२०^{\circ}$  और  $२४^{\circ}$  सेंटीग्रेड तापमानके पानीमें पाला । तीन दिनके बाद देखा गया कि जहाँ प्रथम भाग दाना-दार भी नहीं बन सका, वहाँ चतुर्थ भाग अंडा फोड़कर बाहर निकलने-वाला था, और बाकी दो भाग बीचकी अवस्थामें थे । इसका अर्थ यह हुआ कि ऊँचे तापमानमें जीवन-विकास शीघ्रतासे होता है ।

“प्रोफेसर लोएबने ड्रोसोफिला मक्खीपर प्रयोग किया है । उससे पता लगा है, कि  $३०^{\circ}$  सेन्टी तापमानमें रखनेपर मक्खीको अंडा फोड़कर बाहर निकलनेसे मरने तकमें २१ दिन लगे;  $२०^{\circ}$  सेन्टीग्रेडमें आयु ५४ दिनकी रही और  $१०^{\circ}$  सें०में १७७ दिन अर्थात् आठ गुनीसे भी ज्यादा ।

“तापमान जीवनकी खेतीको शीघ्रतासे तैयार करता है, ऊपर ड्रोसो-फिलाके प्रयोगमें हर  $१०^{\circ}$  डिग्रीपर जीवनकी अवधि ढाई और तीन गुनी बढ़ी है । यह भी खयाल रखना चाहिये कि,  $१०^{\circ}$  सेंटीग्रेडसे ऊपर जीवनकी अवधि ( $१००^{\circ}$ सें०) तक तापमानमें हर दस डिग्रीपर रसा-यनिक तत्त्वोंके प्रभाव भी दुगुने-तिगुने हो जाते हैं ।

“तापमानका आयुपर जिस तरहका प्रभाव हम मक्खियों, मेंडकों तथा दूसरे निम्न प्राणियोंपर पाते हैं, वही चिड़ियों, स्तनधारियों, मनुष्यों-पर नहीं पाया जाता । कारण उनके शरीरकी बनावट ऐसी है, कि उनके शरीरका तापमान एक खास परिमाणसे ऊपर नहीं जाने पाता । गर्मियोंमें एककी जगह तीन-तीन गिलांस पानी जो हम पीते हैं, वह टेम्प्रेचरको  $६६^{\circ}$ ,  $६७^{\circ}$  फार्नहाइट तक रोक रखनेमें खर्च होता है ।”

तापमानका जीवनपर प्रभाव कैसा होता है, यह तो समझ गये । पृथिवी पहिले अस्थंत उष्ण थी, फिर गर्मी कम होते-होते जब ऐसे ताप-मानमें आई, जहाँ कि जीवनका गुजर हो सकता है, तो जीवन उत्पन्न हुआ, और पृथिवीके तत्त्वोंसे ही उत्पन्न हुआ । कैसे हुआ, इसके लिये हम

मजबूर हैं, “विश्वकी रूपरेखा”को देखनेकी सलाह देनेके लिये। अ-जीव रसायनिक रसयोगसे गुणात्मक परिवर्तनके साथ एक नया तत्त्व “विरसु”\* या बेक्टीरिया पैदा हुआ। फिर क्रमशः एकसेलवाला प्राणी अस्तित्वमें आया। फिर एकसेलीय अमोय्बा, और अनेक-सेलीय क्षुद्र कीटसे अरबों सेलोंवाले मनुष्य तक। आज भी हमारे शरीरके किसी सेलको शरीरसे बाहर जिन्दा रखा जा सकता है। सेलके जिन्दा रखनेकी एक प्रक्रिया वह है, जिसे सन्तान प्रसव कहते हैं; जिसमें पति, पत्नीके एक-एक सजीव सेल आपसमें मिलते हैं, और उदरमें तथा बाहर आहार प्राप्तकर पुत्र या पुत्रीके रूपमें साकार हो हमारे प्रेम, तथा योग्यताके अभिकारी बनते हैं। दूसरा तरीका डाक्टर केरेल (अमेरिका) जैसे वैज्ञानिक हस्तेमाल कर रहे हैं—डाक्टर केरेलने मुर्गीके हृदयके एक सेलको एक खास रसमें २० सालसे जीवित रखा है, उसकी जिन्दगी एक सेलवाले अमोय्बा जैसी है।—स्मरण रखना चाहिये, मुर्गीकी औसत आयु सिर्फ पाँच सालकी होती है।

इसी गुणात्मक प्रक्रियासे मानव तकके विकासके समझनेके लिये हमें प्राणि-शास्त्रियोंके प्रयोगसिद्ध एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त जाति-परिवर्तन†को थोड़ासा समझ लेना चाहिये।

( ५ ) जाति-परिवर्तन—हमने अन्यत्र‡ इसके बारेमें लिखा है—“आनुवंशिकताका प्राणीके निर्माणमें” बहुत हाथ है, तो भी उसकी दीवारमें कुछ छिद्र हैं, जिसके कारण नई जातियों या श्रेणियोंका प्रादुर्भाव होता रहता है। व्यक्तिमें नये रूप-गुणका प्रादुर्भाव दो तरहसे होता है—एक अभ्यास या कृत्रिम रीतिसे—जैसे अशिक्षित व्यक्ति अध्ययन और अध्यवसायसे शिक्षित बन जाता है, अथवा दुर्घटनासे आदमी लँगड़ा-लूला हो जाता है। ये परिवर्तन ऊपरी तथा एक शरीर (पीढ़ी)

\*Virus

†Mutation

‡ज्यादा जामनेके लिये देखिये “विश्वकी रूपरेखा”

तक ही सीमित रहते हैं। डाक्टरका लड़का सिर्फ इसलिये डाक्टर नहीं हो सकता, कि वह डाक्टरका लड़का है। इसका मतलब यह है कि अभ्यास और अध्यवसाय द्वारा प्राप्त गुण आनुवंशिक नहीं बनते। एक दूसरी तरहका परिवर्तन है, जो कि स्थायी होता है, इसे जाति-परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन ऊपरी नहीं, प्राणिके अन्तस्तम जनक-बीज (जेनस्\*)-में होता है, जिससे नवीन वस्तुका प्रादुर्भाव होता है। नवीनताका प्रादुर्भाव ही विकासका आधार है।

“मेंडलकी जाति-परिवर्तनसंबंधी गवेषणायें डार्विनको अज्ञात थीं, इसलिये विकासका अर्थ वह अविच्छिन्न शान्त प्रवाह—सर्पगति—लेता था। विकास, वस्तुतः, अविच्छिन्न नहीं है, बल्कि विच्छिन्न कुदान है।”

जनक-बीज या जेनस् ही एक पीढ़ीके आनुवंशिक गुणोंको दूसरी पीढ़ीमें पहुँचाते हैं। इन्हीं जनक-बीजोंमें परिवर्तन जब और जितने परिमाणमें होता है, तब और उसी मात्रामें जातिमें परिवर्तन होता है। जनक-बीज और जाति-परिवर्तनके विषयमें हम दूसरी जगह लिख चुके हैं। मनुष्यका शरीर अरबों सेलोंका एक परिवार है। हर सेलमें एक नाभिकण होता है। हर “नाभिकण”में रस्तीके टुकड़ों जैसी कोई चीज (क्रोमोसोम) होती—(सेलकी भाँति इसका रूप भी बदलता रहता है)। इसकी संख्या मनुष्यमें ४८ है (खून या मांसकी परीक्षाकर इन क्रोमोसोमोंकी गिनतीसे वह किस प्राणीका मांस या खून है इसे बतलाया जा सकता है)। क्रोमोसोमके धागेमें कुछ हजार छोटे-छोटे मनके पिरोये रहते हैं, जिन्हें कि जनक-बीज (जेनस्) कहते हैं। अमेरिकन वैज्ञानिक मोगनने फलोंकी मक्खी ड्रोसोफिलाके प्रयोगसे जनक-बीजके रहस्यको खोज निकालनेमें बहुत सफलता पाई है। महीनेमें दो और सालमें २४ पीढ़ी तैयार हो जानेसे ड्रोसोफिलाके

\*Genus †आस्ट्रियाका एक प्राणि-शास्त्री : “विश्वकी रूपरेखा”

पीढ़ीसे पीढ़ीमें जनक-परिवर्तनका अध्ययन बहुत सुगम है। मोगनने कितनी ही लाख मक्खियोंकी आनुवंशिकताका लेखा तैयार किया है। जनक-परिवर्तनसे जो आनुवंशिकता-परिवर्तन होता है, इसे ही जाति-परिवर्तन कहते हैं। मोगनने अपनी इन मक्खियोंमें चार सौके करीब जाति-परिवर्तन देखे; इन चार सौ जाति-परिवर्तनोंमेंसे बहुतोंका अध्ययन करनेसे मालूम हुआ है कि वहाँ जनक-बीजों (जनकों)के चार समूह हैं—अर्थात् समूहोंकी उतनी ही संख्या है, जितने कि ड्रोसोफिलाके नाभिकणमें क्रोमोसोम् होते हैं। एक-एक समूहमें जनक-बीजोंकी संख्या क्रोमोसोमकी लंबाईके अनुसार होती है, और उसे अणुवीक्षणसे हम देख सकते हैं।

ड्रोसोफिलामें हर लाखपर २८ से ६१ तक जाति-परिवर्तनवाले व्यक्ति पाये गये हैं। लेखा लगानेसे पता लगता है कि एक हजार वर्षके समयमें ड्रोसोफिलाके सभी जनक-बीज बदल जाते हैं। १५ दिनमें नई पीढ़ी तैयार करनेवाली, तथा सन्तान-प्रसवमें लासानी ड्रोसोफिला मक्खीमें जाति-परिवर्तनकी गति बहुत तीव्र है। मुलरने एक प्रयोग द्वारा जाति-परिवर्तनकी प्राकृतिक गतिको १५० गुना तक कर दिया, और इस प्रकार एक लाखपर ४२०० से ६१५० जाति-परिवर्तन किये जा सके—अर्थात् ऐसा होनेपर छै वर्षमें सारी मक्खियोंके जनक-बीज बदल जावेंगे। ड्रोसोफिलाकी सारी जातिके जाति-परिवर्तनमें कितना समय लगता है, हमें यहाँ उससे मतलब नहीं है; मतलब इससे है कि जाति-परिवर्तन होता है, और सिर्फ सर्प-गतिसे नहीं; बल्कि मेंढक-कुदानकी तरह यकायक होता है।

( ६ ) मनुष्य और उसके समाजमें गुणात्मक परिवर्तन—समाजमें गुणात्मक-परिवर्तन होता है, इसीको हम सामाजिक-क्रान्ति कहते हैं। यह जबसे पृथिवीपर मनुष्य आया तबसे हो रहा है, यद्यपि मस्तिष्कका मालिक मनुष्य प्रकृतिके काममें अक्सर बाधा डालना चाहता है; किंतु

वह होता ही रहता है। हमने इस परिवर्तनको अपने “मानव-समाज”में सविस्तार दिया है। इस तरहके परिवर्तनको और नजदीकसे देखना चाहते हों, तो अपने सामने मौजूद किसी घरकी तीन पीढ़ीको गौरसे देखिये। मेरा अपना उदाहरण लीजिये—

१. नाना (रामशरण पाठक, पल्टनके सिपाही)—“हमारी पल्टनका बलिया जिलेवाला राजपूत डाक्टर क्रिस्तान था, उसकी स्त्रीने उसे छोड़ दिया। क्यों ? वह अंग्रेजोंके साथ चाय पीता था।”

२. पिता (गोवर्धन पाँडेके) पूजा-पाठके बहुत पाबंद; किन्तु अपने हलवाहे चिनगी चमारकी लाशको लोगोंके बुरा माननेपर भी ४० मील दूर गंगा तटपर फूँकनेके लिये ले गये, और

३. बंदा (राहुल सांकृत्यायन)—आप लोगोंके सामने नंगा खड़ा है। न हिन्दुओंके भक्ष्याभक्ष्यको मानता, न धर्म-अधर्म, न जात-पाँतको। बेचारा बलियावाला डाक्टर तो अंग्रेजोंके साथ चाय पीता था; यहाँ अंग्रेजोंको भी पी जानेके लिये तैयार है। और ? रामशरण पाठक और गोवर्धन पाँडेके एक-एक सेल्की परंपराको आगे ले जानेके लिये (यदि वह इस सर्वसंहारी युद्धसे बच रहा तो) लोलाको उसने सहयोगिनी बनाया, जो कि पाठकजी, पाँडेजी दोनोंके विचारके सोलहो आना “क्रिस्तान” स्लेच्छ रूसी स्त्री है।

मानव समाजमें गुणात्मक-परिवर्तनके लिये उसके जंगली, बर्बर, सभ्य (सभ्यमें सामन्तवाद, पूँजीवाद, समाजवाद) अवस्थाओंको देखनेसे मालूम होगा कि इन अवस्थाओंमें गुजरनेपर किस तरह रुढ़ियों, आर्थिक, धार्मिक ढाँचे बदलते गये हैं।

\*दादाको न देखने तथा समझ होनेसे पहिले माँके मर जानेसे उनका दृष्टान्त नहीं दे सका।

### ३. प्रतिषेधका प्रतिषेध

द्वन्द्ववादके ध्वंस-रचना कार्यकी तीसरी सीढ़ी प्रतिषेधका प्रतिषेध है। विनष्ट-विलीन वस्तु (घटना-प्रवाह)के उत्तराधिकारी या स्थाना-पन्नको प्रतिषेध, निषेध, कहते हैं। यद्यपि प्रतिषेधका नाम कर्णकटुसा प्रतीत होता है; किन्तु साथ ही उसका महत्त्व बहुत बड़ा है; यह इसीसे पता लगेगा कि विश्वकी हर एक प्रगति, हर एक विकासमें इसका होना जरूरी है। एक पीढ़ी पहली पीढ़ीका प्रतिषेध करती है, फिर इस नयी पीढ़ी (प्रतिषेध)का प्रतिषेध अगली करती है। वैज्ञानिक भौतिकवादकी ही ओर देखिये—

पुराण भौतिकवाद



यांत्रिक भौतिकवाद



वैज्ञानिक भौतिकवाद

प्राचीन भौतिकवादका प्रतिषेध सत्रहवीं-अठारहवीं सदीके यांत्रिक भौतिकवादने किया, और उसका प्रतिषेध वैज्ञानिक भौतिकवादने; गोया वैज्ञानिक भौतिकवाद प्रतिषेधका प्रतिषेध है।

और,

अलग-अलग वैयक्तिक सम्पत्ति→

पूँजीवादी वैयक्तिक सम्पत्ति→

समाजवादी सामूहिक सम्पत्ति

पूँजीवादने अलग-अलग छोटे-छोटे व्यवसायियों, शिल्पियोंको हटाकर उत्पादनके साधनों तथा व्यवसायको पूँजीवादी संगठनके हाथमें दे दिया। समाजवाद उसका प्रतिषेधकर प्रतिषेधका प्रतिषेध बना।



मार्क्सने इस नियमके कामको दिखलाते हुए कहा है—

“एक पूँजीपति कई [ पूँजीपतियों ]को मारता है । चंद ( पूँजी-पतियों ) द्वारा बहुतसे पूँजीपतियोंके इस प्रकार हो रहे हड़पन या केन्द्रीकरणके साथ-साथ वह लगातार बढ़ते हुए पैमानेपर आगे बढ़ता जाता है—श्रमका सहयोगी ( सामूहिक ) तौरपर प्रयोग, जान-बूझकर साइंसकी यंत्र-चातुरीका विनियोग, भूमिका ठीक तौरसे कर्षण, श्रमके साधनोंका सिर्फ साभेमें ( सम्मिलित ) तौरपर ही इस्तेमाल होने लायक बन जाना, सम्मिलित समाजीकृत श्रमके उत्पादन-साधनोंके उपयोग द्वारा सभी उत्पादन-साधनोंमें मित-व्ययिताका इस्तेमाल ! उत्पादन-साधनोंका केन्द्रीकरण [ चंद हाथोंमें एकत्रित होना ] तथा श्रमका समाजीकरण [ वैयक्तिक नहीं व्यवस्थित समाजके रूपमें उपयोग ] आखिरमें एक ऐसे स्थानपर पहुँच जाता है, जहाँपर वह अपनी पूँजीवादी खोलके प्रतिकूल हो जाता है । यह खोल फट जाता है । पूँजीवादी वैयक्तिक संपत्तिका ( मरण- ) घंटा बज जाता है और हड़पक हड़पित हो जाते हैं ।”

सामन्तवादी युगकी वैयक्तिक संपत्तिको पूँजीवादने हड़पा, उसका प्रतिषेध किया, उसने पूँजी—लाभ—को वैयक्तिक रख श्रमको समाज-बद्ध किया । एक ही जगह दो विरोधी व्यवस्थाओंका समागम हुआ । दोनोंमें टकर लगी । गुणात्मक परिवर्तनसे एक नया समाजवादी समाज-शोषक-शोषित-रहित समाज—पैदा हुआ, जिसने पहलेके प्रतिषेध ( पूँजीवाद )का प्रतिषेध कर दिया ।

विरोधि-समागम होनेपर ही संघर्षद्वारा गुणात्मक परिवर्तन होता है, जिसका ही परिणाम प्रतिषेधका प्रतिषेध होता है । यह विरोधि-समागममें जिस अंश, जिस-जिस रूपमें होगा, उसीके अनुसार वह अपनी असली क्रियाओंको करानेमें सफल होगा । प्रश्न हो सकता है—जिस तरह पूँजीवादको समाजवादने प्रतिषेध किया, क्या इस प्रतिषेध (समाजवाद)का भी


कोई प्रतिषेध नहीं होगा, क्या यहाँ प्रतिषेध-प्रतिषेधका नियम लागू नहीं है ?—लेकिन यह प्रश्न गलतीसे किया गया है। प्रतिषेध प्रतिषेधके सवालको हम बीचसे नहीं उठा सकते। हमें उसे विरोधि-समागमसे पहले शुरू करना होगा। प्रश्न होगा—समाजवादी—या उससे आगेके साम्यवादी—समाजमें क्या विरोधि-समागम होगा ? निश्चय ही (शोषक-शोषित-) वर्गहीन साम्यवादी समाजमें वर्ग-संघर्ष नहीं होगा, इसलिए वहाँ इस तरहके विरोधि-समागमकी संभावना नहीं। वहाँ विरोधि-समागम उस वक्तकी साइंस-यंत्र-चातुरी तथा प्राकृतिक शक्ति और क्षमताके साथ होगा, जिसका परिणाम मानवकी क्षमताका अधिक और अधिक विकास होगा। किस तरह, किस दिशा में ?—यह प्रश्न गुणात्मक-परिवर्तनवादीसे नहीं किया जा सकता, यदि आपका वैसा विश्वास है, तो इसे किसी भृगुसंहितावालेके पास ले जाकर अपनी अकलका दिवाला बुलवाइये।

“प्रतिषेधका प्रतिषेध” कठघोड़ेके नाचकी तरह उसी चक्करपर नहीं बल्कि चक्करदार सीढ़ीकी भाँति ऊपर और ऊपर जाते पथपर होता है, यह बतलाते हुए मार्क्सने बतलाया—

“पहिली [ पूँजीवादकी सफलताकी ] अवस्थामें थोड़ेसे (परस्वत्व) अपहरण करनेवालों द्वारा जनताकी एक अत्यन्त भारी संख्याको वंचित करना [ हड़पना ] था; दूसरी [ समाजवादकी सफलताकी ] अवस्था [ ]में • जनताकी एक अत्यन्त भारी संख्या द्वारा चंद-अपहरण करनेवालोंको वंचित करना है।”

प्रतिषेध-प्रतिषेधके नियमको दर्शनके इतिहासमें देखें तो इसके बहुतसे नमूने मिलेंगे। याशवल्क्य (७०० ई०पू०)से असंग (४०० ई० पू०)के ग्यारह सौ सालोंमें प्रतिषेध-प्रतिषेध निम्न तौरसे चल रहा था—

वैदिक कर्मकांड → याशवल्क्य → ऋषिल → बुद्ध → अफलातूँ → असंग  
 और आगे—



हाँ, यहाँ प्रतिषेध-प्रतिषेधका मतलब यह न समझिये कि एकने दूसरेके सारे दर्शनका प्रतिषेध कर दिया, प्रतिषेध उसी अंशमें हुआ, जितनेमें विरोधि-समागम हुआ था ।

## पारिभाषिक शब्द

अति भौतिकवादी	} Metaphy- sician	घटना-प्रवाह—Process
अति भौतिक शास्त्री		चिंतन—Contemplation
अध्यात्मवादी		जगत्—Universe
अनीश्वरवाद—Atheism		जनक, जनकवीज—Jenus
अनुदार—Conservative		जाति—Universal
अवयवी—Whole		जाति-परिवर्तन—Mutation
आकृति—Form		जीवकोष—Cell (सेल)
आचार-विचार—Morality		जीवन—Life
आचार-शास्त्र—Ethics		तत्त्व—Elements
आत्मा—Soul, spirit		तर्क शास्त्र—Logic
आनुवंशिकता—Heredity		तापमान—Temperature
उदारवाद—Liberalism		दर्शन—Philosophy
उपयोगितावाद—Utilitarian- ism		देवशास्त्र—Theology
ऋण—Negative		धन—Positive
ऋणात्मक बिजली—Negotron		धर्म—Religions
एलेक्ट्रॉन—Negotron का ही पुराना नाम		नारा—Slogan
कल्पनामय—Abstract		नास्तिकवाद—Atheism
कार्य—Effect		नियतिवाद—Determinism
कार्यकारणसम्बन्ध—Casuality		निराकार—Abstract
गति—Motion		नेगोट्रॉन—Negotron (परमाणु- के गर्भमें स्थित तत्त्व)
गुण—Quality		न्यूट्रॉन—Neutron (परमाणुके गर्भमें स्थित तत्त्व)
गुणात्मक परिवर्तन—Qualita- tive change		परम
गुहामानव—Cave-man		परम तत्त्व
घटना—Events		परमार्थ
		} Absolute

परमाणु—Atom	प्रोटोन्—Proton (परमाणुके गर्भमें स्थित तत्त्व)
„—वाद—Atomism	बहुपति विवाह—Polyandry
परिमाण—Quantity	बहुपत्नि विवाह—Polygamy
परिवर्तन—Change	वाह्य जगत्—Phenomena
„—शील—Changeable	बैक्टीरिया—Bacteria
„—शीलता—Changeability	भूत, भौतिक तत्त्व—Matter
पूँजीवाद—Capitalism	भौतिकवाद—Materialism
पूँजीवादी—Capitalist	मज़हब—Religion
पोज़िट्रॉन्—Positron (परमाणु-के गर्भमें स्थित तत्त्व)	मतवादीय—Scolastic
प्रकृति—Nature	मन—Mind
प्रतिक्रिया } Reaction	मनुष्य मापवाद—Pragmatism
प्रति गामिता }	मानवता—Humanity
प्रतिवाद—Antithesis	मानस-प्रतिबिम्ब—Reflection
प्रतिषेध—Negation	मूर्धाभिषिक्त—Sovereign
प्रतीयमानजगत्—Phenomena	यूथविवाह—Group-marriage
प्रत्यक्ष—Perception	यंत्रचातुरी—Technique
प्रभाववाद—Pragmatism	यांत्रिक भौतिकवाद—Mechanical materialism
प्रयोग—Practice	लक्षण—Character
प्रयोजनवाद—Teleology	वस्तुवाद—Realism
प्रवाह—Continuity	वाद—Thesis, Theory
प्राकृतिक नियम—Natural Law	वास्तविकता—Reality
प्रामाण्य—Veracity of knowledge	विच्छिन्न प्रवाह—Discontinuous
प्रायिकता—Probability	ous

विज्ञान--Science, Mind	संतति, संतान—Continuity
„—वाद—Idealism	संमिलित—Co-operative
विरस्—Virus	संवाद, संश्लेषण—Synthesis
विरोधसमागम } Unity of op-	संप्रारी—Secular
विरोधिसमागम } positives	साइन्स—Science (विज्ञान)
विरोधि-अन्तर्यापन—Opposites	साकार—Objective
विश्लेषण—Analysis	साम्नी -- Co-operative
विश्व—Universe	सापेक्ष—Relative
वेदना—Sensative	„—ता—Relativity
वैज्ञानिक भौतिकवाद—Scienti-	साम्यवाद—Communism
fic Materialism	साम्यवादी—Communist
वैयक्तिक, व्यक्ति—Individual	सार—Content
शारीरिक ब्रह्मवाद—Panteism	सिद्धांत—Theory
श्वेतपरिषद—White lodge	स्वचालित यंत्र } Automa-
(थियोसोफी)	स्वयंवह यंत्र } chine
सत्य--Truth	स्वभाव } Character
सदाचार—Morality	स्वरूप } Character
समाजवाद—Socialism	हाइड्रोजन—Hydrogen
सम्पूर्ण—Whole	हेतुता } Casuality
संघर्ष—Struggle	हेतुवाद } Casuality

ग्रंथ-सूची

Karl Marx

Thesis on Feuerbach,  
Capital, On Hegel's  
philosophy of Law

Fredrich Engels

Anti-Duhring (Ludwig  
Feuerbach), Socialism  
Scientific and Utopian

Marx and Engels	German Ideology
Lenin	Holi Family
Hegel	Materialism & Empireo- criticism
Ludwig Feuerbach	Science of Logic
Voltair	Atheism
H. Levy	Essence of Christianity
John Lewis	Philosophical Dictionary
Devid Guest	Philosophy for a Modern Man
T. A. Jackson	Introduction to Philosophy
J. B. S. Haldane	Dialectical Materialism
Sir James Jeans	Dialectics (1938)
Dr. S. Radhakrishnan	Marxist Philosophy and Sciences (1938)
धर्मकीर्ति	Mysterious Universe
शान्तिदेव	Indian Philosophy, 2 vols.
श्रीहर्ष	प्रमाणवार्त्तिक
अल्बेरूनी	बोधिचर्यावतार
बुद्ध	खंडनखंडखाद्य
राहुल सांकृत्यायन	अल्-हिन्द
भगवद्गीता तथा महाभारत	दीघ-निकाय (हिन्दी)
	मज्झिम-निकाय (हिन्दी)
	विनय-पिटक (हिन्दी)
	बुद्धचर्या, विश्वकी रूपरेखा, मानव-समाज, दर्शन-दिग्दर्शन















